

ଲୋକଜୀ

लज्जा

तेलिका

तसलीमा नसरीन

अनुवादक

मुनमुन सरकार

सुरंजन सोया हुआ है। माया बार-बार उससे कह रही है, ‘मैया उठो, कुछ तो करो देर होने पर कोई दुर्घटना घट सकती है।’ सुरंजन जानता है, कुछ करने का भत्तव है कहीं जाकर छिप जाना। जिस प्रकार चूहा डर कर बिल में घुस जाता है फिर जब उसका डर खत्म होता है तो चारों तरफ देखकर बिल से निकल आता है, उसी तरह उन्हें भी परिस्थिति शात होने पर छिपी हुई जगह से निकलना होगा। आखिर क्यों उसे घर छोड़कर भागना होगा? सिर्फ इसलिए कि उसका नाम सुरंजन दत्त, उसके पिता का नाम सुधामय दत्त, माँ का नाम किरणमयी दत्त और बहन का नाम नीलांजना दत्त है? क्यों उसके माँ, बाप, बहन को घर छोड़ना होगा? कमाल, वेताल यहै दर के घर में आश्रय लेना होगा? जैसा कि दो साल पहले लेना पड़ा था। तीस अक्तूबर की सुबह कमाल अपने इस्कोटन के घर से कुछ आशका करके ही दौड़ा आया था, सुरंजन को नीद से जगाकर कहा, ‘जल्दी घलो, दो-चार कपड़े जल्दी से लेकर घर पर ताता लगाकर सभी मेरे साथ चलो। देर मत करो, जल्दी चलो।’ कमाल के घर पर उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं थी, सुबह नाश्ते में अंडा रोटी, दोपहर में मछली भात, शाम को लौन में बैठकर अद्देवाजी, रात में आरामदेह विस्तर पर सोना काफी अच्छा बीता था वह समय। लेकिन क्यों उसे कमाल के घर पर आश्रय लेना पड़ता है? कमाल उसका बहुत पुराना दोस्त है। रिश्तेदारों को लेकर वह दो-चार दिन कमाल के घर पर रह सकता है लेकिन उसे क्यों रहना पड़ेगा? उसे क्यों अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है, कमाल को तो भागना नहीं पड़ता? यह देश जितना कमाल के लिए है उतना ही सुरंजन के लिए भी तो है। नागरिक अधिकार दोनों का समान ही होना चाहिए। लेकिन कमाल की तरह वह क्यों सिर उठाये खड़ा नहीं हो सकता। वह क्यों इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैं इसी मिट्टी की संतान हूँ, मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाओ।

सुरंजन लेटा ही रहता है। माया बैचैन होकर इस कमरे से उस कमरे में टहल रही है। वह यह समझना चाह रही है कि कुछ अघट घट जाने के बाद दुखी होने से कोई फायदा नहीं होता। सी० एन० एन० टीवी पर बादरी मस्तिष्ठ तोड़े जाने का दृश्य दिखा रहा है। टेलीविजन के सामने सुधामय और किरणमयी स्तम्भित बैठे हैं। वे सौच

रहे हैं कि सन् 1990 के अक्तूबर की तरह, इस बार भी सुरंजन किसी मुसलमान के घर पर उन्हें छिपाने ते जायेगा। लेकिन आज सुरंजन को कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है उसने निश्चय किया है कि वह सारां दिन सोकर ही विज्ञाएगा। कमाल या अन्य कोई यदि लेने भी आता है तो कहेगा, 'घर छोड़कर वह कहीं नहीं जायेगा, जो होगा देखा जायेगा।'

आज दिसम्बर महीने की सातवीं तारीख है। क्रल दोपहर को अयोध्या में सरयू नदी के किनारे धना अंधकार उत्तर आया। कार सेवकों द्वारा साढ़े चार सौ वर्ष पुरानी एक मस्जिद तोड़ दी गयी। विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा घोषित कार सेवा शुरू होने के पच्चीस मिनट पहले यह घटना घटी। कार सेवकों ने करीब पाँच घंटे तक लगातार कोशिश करके तीन गुम्बद सहित पूरी इमारत को धूल में मिला दिया। यह सब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद्, आर० एस० एस० और वजरंग दल के सर्वोच्च नेताओं के नेतृत्व में हुआ और केन्द्रीय सुरक्षा वाहिनी, पी० ए० सी० और उत्तर प्रदेश पुलिस निष्क्रिय, खड़ी-खड़ी, कार सेवकों का अविश्वसनीय तांडव देखती रही। दोपहर के दो बज कर पैंतालीस मिनट पर एक गुम्बद तोड़ा गया। चार बजे दूसरा गुम्बद तोड़ा गया, चार बजकर पैंतालिस मिनट पर तीसरे गुम्बद को भी कार सेवकों ने ढहा दिया। इमारत को तोड़ते समय चार कार सेवक मलवे में दबकर मर गये और सौ से अधिक घायल हुए।

सुरंजन विस्तर पर लेटे-लेटे ही अखबार के पन्नों को उलट रहा था। आज के सभी अखबारों की बैनर हेडिंग है—वावरी मस्जिद का ध्वंस, विघ्वस्त। वह कभी अयोध्या नहीं गया, वावरी मस्जिद नहीं देखी। देखेगा भी कैसे, उसने तो कभी देश से बाहर कदम रखा ही नहीं। राम का जन्म कब हुआ था और मिट्टी को खोदकर कोई मस्जिद बनी या नहीं, यह उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता लेकिन सुरंजन यह मानता है कि सोलहवीं शताब्दी के इस स्थापत्य पर आधात करने का मतलब सिर्फ भारतीय मुसलमानों पर ही आधात करना नहीं वल्कि सम्पूर्ण हिन्दुओं पर भी आधात करना है। दरअसल यह सम्पूर्ण भारत पर, समग्र कल्याणवोध पर, सामूहिक विवेक पर आधात करना है। सुरंजन समझ रहा है कि बांग्ला देश में वावरी मस्जिद को लेकर तीव्र तांडव शुरू हो जायेगा, सारे मन्दिर धूल में मिल जायेंगे। हिन्दुओं के घर जलेंगे। दुकानें लूटी जायेंगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से कार सेवकों ने वहाँ वावरी मस्जिद को तोड़ कर इस देश के कट्टर कठमुल्लावादी दलों को और भी घजवूत कर दिया है। विश्व हिन्दू परिषद्, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल क्या यह सोच रहे हैं कि उनके उन्मत्त आचरण का प्रभाव सिर्फ भारत की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित रहेगा? भारत में साम्रादायिक हंगामे ने व्यापक आकार धारण कर लिया है मारे गये लोगों की संख्या पाँच सौ, छह सौ, हजार तक पहुँच गयी है। प्रति घंटे की रफ्तार से मृतकों की संख्या बढ़ रही है। हिन्दुओं के स्वार्थरक्षकों को क्या मातृम नहीं

है कि कम से कम दो छाई करोड़ हिन्दू बंगलादेश में हैं ? सिर्फ बंगलादेश में ही क्यों, पश्चिम एशिया के प्रायः सभी देशों में हिन्दू हैं। उनकी वेत्या दुर्गति होगी, क्या हिन्दू कठमुल्लों ने कभी सोचा भी है ? राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत कोई 'विच्छिन्न जम्बू द्वीप' नहीं है। भारत में यदि विषय फोड़े का जन्म होता है तो उसका दर्द सिर्फ भारत को ही नहीं भोगना पड़ेगा, बल्कि वह दर्द समूची दुनिया में, कम से कम पड़ोसी देशों में तो सबसे पहले फैल जायेगा।

सुरंजन आँख मूँद कर सोया रहता है। उसे धकेल कर माया बोली, तुम उठोगे कि नहीं, बोलो ! माँ, पिताजी तुम्हारे भरोसे बैठे हैं।

सुरंजन अँगड़ाई लेते हुए बोला, तुम चाहो तो चली जाओ, मैं इस घर को छोड़कर एक कदम भी नहीं जाऊँगा।

'और वे ?'

'मैं नहीं जानता ।'

'यदि कुछ हो गया तो ?'

'क्या होगा !'

'मानो घर लूट लिया, जला दिया ।'

'लूटेंगे, जलायेंगे ।'

'क्या तुम उसके बाद भी बैठे रहोगे ?'

'बैठा नहीं, तेटा रहूँगा ।'

छाती पेट सुरंजन ने एक सिमरेट सुलगायी। उसे चाय पीने की इच्छा हो रही थी। किरणमयी रोज सुबह उसे एक कप चाय देती है, पर आज अब तक नहीं दी। इस वक्त उसे कौन देगा एक कप गरम-गरम चाय। माया से बोलना बेकार है। यहाँ से भागने के अलावा फिलहाल वह लड़की कुछ भी सोच नहीं पा रही है। इस वक्त चाय बनाने के लिए कहने पर उसका गता फिर से सातवें आसमान पर चढ़ जायेगा। वह खुद ही बना सकता है पर आतस उसे छोड़ ही नहीं रहा है। उस कमरे में टेलीविजन चल रहा है। सी० एन० एन० के सामने आँखें फाइकर बैठे रहने की उसकी इच्छा नहीं हो रही है। उस कमरे से माया थोड़ी-थोड़ी देर में चीख रही है, 'मैया तेटे-लेटे अखबार पढ़ रहा है उसे कोई होश नहीं ।'

सुरंजन की होश नहीं है, यह बात ठीक नहीं। वह जानता है कि किसी भी समय दरवाजा तोड़कर एक झूण्ड आदमी अन्दर आ सकते हैं, उनमें कई जाने, कई अनजाने होंगे। घर के सामान तोड़-फोड़कर, लूटपाट करेंगे और जाते-जाते घर में आग भी लगा देंगे। ऐसी हालत में कमाल या हैदर के घर आश्रय लेने पर कोई नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ जगह नहीं है लेकिन उसे जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। माया चिल्ला रही है तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं अकेती ही चत्ती जा रही हूँ। पारुल के घर चत्ती

जाती हूँ। भैया कहीं ते जाने वाते हैं, मुझे नहीं लगता। उसे जीने की जल्दत नहीं होगी, मुझे है !

जाया समझ गई है कि चाहे कारण कुछ भी हो सुरंजन जाज उन्हें किसी के घर छिपने के लिए नहीं ते जायेगा। निव्वपाय होकर उसने खुद ही अपनी सुरक्षा के दारे में लौंचा है। 'सुरक्षा' शब्द ने सुरंजन को काजी सताया है।

सुरक्षा नव्वे के जब्बूद्ध में भी नहीं थी। प्रसिद्ध ढाकेश्वरो मन्दिर में जाग लगा दी गयी थी, पुतिस्त निषिद्ध थोकर सामने खड़ी तमाशा देखती रही। कोई लकावट नहीं डाती गयी। नुख्य नन्दिर जल कर राख हो गया। जन्दर बुझ कर उन तोणों ने देवी-देवताओं के लासन को विघ्नत कर दिया। उन्होंने नटनन्दिर, शिवनन्दिर, जटियिगृह उसके बगत में स्थित श्री दाम घोष का लादि निवास, गौड़ीय मठ का मूल नन्दिर, नटनन्दिर, जटियिशास्त्र जादि जा घंस करके मन्दिर की जम्पाते तूट ती। उसके बाद निर नाथ गौड़ीय मठ के मूल मन्दिर का भी घंस कर डाला। जपकातो नन्दिर भी चूर-चूर हो गया। इब्ब स्तनाज की चारदोपारी के भीतर वाले क्लरे को बम से छड़ा दिया गया। राम-सौता मन्दिर के भीतर लार्कर्पक कान किया हुआ सिंहासन टोड़लोड़ कर उसके नुख्य क्लरे को नष्ट कर दिया। नया बाजार के मठ को भी तोड़ दिया गया। दक्षात नन्दिर को संदेत से तोड़ा गया। शंखारी बाजार के तानने स्थित हिन्दुओं की सीढ़े दुकानों में तूटपाट ब होड़फोड़ के बाद उन्हें जला दिया गया। शिला नितन, सुन्न इंडर्स, कैल्पून और दापर की दुकान, हॉस्टो, बीता नार्दत, साहा कैबिनेट, लेटरैन्ट-कुउ भी उसके तांडव से बच नहीं पाया।

शंखारी बाजार के नोड पर सेता घंस-चड़ा हुआ कि दूर-दूर तक जहाँ भी नजर लगी, घंस हिन्दों के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता था। डेनर शानि जडाइ का मन्दिर भी दूरा गया। घंसीत परिवारों का बर-द्वार चुद कुछ दोतीन भी साम्राज्यिक हैंडलेटों का दूरा दूरा गया। हम्मी बाजार के चैरमन मन्दिर की ओर तोड़ कर जन्दर का सब कुछ नष्ट कर दिया गया। इस्तानबुर रोड की दुकान और सोने की दुकानों की दूर कर उनमें जाग जाग भी नहीं। नवाबदुर रोड पर स्थित नरणदांद की निठाई की दुकान, तुरता पट्टन बाजार की नरणदांद की दुकान जादि को भी तोड़ दिया गया। यह बाजार के छहती मन्दिर को तोड़ कर दहों की दूरी को रात्से पर फेंक दिया गया। दुर्घट्टुर ने हिन्दुओं की दुकानों को चूट कर, तोड़ कर उनमें सुकृतमानों के नाम पट्ट लेकर दिये गये। नवाबदुर के 'घोष एन्ड नन्स' की निठाई की दुकान को चूट कर उक्केले नवाबदुर दुध यूनियन ब्लॉक का एक बैनर लेटका दिया गया। नवाबदुर की 'रामपन चक्की' कालक ब्राउन दुकान को भी चूटा गया। बादू बाजार तुम्हें चैजी से नम्र कुछ बह की दुरी पर लगास्त शुक्रजात निष्टाल धंडार' को छुट के लिया दिया गया। चट्टवंश की प्रसिद्ध दुकान 'एतोन एण्ड कम्पनी' के करखाना व दुकान को इस तरह लौंचा गया कि स्थितिग फैन से लेकर चब कुछ

भसीभूत हो गया। ऐतिहासिक सौंप मन्दिर का काफी हिस्ता तोड़ दिया गया। सदरपाट मोड़ में स्थित रतन सरकार मार्केट भी पूरी तरह ध्वस्त हो गयी।

सुरेजन की आँखों के सामने उभर आया नब्बे की तूटपाट का भयावह दृश्य। क्या नब्बे की घटना को दंगा कहा जा सकता है? दंगा का अर्थ मारपीट—एक सम्प्रदाय के साथ दूसरे सम्प्रदाय के संघर्ष का नाम ही दंगा है लेकिन इसे तो दंगा नहीं कहा जा सकता। यह है एक सम्प्रदाय के ऊपर दूसरे सम्प्रदाय का हमता। अत्याधार, खिड़की से होकर धूप सुरेजन के तलाट पर पड़ रही है। जाड़े की धूप है इस धूप से बदन नहीं जलता। लेटे-सेटे उसे चाय की तलव महसूस होती है।

अब भी सुधामय की आँखों में वह दृश्य बसा हुआ है। चाचा, दुआ, मामा, मौसी सभी एक-एक कर देश छोड़कर जा रहे हैं। मयमनसिंह जंक्शन से फूल बाड़ी की तरफ के लिए गाड़ी छूटती है। कोयते का इंजन धुआँ छोड़ता हुआ सीटी बजाकर चल देता है। गाड़ी के डिब्बे से हृदय विदारक रोने की आवाज आ रही है। पड़ोसी भी जाते-जाते कह रहे हैं, 'सुकुमार, चलो! यह मुसलमानों का होम्हैंड है। यहाँ अपनी जिन्दगी की कोई निश्चयता नहीं है।' सुकुमार दत्त जुवान के पक्के हैं, उन्होंने कहा, 'अपनी मारुभूमि में यदि निश्चयता नहीं है तो फिर दृष्टि के किस स्थान पर होगी? देश छोड़कर मैं भाग नहीं सकता। तुम लोग जा रहे हो तो जाओ। मैं अपने पुरछों की जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। नारियल, सुपारी का बगीचा, खेती-बाड़ी, जमीन-जायदाद, दो बीघा जमीन पर बना हुआ मकान, यह सब छोड़कर सियालदह स्टेशन का शरणार्थी बनूँ, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है।' सुधामय तब उन्नीस वर्ष के थे। कांतेज के दोस्त उनके सामने ही चते जा रहे थे। उन्होंने कहा था, 'तुम्हारे पिताजी बाद में पछताएँगे।' सुधामय ने भी उस समय अपने पिता की तरह बोलना सीखा था, 'अपना देश छोड़कर दूसरी जगह ब्यां जाऊँगा? मर्हंगा तो इसी देश में और जीऊँगा भी तो इसी देश में। 1947 में कांतेज खाली हो गया। जो नहीं गये थे, वे भी जायेंगे कह रहे थे। उंगलियों पर गिने जाने लायक कुछ मुसलमान छात्र और बचे हुए कुछ दरिद्र हिन्दुओं के साथ कांतेज पास करने के पश्चात् सुधामय लिटन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गये।

1952 में वे चौबीस वर्षीय गरम खून के युवक थे। ढाका के रास्ते में जब 'राष्ट्रभाषा बांग्ता होनी चाहिए' का नारा लगाया जा रहा था तब सारे देश में उत्तेजना की सहर दौड़ गई। 'उर्दू ही पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा होगी'—मुहम्मद अंती जिन्ना के इस सिद्धान्त को सुनकर साहसी और प्रबुद्ध बंगाली युवक उत्तेजित हो गये थे। बांग्ता को राष्ट्रभाषा बनाने की माँग को लेकर पाकिस्तानी शासक दत के सामने वे दूकी हुई

रीढ़ की छाँटी को अब सीधा कर, तन कर खड़े हो गये। विरोध किया, पुलिस की गोली खाकर मौत को अपनाया, खून से लथपथ हो गये। लेकिन किसी ने राष्ट्रभाषा बांग्ला होने की मांग नहीं छोड़ी। सुधामय उस समय काफी उत्तेजित थे, जुलूस के सामने खड़े होकर 'बांग्ला चाहिए' का नारा लगाया था। जिस दिन पुलिस की गोली से रफीक सलाम, वरकत, जब्बर ने जान दी थी, सुधामय भी उसी जुलूस में थे। गोली उन्हें भी लग सकती थी। वे भी देश के महान शहीदों में एक हो सकते थे। उन्हतर के आन्दोलन में भी सुधामय घर पर बैठे नहीं थे। उस समय अयूबखान के आदेश पर पुलिस जुलूस देखते ही गोली चलाती थी। तब भी बंगाली 'ग्यारहवीं दफा' की मांग को लेकर गोली से मरे आलमगीर मंसूर, मिंटू की लाश को कंधे पर उठाये वे मयमनसिंह की सड़कों पर धूमे थे, उनके पीछे सैकड़ों शोक संतप्त बंगाली, पाकिस्तानी सैनिकों के विरुद्ध फिर एक बार कमर कस कर उतरे थे।

1952 का भाषा आन्दोलन, 1954 का संयुक्त फ्रंट निर्वाचन, 1962 का शिक्षा आन्दोलन, 1964 का फौजी शासन विरोधी आन्दोलन, 1966 में छह दफा आन्दोलन, 1968 का अगरतल्ला घट्यंत्र मामला विरोधी आन्दोलन, 1970 का आम चुनाव और 1971 का मुक्ति युद्ध इस बात को प्रमाणित करते हैं कि द्विजातीय आधार पर देश विभाजन का सिद्धान्त सरासर गलत था। अबुल कलाम आजाद ने कहा था—

It is one of the greatest frauds on the people to suggest the religious affinity can unite areas which are geographically, economically, linguistically and culturally different. It is true that Islam sought to establish a society which transcends racial, linguistic, economic and political frontiers. History has however proved that after the first few decades or at the most after the first century, Islam was not able to unite all the Muslim countries on the basis of Islam alone.

जिन्ना भी द्विजातीय खोखलेपन की बात को जानते थे। माउंटवेटन ने जब पंजाब और बंगाल के विभाजन की बात कही थी, तब जिन्ना ने ही कहा था—

A man is Panjabi or Bengali before he is Hindu or Muslim. They share a common history, language, culture and economy. You must divide them. You will cause endless bloodshed and trouble.

सन् 1947 से 1971 तक 'बंगाली जाति' को अनंत रक्तपात और कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थीं, जिसकी चरम परिणति 1971 का मुक्ति युद्ध था। तीस लाख बंगालियों के खून के बदले में प्राप्त आजादी इस बात को प्रमाणित करती है कि धर्म कभी जाति-सत्ता की नींव पर नहीं रह सकता। जाति-सत्ता की नींव भाषा-संस्कृति, इतिहास आदि हैं। यह सच है कि पंजाबी मुसलमान के साथ बंगाली मुसलमान की 'एक जातीयता' एक दिन पाकिस्तान द्वारा ही लायी गयी थी लेकिन हिन्दू-मुसलमान की द्विजातीयोत्तर धारणा को तोड़कर इस देश के बंगालियों ने सिद्ध कर दिया है कि

उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ सुलह नहीं की।

इकहत्तर में सुधामय मयभनसिंह के एक अस्पताल में डॉक्टर थे। उस समय वे पर और बाहर दोनों जगह काफी व्यस्त रहते थे। शाम को स्वदेशी बाजार में एक दवा की दुकान पर बैठते थे। तब किरणमयी की गोद में छह महीने का बच्चा था। बड़े बेटे सुर्जन की उम्र बारह वर्ष थी। इसलिए उनका उत्तरदायित्व कम नहीं था। अस्पताल में भी उनको अकेते ही सब कुछ सम्भालना पड़ता था। उसी बीच समय मिलते ही शरीफ के साथ अड्डेबाजी करने जाते थे। वह मार्च की सात या आठ तारीख होगी। रेसकोर्स के मैदान में शेख मुजीब का भाषण सुनकर आये शरीफ, बबत्तू, फैजुल, निमाई ने रात के बारह बजे आकर सुधामय के ब्रह्मपत्ती के घर का दरवाजा खटखटाया। शेख मुजीबुर्रहमान ने जनसमा को सम्बोधित करते हुए कहा है—‘यदि एक भी गोती और चली, यदि मेरे और एक भी आदमी की हत्या की गई, तो फिर आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि घर-घर को दुर्ग बना डालें। जिसके पास जो है, उसे लेकर ही मुकाबला करना होगा। हमारा संग्राम मुक्ति का संग्राम है। हमारा संग्राम स्वाधीनता का संग्राम है।’ वे गुस्से से कौप रहे थे। टेबिल ठोकते हुए बोले, ‘सुधादा, कुछ तो करना होगा। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा।’ यह तो सुधामय भी समझ रहे थे। इसके बाद पच्चीस मार्च की वह काली रात आयी। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सैनिकों ने सोये हुए बंगालियों के ऊपर अचानक हमला बोल दिया। दोस्तों ने आकर सुधामय के घर का दरवाजा भी खटखटाया था और फुसफुसाहट के साथ कहा था, ‘युद्ध में जाना होगा। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है।’ भरापूरा परिवार छोड़कर युद्ध में जाना, फिर उनकी उम्र भी कुछ युद्ध में जाने की नहीं थी। फिर भी अस्पताल में उनका मन नहीं तग रहा था। कॉरीडोर में अकेते टहलते रहे। युद्ध में जाने की एक तीव्र इच्छा रह-रहकर उन्हें हिलोर रही थी। घर पर भी वे अन्यमनस्क हो रहे थे। किरणमयी से कहा, ‘किरण, क्या तुम अकेते घर सम्भाल लोगीं? मान लो मैं कहीं चला गया।’ किरणमयी आशंका से नीला पड़ गई। बोली, ‘चलो, इण्डिया चले जाते हैं। आस-पड़ीस के सभी इण्डिया चले जा रहे हैं।’ सुधामय ने स्वद भी पाया कि सुकात घटोपाध्याय, सुधांशु हालदार, निर्मलेन्दु भौमिक, रंजन चक्रवर्ती सभी घते जा रहे हैं, सैतातीस में जिस तरह से चले जाने की धूम मची थी, उसी तरह। उन लोगों को वे ‘कावार्ड’ कहकर गाली देते थे। निमाई ने एक दिन सुधामय से कहा, ‘सुधादा, सेना शहर के रास्ते में टहलदारी कर रही है। वे हिन्दुओं को पकड़ रहे हैं, चिंग मांग जाते हैं।’ सैतातीस में सुकुमार दत्त के कण्ठ में जैसी दृढ़ता थी, वही दृढ़ता सुधामय अपने कण्ठ में धारण किये हुए हैं। उन्होंने निमाई से कहा, ‘तुम जाते हो तो जाओ, मैं भागने चाला नहीं हूँ। पाकिस्तानी कुत्तों को मारकर देश आजाद करना है। और, हो सके तो उस समय लौट आना।’ तथा हुआ फैजुल के फूतपुर वाले गाँव के मकान में किरणमयी को रखकर शरीफ, बबत्तू, फैजुल के साथ नालिताबाड़ी की तरफ चल

लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों पकड़े गये। ताला खरीदने के लिए निकले थे। 'चरपाड़ा मोड़' में कोई ताला मिलता है या नहीं, यदि मिल जाता है तो घर पर ताला लगाकर रात के अँधेरे में भैंसागड़ी में चढ़ वैठेंगे। उत्तेजना और आवेग से उनका दिल बैठा जा रहा है। शहर शमशान की तरह सुनसान है। एक-दो दुकानों का दरवाजा आधा खुला हुआ है। अचानक 'हाल्ट' कहकर उन्हें रोक लिया गया। वे तीन थे। एक ने धीरे से कालर खींचकर कहा, 'क्या नाम है ?'

सुधामय क्या नाम बोलें, सोच ही रहे थे कि उन्हें याद आया किरणमयी ने कहा था, उससे पड़ोसियों ने कहा है कि जिन्दा रहने के लिए नाम बदलना होगा। फातिमा अख्तर जैसा कुछ नाम रखना होगा। सुधामय ने सोचा, उनका हिन्दू नाम अवश्य ही इस वक्त निरापद नहीं है। वे भूल गये अपना नाम, पिता का नाम सुलुमार दत्त, दादा का नाम ज्योतिर्मय दत्त। सुधामय खुद का कण्ठ-स्वर सुनकर खुद ही चौंक गये जब उनके कण्ठ से खुद-व-खुद अपना नाम निकला—सिराजुद्दीन हुसैन। नाम सुनकर एक ने भारी भ्रक्तु आवाज में गुर्दा कर कहा, 'लुंगी खोलो।' सुधामय ने लुंगी नहीं खोती। वे खुद ही उनकी लुंगी उतार लिये थे। सुधामय ने तब समझा था कि निराई, सुधांशु, रंजन क्यों भाग गये ! भारत विभाजन के बाद काफी संख्या में हिन्दुओं ने देश त्याग दिया। साम्राज्यिकता की बुनियाद पर भारत-पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद हिन्दुओं के लिए सीमा खुली हुई थी। उस वक्त काफी संख्या में हिन्दू विशेषकर उच्च व मध्य वर्ग के शिक्षित हिन्दू भारत चले गये। 1981 की जनगणना के अनुसार देश में हिन्दू धर्मावलंबियों की संख्या एक करोड़ 5 लाख 70 हजार यानी पूरी जनसंख्या का 12.1 प्रतिशत थी। पिछले आठ वर्षों के दौरान यह संख्या बढ़कर अवश्य ही सवा से डेढ़ करोड़ हो गयी होगी। यह अनुमान सरकारी गणना के आधार पर किया गया है जबकि सुधामय का अनुमान है कि जनगणना में भी भेदभाव किया जाता है। हिन्दू धर्मावलंबियों की सही संख्या सरकारी हिसाब से बहुत अधिक है। करीब दो करोड़ के आसपास। कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत हिन्दू इस देश में हैं। 1901 की जनगणना के अनुसार पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं की संख्या 33.1 प्रतिशत थी। 1911 में यह संख्या घटकर 31.5 प्रतिशत हो गई। 1921 में 30.6 प्रतिशत, 1931 में 29.4 प्रतिशत और 1941 में 28 प्रतिशत रह गयी। इकतालीस वर्ष में भारत विभाजन से पहले हिन्दुओं की संख्या में पूर्वी बंगाल में पाँच प्रतिशत की कमी आयी थी। लेकिन विभाजन के बाद दस वर्षों में ही हिन्दुओं की संख्या 28 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत हो गयी। यानी चालीस वर्षों में जो कमी आयी, वह महज दस वर्षों में आ गयी। पूरे पाकिस्तान से धीरे-धीरे हिन्दू भारत जाने लगे। 1961 की जनगणना के अनुसार हिन्दुओं की संख्या 18.5 प्रतिशत थी, जो कि 1974 में घटकर 13.5 प्रतिशत हो गयी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हिन्दुओं की संख्या में विभाजन के पहले की ही तरह कमी आयी। 1974 में हिन्दुओं की संख्या 13.5

प्रतिशत थी, 1981 में यदि यह 12.1 प्रतिशत होती है तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक पहले की तुलना में कम हुए हैं। तेकिन पलायन रुका ही कब और किस साल में—तिरासी, चौरासी, पचासी, नवासी या नव्वे में। इस देश में क्या नव्वे के बाद भी हिन्दुओं की संख्या में कभी नहीं आयेगी? या फिर बानवे के बाद? सुधामय अपनी छाती के बाधी तरफ एक दर्द महसूस करने लगे। यह उनका पुराना दर्द है। सिर के पीछे की तरफ भी दर्द हो रहा है। शायद प्रेसर बढ़ गया है। सी० एन० एन० में बाबरी मस्जिद का प्रसंग आते ही उस दृश्य को बन्द कर दिया जा रहा है। सुधामय का अनुमान है, इस दृश्य को देखते ही लोग हिन्दुओं के ऊपर टूट पड़ेंगे इसलिए सरकार दया कर रही है। तेकिन खरोंच लगते ही टूट पड़ने की जिन्हें आदत है, क्या वे आर० सी० एन० का दृश्य देखने का इन्तजार करेंगे? सुधामय छाती का बायां हिस्सा पकड़कर लेट गये। माया तब भी बैचैनी से बरामदे में टहत रही थी। वह कहीं चले जाना चाह रही है। सुरंगन के न उठने पर कहीं जाना भी तो सम्भव नहीं हो रहा। सुधामय, बरामदे पर जहाँ धूप आकर पड़ी है, अपनी असहाय दृष्टि डालते हुए हैं। माया की छाया लम्बी हो रही है। किरणमयी स्थिर बैठी हुई है, उसकी भी आँखों में कितनी याचना है—चलो जीये! चलो, चले जाते हैं! तेकिन घर द्वार छोड़कर कहाँ जायेंगे सुधामय! इस उम्र में पहले की तरह भाग दौड़ करना संभव है? पहले जिस तरह जुलूस देखते ही दौड़कर चले जाते थे, घर उन्हें रोक नहीं सकता था, वैसी शक्ति अब उनमें कहाँ। उन्होंने सोचा था कि आजाद और असाम्ब्रादायिक बंगला देश में वे अपने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आजादी का उपयोग करेंगे। तेकिन धीरे-धीरे इस देश के ढाँचे में धंसती जा रही है धर्मनिरपेक्षता। इस देश का राष्ट्रधर्म अब इस्ताम है। जिस कट्टरपंथी साम्ब्रादायिक दत्त ने इकहत्तर के मुक्ति युद्ध का दिरोध किया था और जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विल में छुप गया था, आज उसने बित से अपना सिर निकाल लिया है। वह आज गर्वित होकर धूम रहा है, जुलूस निकाल रहा है, बैठकें कर रहा है। उसी ने नव्वे के अक्तूबर में हुए दंगे-फसाद में हिन्दुओं के मन्दिर, घर-द्वार लूट कर, तोड़-फोड़ कर आग लगा दी थी।

सुधामय आँखें मूँद कर लेटे रहे। उन्हें मालूम नहीं है कि इस बार क्या होने वाला है। उत्तेजित हिन्दुओं ने बाबरी मस्जिद तोड़ दी है। उनके पाप का प्रायशिच्छत अब बंगला देश के हिन्दुओं को करना होगा। बंगला देश के अल्पसंख्यक सुधामयों को नव्वे में हुए दंगे की चपेट से भी रिहाई नहीं मिली थी। फिर बानवे में कैसे मिल जायेगी। इस बार भी सुधामय जैसों को चूहे के विल में जाकर छुपना होगा। क्या सिर्फ हिन्दू हैं इसीलिए? हिन्दुओं ने मारत में मस्जिद तोड़ी है, इसकी भरपायी सुधामय क्यों करेंगे। वे फिर बरामदे में पड़ रही माया की छाया को देखने लगे। छाया हितते-हितते अचानक अदृश्य हो गई। माया पिता के कमरे में घुसी। उसके श्यामल माघनी चेन्, पर बूँद-बूँद पसीने की

तरह आशंका जमा हो गई थी। माया ने झल्ला कर कहा, 'तो फिर, तुम लोग यहीं पड़े रहो, मैं जा रही हूँ।' किरणमयी ने डॉटकर पूछा, 'कहा जाओगी?' माया जल्दी-जल्दी बाल झाइकर बोली, 'पारुल के घर। तुम्हें यदि जीने की इच्छा नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। लगता है ऐसा भी कहीं नहीं जायेंगे।'

चेहरे पर उत्कंठा का भाव लिये सुधामय ने पूछा, 'और अपने 'नीलांजना दत्त' नाम का क्या करोगी?' तुरन्त उन्हें अपना 'सिराजुद्दीन' नाम याद आया। माया का कंठस्वर थोड़ा कौंपा। फिर बोली, 'ला इलाहा इल्लाल्लाहु मुहम्मदुर रसुलुल्लाह' कहने पर कहते हैं कि मुसलमान बना जा सकता है। वही बनूँगी। नाम होगा, 'फिरोजा वेगम।'

'माया!' किरणमयी ने माया को रोकना चाहा।

माया ने गर्दन टेढ़ी करके किरणमयी को देखा। मानो वह गलत नहीं कर रही हो, यही स्वाभाविक है। सुधामय ने लम्बी साँस छोड़कर फटी-फटी नजरों से एक बार माया को, फिर किरणमयी को देखा। माया ने न तो सैंतालीस का देश-विभाजन देखा है, न पचास का दंगा और न इकहत्तर का मुक्ति युद्ध। होश सम्भालने के बाद देखा है देश का राष्ट्रधर्म इस्लाम है, देखा है उसने और उसके परिवार ने कि अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के व्यक्तियों को समाज के साथ अनेक तरह का समझौता करना पड़ता है। उसने नब्बे की भीषण आग देखी है। इसलिए उपनी जिन्दगी बचाने के लिए माया किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। माया अन्धी आग में जलना नहीं चाहती। सुधामय की आँखों की शून्यता माया को निगल लेती है। उन्हीं के सामने वह कहती है कोई अब जरा भी रुक नहीं सकता। सुधामय के सीने में एक तीव्र वेदना धीरे-धीरे बढ़ती गयी।

सुरंजन की चाय की तलव नहीं मिटती। वह उठकर नल की तरफ जाता है। मुँह धोये विना ही एक कप चाय पीने से अच्छा होता। माया की कोई आवाज नहीं आ रही। क्या वह लड़की चली गई है? सुरंजन मंजन करता है, काफी समय तक मंजन करता रहा। घर में एक अजीव-सा, गम्भीर माहौल है, मानो अभी-अभी कोई मरने वाला है। अभी तुरन्त विजली गिरने वाली है और सभी अपनी-अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुरंजन चाय की तलव लिए हुए सुधामय के कमरे में आता है, विस्तर में पैर चढ़ाकर आराम से बैठता है। माया कहाँ है? सुरंजन के सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। किरणमयी खिड़की के सामने उदास बैठी हुई थीं। वह कुछ न कहकर चुपचाप उठकर रसीई में चली गई। सुधामय छज्जे की ओर भावविहीन दृष्टि से देख रहे थे, आँख मूँद कर करवट बदलकर लेट गये। सम्भवतः कोई उसे यह खबर देने

की जरूरत महसूस नहीं कर रहा है। वह समझता है कि वह ठीक ढंग से अपने कर्तव्य का पातन नहीं कर रहा है। उसे जो करना चाहिए था अर्थात् परिवार के सभी सदस्यों को लेकर कहीं भाग जाना चाहिए था, वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। या फिर ऐसा करने की इच्छा नहीं है। सुरंजन जानता है कि माया जहाँगीर नाम के एक लड़के से प्यार करती है। मौका मिलते ही वह उसके पास मिलने जायेगी। जब एक बार घर से निकलती ही है तो फिर चिन्ता किस बात की। ढंग शुल्ह होने पर हिन्दू परिवारों का हालचाल पूछना मुसलमानों का एक तरह का फैशन है। यह फैशन अवश्य ही जहाँगीर भी करेगा और माया उससे धन्य हो जायेगी। माया ने यदि किसी दिन जहाँगीर से शादी कर ली तो ! माया से दो क्तास आगे पढ़ता है वह तड़का। सुरंजन को संदेह है कि जहाँगीर अंततः माया से शादी नहीं करेगा। सुरंजन खुद भुक्तभोगी है इसीलिए समझ सकता है। उसकी भी तो शादी परवीन के साथ होते-होते रह गयी। परवीन ने कहा था, तुम मुसलमान बन जाओ। सुरंजन का कहना था धर्म बदलने की क्या आवश्यकता है। इससे तो अच्छा है कि हम दोनों अपना-अपना धर्म मानेंगे। यह प्रस्ताव परवीन के परिवार वालों को नहीं जँचा। उन लोगों ने एक विजनेसमैन के साथ परवीन की शादी तय कर दी। परवीन भी रो-घोकर शादी के मंडप में चली गई।

सुरंजन उदास नजरों से एक टुकड़ा बरामदे की तरफ देखता रहा। किराये का मकान है न आँगन है, न टहलने और दौड़ने के लिए मिट्टी। किरणमयी चाय का प्याला लिये हुए कमरे में आती है। मौं के हाथ से चाय का प्याला लेते हुए सुरंजन ने इस तरह से कहा, 'दिसम्बर आ गया, लेकिन सर्दी नहीं पड़ी, बचपन में जाड़े की सुबह में खजूर का रस पीया करता था,' मानो कुछ हुआ ही नहीं हो।

किरणमयी ने लम्बी सौंस छोड़ते हुए कहा, 'किराये का मकान है, यहाँ खजूर का रस कहाँ मिलेगा। अपने ही हाथों लगाये पेड़-पीधों वाला मकान तो पानी के भाव बेच आयी।'

सुरंजन चाय की चुसकी लेता है और उसे याद आ जाता है खजूर काटने वाले रस की हँड़ी उतार लाते थे। माया और वह पेड़ के नीचे खड़े ठिठुरते रहते थे। बात करने पर उनके मुँह से धुओं निकलता था। वह खेलने का मैदान, आम, जामुन, कटहल का बगीचा आज कहाँ है ! सुधामय कहते थे, यह है तुम्हारे पूर्वजों की मिट्टी इसे छोड़कर कभी कहीं मत जाना।

अन्ततः सुधामय दत्त उस मकान को बेचने के लिए बाध्य हुए थे। जब माया छह वर्ष की थी तब एक दिन स्कूल से घर लौटते समय कुछ अजनबी उसे उठा ले गये थे। शहर में काफी तलाश करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला था। वह किसी रिश्तेदार के घर नहीं गई, जान-पहचान वालों के घर भी नहीं गई, वह एक टेनशन की घड़ी थी। सुरंजन ने अनुमान लगाया था कि एडवर्ड स्कूल के गेट के सामने कुछ लड़के पाकेट में छुरा लिए हुए अड़ेबाजी करते थे, वे ही माया को उठा ले गये होंगे।

दो दिनों के बाद माया खुद-ब-खुद चल कर घर आ गयी थी, अकेले। उस समय वह कुछ बता नहीं पायी थी कि वह कहाँ से आ रही है, कौन लोग उसे पकड़ ले गये थे। पूरे दो महीने तक माया असामान्य आचरण करती रही। नींद में भी चौंक जाती थी। आदमी देखते ही डर जाती थी। रात-रात भर घर पर पथराव होने लगा। बेनामी चिट्ठियाँ आने लगीं कि वे माया का अपहरण करेंगे। जिन्दा रहने के लिए रूपया देना होगा। सुधामय शिकायत दर्ज करने के लिए थाना में भी गये थे। थाने में पुलिस ने सिर्फ नाम-धाम पता आदि लिख लिया था, बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं। वे लड़के घर में घुसकर बगीचे से फल तोड़ लेते, सब्जी बगान को पैरों से कुचल देते, इतना ही नहीं, फूलों को भी नष्ट कर देते थे कोई कुछ बोल नहीं सकता। मुहल्ले के लोगों के सामने भी इस समस्या को रखा गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका कहना था, हम लोग क्या कर सकते हैं? यही सिलसिला चलता रहा। अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर सुरंजन ने समस्या को सुलझाना चाहा था। शायद समाधान भी किया जा सकता था, लेकिन सुधामय ने नहीं माना। उन्होंने निर्णय लिया कि मयमनसिंह से तबादला करा लेंगे। घर बैच देंगे। घर बैचने का एक और भी कारण था। इस घर को लेकर लम्बे समय से मुकदमा चल रहा था। उनके पड़ोसी शौकत अली जाली दलील दिखाकर घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इसे रोकने के लिए लम्बे समय से कोर्ट-कचहरी की भाग-दौड़ करते-करते सुधामय अब आजिज आ गये थे। सुरंजन घर बैचने के पक्ष में नहीं था। वह उस समय कॉलेज में पढ़ने वाला गर्म खून का युवक था। छात्र संघ से कॉलेज संसद के निर्वाचिन में खड़ा होकर जीता है। वह अगर चाहे तो उन बदमाशों को सीधा कर सकता है लेकिन सुधामय घर बैचने के लिए उद्विग्न हो गये। वे और इस शहर में नहीं रहेंगे, ढाका चले जायेंगे। इस शहर में उनकी डॉक्टरी भी ठीक से नहीं चल रही थी। स्वदेशी बाजार की फार्मेसी में शाम को बैठते थे। रोगी नहीं आते, दो-चार आते भी तो वे हिन्दू दरिद्र। इतने दरिद्र कि उनसे पैसा लेने की इच्छा ही नहीं होती। सुधामय की उद्विग्नता देखकर सुरंजन ने भी जिद नहीं की। अब भी उसे दो बीघा जमीन पर बने अपने विशाल मकान की याद आती है। उस वक्त दस लाख रुपये के मंकान को सुधामय ने मात्र दो लाख रुपये में रईसउद्दीन साहब के हाथों बेच दिया। फिर किरणमयी से बोते, 'चलो-चलो सामान वाँधकर तैयार हो जाओ।' दहाड़ मार-मार कर किरणमयी रोई थी। सुरंजन को यकीन नहीं आ रहा था कि सचमुच वे लोग यहाँ से जा रहे हैं। जन्म से ज़ाना-पहचाना घर-द्वार छोड़कर, शैशव के क्रीड़ा स्थल को छोड़कर, ब्रह्ममुत्र छोड़कर, यार-दोस्तों को छोड़कर जाने की उसकी इच्छा नहीं थी। जिस माया के लिए सब कुछ छोड़कर जा रहे थे वही माया गर्दन हिला-हिलाकर कह रही थी, 'मैं सूफिया को छोड़कर नहीं जाऊँगी।' सूफेया उसकी बचपन की सहेती थी। पास में ही उसका घर था। शाम को आँगन में बैठकर दोनों गुड़े-गुड़ियों का खेल खेलती थीं। वह भी माया

में जकड़ गई थी। मगर सुधामय ने किसी की नहीं सुनी। यद्यपि उनका सम्बन्ध ही वहाँ से ज्यादा था। उन्होंने कहा, 'जिन्दगी के अब दिन ही कितने बाकी रह गये, अन्तिम दिनों में बाल-बच्चों को लेकर जरा निश्चित जिन्दगी विताना चाहता हूँ।'

क्या निश्चित जीवन विताना कहीं भी सम्भव है? सुरंजन को मातृमूर्ति है, यह सम्भव नहीं। जिस दाका में आकर सुधामय निश्चित हुए थे, उसी दाका में, एक स्वतंत्र देश की राजधानी में, सुधामय को घोती छोड़कर पाजामा पहनना पड़ा। सुरंजन को अपने पिता के दर्द का एहसास हो रहा था। वे जुबान से कुछ नहीं कहते थे फिर भी उनकी आहें दीवारों से टकराती रहती थीं। सुरंजन यह सब कुछ समझ रहा था। उनके सामने एक दीवार थी, वे ताख कोशिश करने के बावजूद उस दीवार का अतिक्रमण नहीं कर पाये। न सुधामय, न ही सुरंजन।

सुरंजन बरामदे की धूप की तरफ एकटक देखता रहा। अचानक दूर से आने वाली एक जुलूस की आवाज से वे सजग हुए। जुलूस के सामने आने पर सुरंजन उस जुलूस में लगाए जा रहे नारे को समझने की कोशिश करने लगा। सुधामय और किरणमयी भी कान लगाये हुए थे। सुरंजन ने देखा कि किरणमयी ने उठकर छिड़की बंद कर दी। छिड़की बन्द करने के बावजूद जब जुलूस घर के सामने से गुजर रहा था तब उसका नारा स्पष्ट सुनाई दे रहा था--'एक-दो हिन्दू धरो, सुबह-शाम नाश्ता करो।' सुरंजन ने देखा सुधामय काँप गये। किरणमयी बन्द छिड़की की तरफ पीछ करके स्थिर खड़ी थी। सुरंजन को याद आया कि नब्बे में भी इन लोगों ने यही नारे लगाये थे। वे हिन्दुओं का नाश्ता करना चाहते हैं। मतलब निगल जाना चाहते हैं। इस बक्त वे सुरंजन को अगर पा जायें तो चबा जायेंगे। वे कौन हैं? मुहल्ते के लड़के ही तो! जब्बार, रमजान, आत्मगीर, कवीर, अबेदिन यही लोग तो! ये दोस्तों की तरह, छोटे भाइयों की तरह सुबह-शाम बातें करते हैं, मुहल्ते की समस्या को लेकर बातचीत करते हैं। सब मिलकर समाधान भी करते हैं। यही लोग अब सात दिसम्बर को जाड़े की सुहानी सुबह में सुरंजन का नाश्ता करेंगे।

सुधामय दाका आकर तातीबाजार में ठहरे थे, वहाँ उनके मध्ये माई असीत रंजन का घर था। उन्होंने ही उनके लिए छोटा-सा, किराये का एक मकान खोज दिया था। असीत ने कहा, 'सुधामय, तुम रईसजादे हो, किराये के घर में रह पाओगे?'

सुधामय ने जवाब दिया था, 'क्यों नहीं रह सकूँगा? और लोग भी तो रहते हैं?'

'रहते हैं। तैकिन तुमने तो जन्म से ही दरिद्रता नहीं भोगी। फिर अपना घर बैचा ही क्यों? माया तो बच्ची है, कोई जवान लड़की तो नहीं, जो कोई ऐसी-ऐसी घटना घटेगी। हमने उत्पल को कलकत्ता भेज दिया क्योंकि वह तो कौतेज नहीं जा पा रही थी। मुहल्ते के लड़के धमकी देते थे कि उसे उठा से जायेंगे। उसी डर से मैंने उसे भेज दिया। अभी 'तितजला' (कलकत्ता का एक मुहल्ता) उसके पास के घर में है।

लड़की जवान होने पर बहुत चिन्ता होती है भैया !

सुधामय असीत रंजन की बातों को अनसुना नहीं कर पाये। हाँ, दुश्चिन्ता तो होती ही है। वे सोचना चाहते हैं कि मुसलमान लड़की के बड़े होने पर भी तो दुश्चिन्ता होती। सुधामय की एक छात्रा को भी तो एक बार कई युवकों ने रास्ते में पटक कर साड़ी खोल दी थी। वह लड़की तो हिन्दू नहीं थी, मुसलमान ही थी। वे लड़के भी तो मुसलमान ही थे। सुधामय खुद को सांत्वना देते हुए बोले, दरअसल हिन्दू-मुसलमान कुछ नहीं, दुर्वल लोगों पर भौका पाते ही सबल व्यक्ति अत्याचार करेंगे। नारी दुर्दल है इसीलिए सबल पुरुषों ने उस पर अत्याचार किये हैं। असीत रंजन ने अपनी दोनों लड़कियों को कलकत्ता भेज दिया है। रुपया-पैसा भी ठीक ही कमाते हैं। इस्लामपुर में सोने की दुकान है। अपना दो मंजिला पुराना मकान है। इसे ठीक-ठाक भी नहीं किया। न ही नया मकान बनाने की कोई इच्छा है। सुधामय से एक दिन उन्होंने कहा, भैया, रुपया-पैसा खर्च मत करो। जमा करो। हो सके तो घर बैचने का पैसा वहाँ मेरे रिश्तेदार के पास भेज दो। वे जमीन-जायदाद खरीद कर रखेंगे ! सुधामय ने पूछा 'वहाँ मतलब ?'

असीत रंजन ने धीमी आवाज में कहा, 'कलकत्ता में। मैंने तो खरीदा है।'

सुधामय ने ऊँची आवाज में कहा, 'तुम कमाओगे यहाँ और खर्च करोगे उस देश में ? तुम्हें तो देशद्रोही कहा जा सकता है।'

असीत रंजन सुधामय की बातें सुनकर हैरान हो जाते थे। वे सोचते थे, किसी हिन्दू को उन्होंने ऐसा कहते नहीं सुना। बल्कि उन्हीं की तरह वे लोग भी रुपया-पैसा यहाँ खर्च न कर जमा रखने के पक्ष में हैं। क्योंकि कव क्या होगा, कौन कह सकता है ! यहाँ जमकर बैठेंगे और कव कौन आकर जड़ से उखाड़ फेंकेगा !

सुधामय कभी-कभी सोचते हैं कि क्यों वे भयमनसिंह छोड़कर चले आये। अपने घर के स्नेह ने क्यों नहीं उन्हें आतुर किया ? माया को तेकर समस्या हुई थी, वह तो ही ही सकती है। अपहरण के मामले में हिन्दू-मुसलमान दोनों सम्प्रदायों के लोग भुगत सकते हैं। क्या सुधामय अपने घर में सुरक्षा का अभाव महसूस करते थे ? वे अपने आप से ही सवाल कर रहे थे। तांतीबाजार के उस छोटे-से मकान में लेटे-लेटे सुधामय सोचते रहते क्यों वे अपना मकान छोड़कर इस अनजान इलाके में आकर रहने लगे। क्या वे अपने आपको इस तरह छिपा रहे थे ? क्यों अपनी जमीन-जायदाद रहने के बावजूद खुद को शरणार्थी जैसा लगता था ? या फिर शौकत साहब की नकली दलील से उन्हें डर लग गया था कि वे हार जायेंगे ? खुद का ही घर है और खुद ही मुकदमे में हार जायें। इससे तो अच्छा है समय रहते ही इज्जत बचाकर चले जायें। सुधामय ने अपने एक फुफेरे भाई को इसी तरह अपना घर छोड़ते हुए देखा है। टांगाइल के 'आकुर ठाकुर' मुहल्ले में उनका मकान था। बगल में रहने वाला जमीर मुंशी एक लाध जमीन हड्डप लेना चाहता था। अदालत में मुकदमा दायर हुआ। पाँच वर्ष तक

मुकदमा चला। अन्त में फैसला जमीर मुंशी के पक्ष में रहा। उसके बाद तारापद घोषाल अपना देश छोड़कर इण्डिया चले गये। शीकत साहब का मुकदमा भी तारापद के मामले का रूप न ले ले यह सोचकर उन्होंने जल्द से जल्द अपने बाप-दादा की जमीन को बेच दिया, अगर यह हो भी जाता तो हैरानी की बात नहीं होती। क्योंकि सुधामय का पहले की तरह रुतवा नहीं था और यार-दोस्तों की संघ्या भी घटती जा रही थी। मौका पाते ही एक-एक हिन्दू परिवार देश छोड़कर चला जाता था। कई लोगों की मृत्यु हो गई। कितनों को कन्धा देना पड़ा। जो जिन्दा भी थे, उनके भीतर थी चरम हताशा। मानो जिन्दा रहने का कोई मतलब ही नहीं था। उनके साथ बातें करते हुए सुधामय ने पाया कि वे भी डर रहे हैं। मानो जल्द ही आधी रात में कोई दैत्य आकर उन्हें मसल जायेगा। सबके सपनों का देश इण्डिया, सभी गोपनीय टंग से सीमा पार होने की तैयारी करने लगे। सुधामय ने कई बार कहा था, 'जब देश में युद्ध शुरू हुआ तब डरपोक की तरह इण्डिया भागने लगे। फिर जब देश आजाद हुआ तो वीरता के साथ वापस आ गये, अब बात-बात में इण्डिया भाग जाते हो। इसने उसे घक्का मार दिया, इण्डिया भाग जाओ। तुम सब के सब कावार्ड हो। सुधामय से धीरे-धीरे जतीन देवनाथ, तुषार कर, खगेश, किरण सभी दूर होने लगे। वे उनसे दिल छोलकर बातें नहीं करते। सुधामय अपने ही शहर में बड़े अकेले हो गये। उनके मुसलमान दोस्त शकूर, फैसल, माजिद, गफ्कार के साथ भी दूरियाँ बढ़ने लगीं। यदि उनके घर गये तो वे कहते, 'तुम जरा बैठक में बैठो सुधामय, मैं नमाज पढ़कर आता हूँ।' या फिर कहते, 'आज आये हो, आज तो घर में मिलाद है।' वामपथियों की उप्र बढ़ने के साथ-साथ उनकी धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ती है। सुधामय बहुत ही निःसंग हो गये। अपने शहर में चिन्ता, चेतना, मननशीलता की दैन्यता ने उन्हें काफी आहत किया। इसीलिए वे भागना चाहते थे—देश छोड़कर नहीं, सपनों का शहर छोड़कर। ताकि उन्हें सपनों की नीती मृत्यु मगरमच्छ की तरह निगल न सके।

सुरंजन शुरू-शुरू में, अपना घर छोड़कर कबूतर की कोठंडी में रहना पड़ रहा है, इसलिए चिड़ियां चाहती थी। बाद में उसे भी आदत पड़ गई थी। विश्वविद्यालय में भर्ती हुआ, नये-नये दोस्त बने, फिर से सब कुछ अच्छा लगने लगा। यहाँ भी वह राजनीति करने लगा। यहाँ की भीटिंग, जुलूस में भी लोग उसे बुलाने लगे। किरणमयी को यह सब अच्छा नहीं लगता था, वह पहले भी सुरंजन को मना कर चुकी थी और आज भी उसे आपत्ति है। वह अपने हाथों से लगाये गये बगीचे, पेड़-पौधों आदि के बारे में सोच-सोच कर आँसू बहाती रहती थी। उसे याद आया कि क्या उन्होंने जो सेम का मधान लगाया था, वह अब तक है? और वह अमरुद का पेड़! उतने बड़े अमरुद मुहल्ते के किसी भी पेड़ में नहीं फलते थे। नारियल के पेड़ों के नीचे क्या वे तोग नमक-पानी देते होंगे! क्या इन बातों को सोचकर सिर्फ़ किरणमयी को ही तकतीफ़ होती थी, सुधामय को नहीं होती?

ढाका में तवादला होने के बाद सुधामय ने सोचा था कि प्रमोशन के लिए कुछ किया जा सकेगा। मंत्रालय में गये थी थे लेकिन वहाँ जाकर छोटे-छोटे किरानियों की टेविल के सामने धरना देकर दैठे रहना पड़ता था। ‘भाई मेरी फाइल का कुछ होगा?’ सवाल करते-करते थक गये थे लेकिन इसका सही जवाब कभी नहीं मिला। ‘हो रहा है,’ ‘होगा’ जैसे शब्द सुनकर सुधामय को बापस आना पड़ता था। कोई-कोई कहता, ‘डॉक्टर वाबू, मेरी लड़की को आँख हुआ है जरा उसके लिए दबा लिख दीजिए। कुछ दिनों से छाती में दर्द हो रहा है कोई अच्छी-सी दवा लिख दीजिए।’ वे अपना पेड और पेन निकालकर लिखते फिर पूछते, ‘मेरा काम होगा तो फरीद साहब?’ फरीद साहब तब मुस्कराकर कहते, ‘यह सब क्या हमारे वस की बात है?’ सुधामय को सूचना मिलती कि उनके जूनियरों का प्रमोशन ही रहा है। उनकी आँखों के सामने डॉ० करीमुद्दीन, डॉ० याकूब मोल्ला की फाइलें आयीं। वे एसोसियेट प्रोफेसर के रूप में पोस्टिंग लेकर काम भी करने लगे और सुधामय का जूता सिर्फ घिसता ही गया। वे हमेशा कहते रहते, ‘आज नहीं कल आइए’, ‘आपकी फाइल सचिव के पास भेज दी जाएगी।’ या फिर ‘कल नहीं, परसों आइए आज मीटिंग है।’ कभी कहते ‘मंत्री देश के बाहर गये हुए हैं, एक महीना बाद आइए।’ रोज-रोज यह सब सुनते-सुनते एक दिन सुधामय को समझ में आ गया कि अब कुछ होने वाला नहीं। डेढ़-दों वर्षों तक पदोन्नति के पीछे भाग-दौड़ करके तो देख लिये। जिन लोगों को लाँघ कर जाना होता है, वे जाते ही हैं। उनकी योग्यता रहे या न रहे। सेवानिवृत्ति का समय आ गया, इस समय एसोसियेट प्रोफेसर का पद प्राप्त करना उनका हक बनता था, उन्होंने इस पद के लिए कोई तोभ नहीं किया। यह तो उनका हक था। जूनियर लोग इस पद को लेकर उनके सिर पर विराजमान थे।

अन्ततः: सहकारी अध्यापक के रूप में ही सुधामय दत्त ने सेवानिवृत्ति ली। उन्हीं के साथ काम करने वाले माधव चन्द्र पाल ने सुधामय को फेयरवेल की माला पहनाते हुए उनके कानों में फुसफुसाकर कहा, ‘मुसलमानों के देश में अपने लिए बहुत ज्यादा किसी चीज की आशा करना ठीक नहीं है। हमें जितना मिल रहा है, वही बहुत है।’ इतना कहकर वे ठहाका मार कर हँसने लगे। वे भी तो मजे में सहकारी अध्यापक की नौकरी किये जा रहे हैं। एक-दो बार पदोन्नति के लिए उनका नाम भी दिया गया था। अन्य नामों के लिए भत्ते ही कोई आपत्ति न उठी हो, इस नाम के लिए जस्तर उठी थी। इसके अलावा माधवचन्द्र की एक और गलती थी। वे सोचियत संघ धूम कर आये थे। बाद में सुधामय ने सोचा था, माधवचन्द्र ने गलत नहीं कहा था। पुलिस, प्रशासन या सेना के उच्च पदों पर हिन्दुओं की भर्ती या पदोन्नति के मामले में यों तो नांगता देश के कानून में कोई मनाही नहीं थी लेकिन पाया गया कि मंत्रालयों के किसी सचिव या अतिरिक्त सचिव के पद पर कोई हिन्दू सम्प्रदाय का व्यक्ति नहीं था। तीन संयुक्त सचिव और कुछ उप सचिव हैं जिनकी संख्या उँगलियों पर गिनी जा

सकती है। सुधामय को यकीन है कि वे इनेगिने संयुक्त सचिव और उप सचिव अवश्य ही पदोन्नति की आशा नहीं करते होंगे। सारे देश में मात्र छह हिन्दू डी० सी० हैं। हाई कोर्ट में मात्र एक हिन्दू जज है। पुलिस के छोटे पदों पर शायद उनकी नियुक्ति होती है लेकिन एस० पी० के पद पर कितने हिन्दू हैं? सुधामय ने सोचा, आज वे 'सुधामय दत्त' होने के कारण ही एसोसियेट प्रोफेसर नहीं बन पाये। अगर वे मुहम्मद अली या सलीमुल्लाह चौधरी होते तो इस तरह की बाधा नहीं आती। विजनेस करने पर भी यदि मुसलमान पार्टनर न हो तो हमेशा लाइसेंस नहीं मिलता। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित बैंक, विशेषकर वाणिज्यिक संस्थाओं से तो वित्कुल झण नहीं दिया जाता है।

सुधामय दत्त ने पुनः ताँतीबाजार में रहने योग्य बातावरण बना लिया। जन्म स्थान छोड़कर भी उनका देश के प्रति भोह खत्म नहीं हुआ। वे कहते, 'सिर्फ मयमनसिंह ही मेरा देश नहीं है, बल्कि सारा बांग्लादेश ही मेरा देश है।'

किरणमयी तम्ही सांस छोड़कर कहती थी, 'ताताब में मछली पालौंगी, सब्जी तगाऊँगी, बच्चे अपने पेड़ का फल खायेंगे। और, अब तो हर महीने किराया देकर कुछ नहीं बचता।' गहरी रात में किरणमयी प्रायः कहती, 'घर बैचकर और रिटायर्ड होकर तो अच्छा-खासा रूपया मिला। चलो, अब हम यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर तो अपने बहुत रिश्तेदार हैं।'

पर सुधामय कहते, 'रिश्तेदार तुम्हें एक दिन भी खिलायेगे, सोचती हो? सोचती हो कि तुम उनके घर पर ठहरोगी। देख लेना, वे मुँह केर लेंगे। फिर कहेंगे, कहाँ ठहरी हैं, चाय-नाश्ता करेंगी?'

'अपना ही रूपया-पैसा होगा तो दूसरों के आगे हाथ क्यों फैलाऊँगी?'

'भैं नहीं जाऊँगा। तुम जाना चाहती हो तो जाओ। अपना घर छोड़ा, इसका मतलब यह तो नहीं कि अपना देश भी छोड़ दूँ?' सुधामय झल्लाकर यह सब कहते। सुधामय दत्त ताँतीबाजार छोड़कर 'आरमणि टोला' में छह वर्ष रहने के बाद करीब सात वर्षों से 'टिकादुली' में रह रहे हैं। इसी बीच हार्ट की बीमारी पकड़ चुकी है। गोपीबाग की एक दवा की दुकान में बैठने की जात थी लेकिन वहाँ भी नियमित रूप से नहीं बैठ पा रहे हैं। घर पर ही रोगी आते हैं। बैठक में रोगी देखने के लिए एक टेबिल और एक तरफ एक चौकी रखी हुई है। दूसरी तरफ बैंत का एक सोफा रखा हुआ है। लाक में काफी किताबें हैं जिसमें डॉक्टरी, साहित्य, समाज, राजनीति आदि की किताबों का ढेर है। सुधामय अपना अधिक समय उसी कमरे में बिताते हैं। शाम को चप्पल चटकाते हुए निशीथ बाबू आते हैं, अख्लास्लज्जमाँ, शहीदुल इस्ताम, हरिपद भी प्रायः यहाँ आते थे। देश की राजनीति को लेकर बातें होतीं। किरणमयी उनके लिए चाय बनाती। ज्यादातर बैर चीनी की चाय ही बनानी पड़ती क्योंकि सभी की उप्र हो गई है।

जुलूस की आवाज सुनकर सुधामय चौंककर बैठ गये। सुरंजन दाँत-से-दाँत दबाये हुए था। किरणमयी का कबूतरों जैसा नरम डिल डर और क्रोध से जोर-जोर से धड़कने तगा। क्या सुधामय को कोई आशंका, थोड़ा भी क्रोध नहीं होना चाहिए?

सुरंजन के दोस्तों में मुसलमानों की संख्या ही अधिक है लेकिन उन्हें मुसलमान कहना भी ठीक नहीं। वे धर्म-कर्म को कोई खास महत्व नहीं देते थे। इसके अलावा वे सब तो सुरंजन को हमेशा अपना निकटस्थ व्यक्ति ही सोचते थे। उनके मन में इसे लेकर कोई दुविधा नहीं थी। पिछली बार तो कमाल खुद आकर सुरंजन और उसके परिवार को अपने घर ले गया था। वैसे तो पुलक, काजल, असीम, जयदेव भी सुरंजन के दोस्त हैं लेकिन घनिष्ठता कमाल, हैंदर, बेलाल और रविउल के साथ ही अधिक है। सुरंजन जब भी किसी मुसीबत में पड़ा, काजल और असीम से अधिक हैंदर और कमाल को अपने नजदीक पाया। एक बार सुधामय जी को सोहरावर्दी अस्पताल में भर्ती कराने की नौवत आयी थी। उस समय रात के डेढ़ बज रहे थे। हरिपद डॉक्टर ने कहा था, 'मायोकार्डियल इनफेक्शन है, तुरन्त अस्पताल में भर्ती कराना होगा।' यह बात जब सुरंजन ने काजल से जाकर कही तो वह जम्हाई लेकर बोला, 'इतनी रात गये कैसे शिफ्ट करेंगे? सुवह होने दो, कुछ इन्तजाम किया जायेगा।' लेकिन सूचना मिलते ही बेलाल फौरन गाड़ी लेकर सुरंजन के घर पहुँच गया था। खुद भाग दौड़ करके उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। बार-बार सुधामय से कहता रहा, 'चाचा जी, आप किसी तरह की चिन्ता मत कीजिए, मुझे आप अपना बेटा ही सोचिये', उसका व्यवहार देखकर सुरंजन का मन गदगद हो उठा था। जब तक सुधामय अस्पताल में थे, बेलाल उनका हालचाल पूछने आ जाया करता था। परिचित डॉक्टरों से सुधामय के प्रति विशेष ध्यान देने को कह दिया था। समय मिलते ही वह खुद मिलने आ जाया करता था। अस्पताल में आने-जाने के लिए अपनी गाड़ी दे रखी थी। कौन करता है, इतना सब कुछ? पैसा तो काजल के पास भी है लेकिन क्या वह सुरंजन के लिए इतना उदार हो सकता है? सुधामय की बीमारी में जितना भी खर्च हुआ, पूरा रविउल ने दिया। एक दिन टिकाटुली के घर पर अचानक रविउल आया। पूछा, 'सुनने में आया है कि तुम्हारे पिताजी अस्पताल में हैं?' सुरंजन के 'हाँ' या 'नहीं' कहने से पहले ही टेवित पर एक लिफाफा रखते हुए बोला, 'इतना पराया मत सोचो मेरे दोस्त' इतना कहते हुए वह जिस तरह अचानक आया था, अचानक चला भी गया। सुरंजन ने लिफाफा खोलकर देखा, उसमें पाँच हजार रुपये थे। सिर्फ सहायता की इसलिए नहीं, बल्कि उसके साथ उसके हृदय का मेल भी अधिक था। रदिउल, कमाल और हैंदर को सुरंजन ने अपने जितना करीब पाया उतना असीम, काजल, जयदेव को नहीं

पाया। रत्ना ही नहीं, परवीन को भी उसने जितना प्यार किया था, उसे यकीन है कि वह किसी अर्चना, दीपि, गीता या सुनन्दा को उतना प्यार नहीं कर पायेगा। साम्प्रदायिक भैदभाव करना तो सुरंजन ने कभी सीखा ही नहीं। बचपन में तो वह जानता ही नहीं था कि वह हिन्दू है। वह उस समय भयमनसिंह जिता स्कूल की कक्षा तीन-चार में पढ़ता था, खालिद नाम के एक सहपाठी के साथ कक्षा की पढ़ाई-लिखाई से सम्बन्धित किसी बात को लेकर उसका तर्क-वितर्क हो रहा था। जो थोड़ी ही देर में झगड़े में बदल गया खालिद ने उसे गालियाँ दीं, 'कुत्ते का बच्चा, सुअर का बच्चा, हरामजादा' आदि बदले में सुरंजन ने भी उसे गालियाँ दीं। खालिद ने कहा, 'कुत्ते का बच्चा !' सुरंजन के बहा, 'तुम कुत्ते का बच्चा !' खालिद ने कहा, 'हिन्दू !' सुरंजन ने कहा, 'तुम हिन्दू !' उसने सोचा, 'कुत्ते का बच्चा', 'सुअर का बच्चा' की तरह 'हिन्दू' भी एक गाती ही है। काफी समय तक सुरंजन सोचता था कि 'हिन्दू' शब्द शायद तुच्छार्थ, व्यगार्थ में व्यवहृत होने वाला कोई शब्द है। बाद में बड़ा होकर सुरंजन को पता चला कि हिन्दू एक सम्प्रदाय का नाम है और वह उसी सम्प्रदाय का एक व्यक्ति है। आगे चलकर उसे यह भी ज्ञात हुआ कि वह दरअसल मानव सम्प्रदाय का व्यक्ति है और बंगाती जाति का है। किसी भी धर्म ने इस जाति को नहीं बनाया। वह बंगाती को असाम्प्रदायिक और समन्वयवादी जाति के रूप में ही मानना चाहता है। उसे विश्वास है कि 'बंगाती' शब्द एक विभाजन विरोधी शब्द है। 'बंगाती स्वधर्मीय विदेशी को अपना' और अन्य धर्मावलम्बियों को पराया समझता है,—यह जो गलत धारणा है, इसी ने बंगाती को 'हिन्दू' और 'मुसलमान' में बांटा है।

आज दिसम्बर महीने की आठ तारीख है। सारे देश में हइताल है। दरअसल यह हइताल घातक दलाल निर्मूल कमेटी की ओर से घोषित की गयी है। मगर जमाते इस्लामी द्वारा घोषणा की गई कि उसने बाबरी मस्जिद के ध्वंस के खिलाफ हइताल रखी है। हइताल चल ही रही है, इसी बीच सुरंजन अँगड़ाई लेते हुए विस्तर से उठा। सोचा, एक बार धूम आया जाए। आज दो दिन हो गये, उसने अपने प्रिय शहर का चेहरा नहीं देखा। उस कमरे में किरणमयी मारे डर के सहमी हुई है। सुधामय के मन में भी कोई शंका है या नहीं, सुरंजन समझ नहीं पाता। इस बार उसने घर पर साफ कह दिया है कि वह कहीं छिपने नहीं जायेगा। मरना होगा तो मरेगा। मुसलमान यदि घर के लोगों को काटते हैं तो काटें। फिर भी सुरंजन घर से कहीं नहीं जायेगा। माया अपने भरोसे गई है, जाए। वह अपने अन्दर जीने की तीव्र इच्छा लिए हुए मुसलमान के घर आश्रय लेने गई है। एक आध पारल-रिफात की छतरी के नीचे रहकर बैचारी माया जान बचाना चाह रही है।

लगातार दो दिनों तक विस्तर मे लेटे रहने के बाद जब सुरंजन बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ, तो किरणमयी हैरान होकर बोती, 'कहाँ जा रहे हो ?'

'देखता हूँ, शहर की हातत कैसी है। हइताल कहाँ तक सफल है, जगा देखूँ।'

'बाहर मत जा, सुरो बेटा ! पता नहीं, कब क्या हो जाए !'

'जो होगा, देखा जायेगा । एक दिन तो मरना ही है । अब और मत डरो । तुम्हें डरते हुए देखकर पुझे गुस्सा आता है ।' बाल झाड़ते हुए सुरंजन ने कहा ।

उसकी बात सुनकर किरणमयी काँप उठी । वह लपक कर सुरंजन के हाथ से कंधी छीनते हुए बोती, 'मेरी बात सुन, सुरंजन । जरा-सा सावधान हो जा । सुनने में जा रहा है कि बंदी में ही दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मन्दिरों को जलाया जा रहा है । घर पर ही रहो । शहर की हालत देखने की कोई जरूरत नहीं ।'

सुरंजन हमेशा से जिह्वा रहा है । वह भला किरणमयी की बात क्यों भानेगा ? लाख मना करने पर भी वह चला गया । बाहर के कमरे में सुधामय अकेले बैठे थे । वे भी हैरान होकर लड़के का जाना देखते रहे । घर से बाहर कदम रखते ही शाम की स्तिंगधता को चीरती हुई बाहर की निर्जनता ने उसे जकड़ लिया । क्या वह थोड़ा डर रहा था ? शायद हाँ ! फिर भी जब सुरंजन ने आज शहर में धूमने की ठान ही ली है तो वह अवश्य जायेगा । इस बार उसे लेने या हालचाल पूछने कोई नहीं आया । न बेताल आया, न कमाल, न कोई और । अगर वे आते भी तो सुरंजन नहीं जाता । क्यों जायेगा ? आये दिन हमता होगा और वे सामान बटोरकर भागेंगे ?

छि । पिछली बार वह गधा धा जो कमाल के घर गया था । इस बार कोई आयेगा तो साफ कह देगा, 'तुम्हीं लोग मारोगे और तुम्हीं लोग दया भी करोगे, यह कैसी बात है । इससे तो अच्छा है कि तुम लोग सारे हिन्दुओं को इकड़ा करके एक फायरिंग स्क्वाड में ले जाओ और गोती से उड़ा दो । सब मर जायेंगे तो झमेला ही खत्म हो जायेगा । फिर तुम्हें बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी । सारा झमेला ही एक बार में खत्म हो जायेगा । सुरंजन ज्योंही रास्ते में निकला सुनकर हैरान हो गया कि मुहत्ते के एक सुण्ड लड़के जिनकी उम्र यही कोई बारह से पन्द्रह के बीच होगी, उसके घर से धोड़ी दूर पर खड़े थे, उसे देखकर चिल्जा उठे, हिन्दू है, 'पकड़ो-पकड़ो !' सात वर्षों से वह उन लड़कों को देख रहा है । सुरंजन उनमें से एक-दो को पहचानता भी है । उनमें से आलम नाम का लड़का प्रायः उसके घर चन्दा माँगने आता है । मुहत्ते में उनका एक क्तव ई । क्तव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सुरंजन गाना भी गाता है । कुछ लड़कों को वह डी० एल० राय और हेमांग विश्वास का गाना सिखायेगा उसने सोचा था । कत तक यही लड़के अपनी हर जरूरत में अक्सर, भैया यह कर दो, वह कर दो 'यह सिखा दो, वह सिखा दो' कहते-कहते उसके आगे-पीछे धूमते रहते थे । इस मुहत्ते के लोगों का कहना है सुधामय लम्बे समय तक मुफ्त में इलाज करते रहे हैं और यही लोग 'वह देखो, हिन्दू है । पकड़ो-पकड़ो !' कहकर सुरंजन को पीटना चाहते हैं ।

सुरंजन उनकी तरफ देखकर उन्टे रास्ते चलने लगा । डर कर नहीं, बल्कि तज्जित होकर । मुहत्ते के परिचित लड़के उसे पीटेंगे, यह सोचकर ही वह तज्जित हो

गया। यह लज्जा वह स्वयं पिट रहा है इसलिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो उसे पीट रहे हैं। लज्जा पीड़ित होने की नहीं, बल्कि जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके लिए होती है।

सुरेजन चलते-चलते 'शापता' इताके में आकर रुका। घारों और सन्नाटा था। जगह-जगह पर लोगों की भीड़ है। रास्ते में ईटों के टुकड़े, जली हुई लकड़ी, दूटे हुए कांच बिखरे पड़े हैं। देखकर तग रहा है, अभी-अभी भीयण तांडव हुआ होगा। एक-दो मुवक इधर-उधर दौड़ रहे हैं। कुछ कुते बीच रास्ते में इधर से उधर भाग रहे हैं। धंटी बजाते हुए एक-दो रिक्शे इधर से उधर जा रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। कुतों को कोई डर नहीं। क्योंकि उन्हें जात का कोई डर नहीं। सुरेजन ने अंदाजा लगाया कि वे कुते खाती रास्ता पाकर ही इधर-उधर भाग रहे हैं। सुरेजन का भी जी चाह रहा है कि वह सइक पर दौड़े। भोती झील के कोलाहलपूर्ण व्यस्त रास्ते को इस तरह सुनसान देखकर सुरेजन के मन में बघपन की तरह डम्मा से फुटबॉल खेलने की या चौंक से निशाना बनाकर क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही है। सुरेजन यह सब सोचते हुए चल ही रहा था कि अचानक उसकी निगाह बायीं ओर के एक जले हुए मकान पर पड़ी। जिसका नाम पट्ट, दरवाजा, खिड़की सब कुछ जल गया था। यह इंडियन एयरलाइंस का दफ्तर है। कुछ लोग उस जले हुए दफ्तर के सामने खड़े होकर हंस रहे हैं। क्या किसी ने भौं सिकोइकर सुरेजन को देखा? उसके मन में संदेह होता है।

वह तेजी से सामने की तरफ चलने लगा, मानो इन घरों के जत जाने से उसे कोई मतलब नहीं। आगे वह देखने जा रहा है कि और क्या-क्या जला है। जिस प्रकार जले हुए पेट्रोल की मढ़क सूंधने में आनन्द आता है, क्या सुरेजन को आज उसी प्रकार जली हुई लकड़ी की मढ़क लेने में आनन्द आ रहा है? शाएंद हौ? चलते-चलते उसने देखा सी० पी० बी० आफिस के सामने लोगों की भीड़ है। रास्ते में ईट पत्थर बिखरे पड़े हैं। फुटपाय पर जो किताबों की टुकानें थीं जहाँ से सुरेजन ने काफी किताबें खटीदी थीं, सब जलकर राख हो गयी हैं। एक अधजती किताब सुरेजन के पैरों से टकराई। उस पर लिखा हुआ था—मैविसम गोर्ग की 'मौ' क्षणभर में उसे लगा कि वह 'पावेल' है और अपनी मौं के शरीर में आग लगाकर दौरों के नीचे उसे रौंद रहा है। सुरेजन का शरीर सिहर उठा। वह उस जली हुई किताब के सामने सहमा हुआ खड़ा था। चारों तरफ लोगों का जमाव है। लोग कानफूसी कर रहे हैं। उस इताके में चरम उत्तेजना पूर्ण बातावरण है। सभी 'क्या हुआ' और 'क्या होने वाला है' इसी को लेकर कानाफूसी कर रहे हैं। सी० पी० बी० आफिस जल गया है। कम्युनिस्ट अपनी स्ट्रेटिजी बदल कर अल्लाह-खुदा का नाम तेरहे हैं। फिर भी कठमुल्तायादी आग से उन्हें रिहाई नहीं मिली। कामरेड फरहाद के मरने पर बड़ा जनाजा निकाता गया, मिलाद भी हुआ, फिर भी साम्प्रदायिकता की आग में कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर

‘बाहर मत जा, सुरो वेटा ! पता नहीं, कब क्या हो जाए ।’

‘जो होगा, देखा जायेगा । एक दिन तो मरना ही है । जब और मत डरो । तुम्हें डरते हुए देखकर मुझे गुस्सा आता है ।’ बाल झाड़ते हुए सुरंजन ने कहा ।

उसकी बात सुनकर किरणमयी काँप उठी । वह लपक कर सुरंजन के हाथ से कंधी छीनते हुए बोली, ‘मेरी बात सुन, सुरंजन । जरा-सा सावधान हो जा । सुनने में आ रहा है कि बंदी में ही दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मन्दिरों को जलाया जा रहा है । घर पर ही रहो । शहर की हालत देखने की कोई जरूरत नहीं ।’

सुरंजन हमेशा से जिद्दी रहा है । वह भला किरणमयी की बात क्यों मानेगा ? लाख मना करने पर भी वह चला गया । बाहर के कमरे में सुधामय अकेले बैठे थे । वे भी हैरान होकर लड़के का जाना देखते रहे । घर से बाहर कदम रखते ही शाम की स्निग्धता को चीरती हुई बाहर की निर्जनता ने उसे जकड़ लिया । क्या वह थोड़ा डर रहा था ? शायद हाँ ! फिर भी जब सुरंजन ने आज शहर में धूमने की ठान ही ली है तो वह अवश्य जायेगा । इस बार उसे लेने या हालचाल पूछने कोई नहीं आया । न बेलात आया, न कमाल, न कोई और । अगर वे आते भी तो सुरंजन नहीं जाता । क्यों जायेगा ? आये दिन हमला होगा और वे सामान बटोरकर भागेंगे ?

छिः । पिछली बार वह गधा था जो कमाल के घर गया था । इस बार कोई आयेगा तो साफ कह देगा, ‘तुम्हीं लोग मारोगे और तुम्हीं लोग दया भी करोगे, यह कैसी बात है । इससे तो अच्छा है कि तुम लोग सारे हिन्दुओं को इकड़ा करके एक फायरिंग स्क्वाड में ले जाओ और गोली से उड़ा दो । सब मर जायेंगे तो झमेला ही खत्म हो जायेगा । फिर तुम्हें बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी । सारा झमेला ही एक बार में खत्म हो जायेगा । सुरंजन ज्योंही रास्ते में निकला सुनकर हैरान हो गया कि मुहल्ले के एक झुण्ड लड़के जिनकी उम्र यही कोई बारह से पन्द्रह के बीच होगी, उसके घर से थोड़ी दूर पर खड़े थे, उसे देखकर चिल्ला उठे, हिन्दू है, ‘पकड़ो-पकड़ो !’ सात वर्षों से वह उन लड़कों को देख रहा है । सुरंजन उनमें से एक-दो को पहचानता भी है । उनमें से आलम नाम का लड़का प्रायः उसके घर चन्दा माँगने आता है । मुहल्ले में उनका एक क्लब है । क्लब के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सुरंजन गाना भी गाता है । कुछ लड़कों को वह डी० एल० राय और हेमांग विश्वास का गाना सिखायेगा उसने सोचा था । कल तक यही लड़के अपनी हर जरूरत में अक्सर, भैया यह कर दो, वह कर दो ‘यह सिखा दो, वह सिखा दो’ कहते-कहते उसके आगे-पीछे धूमते रहते थे । इस मुहल्ले के लोगों का कहना है सुधामय लम्बे समय तक मुफ्त में इलाज करते रहे हैं और यही लोग ‘वह देखो, हिन्दू है । पकड़ो-पकड़ो !’ कहकर सुरंजन को पीटना चाहते हैं ।

सुरंजन उनकी तरफ देखकर उल्टे रास्ते चलने लगा । डर कर नहीं, बल्कि लम्जित होकर । मुहल्ले के परिचित लड़के उसे पीटेंगे, यह सोचकर ही वह लम्जित हो

गया। यह लज्जा वह स्वयं पिट रहा है इसलिए नहीं, बल्कि उन लोगों के तिए जो उसे पीट रहे हैं। लज्जा पीड़ित होने की नहीं, बल्कि जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके लिए होती है।

सुरंजन चलते-चलते 'शापता' इताके में आकर रुका। चारों ओर सन्नाटा था। जगह-जगह पर लोगों की भीड़ है। रास्ते में ईटों के टुकड़े, जली हुई लकड़ी, दूटे हुए कांच बिखरे पड़े हैं! देखकर तग रहा है, अभी-अभी भीयण तांडव हुआ होगा। एक-दो युवक इधर-उधर दौड़ रहे हैं। कुछ कुत्ते बीच रास्ते में इधर से उपर भाग रहे हैं। घंटी बजाते हुए एक-दो रिशो इधर से उधर जा रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। कुत्तों को कोई डर नहीं। क्योंकि उन्हें जात का कोई डर नहीं। सुरंजन ने अंदाजा लगाया कि वे कुत्ते खाती रास्ता पाकर ही इधर-उधर भाग रहे हैं। सुरंजन का भी जी चाह रहा है कि वह सड़क पर दौड़े। मोती झील के कोलाहलपूर्ण व्यस्त रास्ते को इस तरह सुनसान देखकर सुरंजन के मन में बचपन की तरह डम्भा से फुटबॉल खेलने की या चौंक से निशाना बनाकर क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही है। सुरंजन यह सब सोचते हुए चल ही रहा था कि अचानक उसकी निगाह बाधी और के एक जले हुए मकान पर पड़ी। जिसका नाम पट्ट, दरवाजा, खिड़की सब कुछ जल गया था। यह इंडियन एयरलाइंस का दफ्तर है। कुछ लोग उस जले हुए दफ्तर के सामने खड़े होकर हँस रहे हैं। क्या किसी ने भी सिकोइकर सुरंजन को देखा? उसके मन में संदेह होता है।

वह तेजी से सामने की तरफ चलने लगा, मानो इन घरों के जल जाने से उसे कोई मतलब नहीं। आगे वह देखने जा रहा है कि और क्या-क्या जला है। जिस प्रकार जले हुए पेट्रोल की महक सूंधने में आनन्द आता है, क्या सुरंजन को आज उसी प्रकार जली हुई लकड़ी की महक लेने में आनन्द आ रहा है? शायद ही? चलते-चलते उसने देखा सी० पी० बी० आफिरा के सामने लोगों की भीड़ है। रास्ते में ईट पथर बिखरे पड़े हैं। फुटपाथ पर जो किताबों की टुकानें थीं जहाँ से सुरंजन ने काफी किताबें छीरी थीं, सब जलकर राख हो गयी हैं। एक अधजती किताब सुरंजन के पैरों से टकराई। उस पर लिखा हुआ था—मैक्सिम गोर्गा की 'मौ' क्षणभर में उसे लगा कि वह 'पावेल' है और अपनी माँ के शरीर में आग लगाकर पैरों के नीचे उसे रीढ़ रहा है। सुरंजन का शरीर सिहर उठा। वह उस जली हुई किताब के सामने सहमा हुआ खड़ा था। चारों तरफ लोगों का जमाव है। लोग कानफूसी कर रहे हैं। उस इलाके में चरम उत्तेजना पूर्ण वातावरण है। सभी 'क्या हुआ' और 'क्या होने वाला है' इसी को लेकर कानाफूसी कर रहे हैं। सी० पी० बी० आफिस जल गया है। कम्प्युनिस्ट अपनी स्ट्रेटिजी बदल कर अल्लाह-युदा का नाम ले रहे हैं। फिर भी कठमुत्ताजदी आग से उन्हें रिहाई नहीं मिली। कामरेड फरहाद के मरने पर बड़ा जनज्ञा निकाता गया, मिताद भी हुआ, फिर भी साम्राज्यिकता की आग में कम्प्युनिमर्स का दफ्तर

जलाया गया। सुरंजन निःशब्द खड़ा, जला हुआ दफ्तर देखता रहा। अचानक सामने केसर खड़ा मिला। विखरे हुए वाल। शेव न किये हुए गाल। काफी चिंतित स्वर में बोला, 'तुम क्यों निकले हो ?'

सुरंजन ने उसके सवाल के जवाब में सवाल किया 'क्यों, मेरे लिए निकलना मना है ?'

'नहीं, मना तो नहीं है, लेकिन इन जानवरों का तो कोई भरोसा नहीं, सुरंजन ! सचमुच क्या वे कोई भी धर्म मानते हैं ? जमात शिविर की युवा शाखा के उग्रपंथियों ने कल दोपहर को यह सब किया है। पार्टी ऑफिस, फुटपाथ की किताबों की दुकानें, इण्डियन एयरलाइन्स का दफ्तर सब कुछ जला दिया। स्वाधीनता विरोधी शक्तियां तो इस मौके की तलाश में हैं कि वे किसी भी एक मामले को अपने 'फेवर' में लेकर चिल्लायें, ताकि उनका ऊँचा स्वर संवके कानों तक पहुँचे।'

दोनों साथ-साथ तोपखाने की तरफ चलने लगे। सुरंजन ने पूछा, 'उन लोगों ने और कहाँ-कहाँ आग लगाई है ?'

केसर ने कहा, 'चट्टौग्राम के तुलसीधाम, पंचाननधाम, कैवल्यधाम, मंदिर को तो धूल में मिला दिया इसके अलावा मालीपाड़ा, शमशान मंदिर, कुरवानीगंज, कालीबाड़ी, चट्टेश्वरी, विष्णुमंदिर, हजारी लेन, फकीर पाड़ा, इलाके के सभी मंदिरों को लूटकर आग लगा दी है।' थोड़ा रुककर सिर झटकते हुए केसर ने कहा, 'हाँ, साप्तदायिक सद्भावना जुलूस भी निकाला गया।'

सुरंजन एक लम्बी सांस छोड़ता है। केसर ने दाहिने हाथ से वालों में ऊंगलियां फेरते हुए कहा, 'कल सिर्फ मंदिर ही नहीं, माझीधाट मछुआपट्टी में भी आग लगा दी गई। कम से कम पचास घर जल कर राख हो गए।'

'फिर क्या हुआ ?' सुरंजन ने उदासीन भाव से पूछा।

नरसिंही में चलाकचड़ और मनोहरदी के घर और मंदिरों को जला दिया गया। नारायणगंज में रूपगंज थाना के मरापाड़ा बाजार के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। कुमिल्ला के पुराने अभय आश्रम को जला दिया गया और नोवाखाली में भी सभी जघन्य काण्ड किए गए।

'वह कैसे ?'

'सुधाराम थाना के अधरचाँद आश्रम सहित और भी सात हिन्दू घरों को जला दिया है। गंगापुर गाँव में जितने भी हिन्दू परिवार थे, पहले लूटा, बाद में जला दिया। सोनारपुर के शिवकाली मंदिर और विनोदपुर के अखाड़ा को भी खत्म कर दिया। चौमुहानी का काली मंदिर, दुर्गापुर का दुर्गाबाड़ी मंदिर, कुतुबपुर और गोपालपुर के मंदिर भी तोड़ दिए। ३०० पी० के० सिंह की दवा की फैक्टरी, अखण्ड आश्रम तथा छयानी इलाके के मंदिरों को भी धूल में मिला दिया गया। चौमुहानी वावूपुर, तेतुइया, मेंहदीपुर, राजगंज बाजार टेंगिरपाड़ा, काजिरहाट, रसूलपुर, जमीदारहाट, पोड़ाचाड़ी के

दस मंदिरों को और अड्डारह हिन्दू घरों को लूट कर जला दिया गया। जिसमें एक दुकान, एक गाड़ी और एक महिला भी जल गई। मावर्दी के सत्रह मकानों में से तीरह को जलाकर राख बना दिया गया। हर घर को लूटा गया और महिलाओं के साथ बताल्कार हुआ। विप्लव भौमिक 'स्टेब्ल' हैं। कल विराहिमपुर के सभी घर व मंदिर उनकी चपेट में आये हैं। इतना ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर, चरहाजीरी गाँव की तीन दुकानें व क्लब को भी लूटा और तोड़ा गया। चरपार्वती गाँव के दो मकान, दासेर हाट का एक मकान, चरकुकरी और मुछापुर के दो मंदिर, व जयकाली मंदिर को भी जला दिया गया। सिराजपुर के प्रत्येक व्यक्ति को पीटा गया, हर घर को लूटा गया और अंत में उन घरों को जला दिया गया।'

'अच्छा !'

सुरंजन ने इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहा। वचपन की तरह उसके मन में रास्ते के ईंट या पत्थर के टुकड़े को पैर से उछालते हुए चलने की इच्छा हो रही थी। केसर और भी कई मंदिरों को जलाने, घरों को लूटने, जला दिये जाने की घटनाएँ बताता रहा। सुरंजन ने पूरा-पूरा सुना भी नहीं। उसे सुनने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। प्रेस क्लब के सामने दोनों छड़े हो गये। वह पत्रकारों का जमघट, कानाफूसी देखता रहा। कुछ-कुछ सुना भी। कोई कह रहा है, भारत में अब तक दो सौ से अधिक व्यक्ति दंगे-फसाद की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। जख्मी हुए हैं कई हजार। आर० एस० एस०, शिवसेना सहित कट्टरपथी दलों को नियिद्ध घोषित किया गया है। लोक सभा में विपक्ष के नेता के पद से आडवाणी ने इस्तीफा दिया है, कोई कह रहा है, चट्टग्राम, नन्दनकानन तुलसीधाम का एक सेवक दीपक धोय भागते समय जमातियों द्वारा पकड़ा गया। उसे पकड़ कर वे लोग जलाने की कोशिश कर ही रहे थे कि उसी समय बगल के कुछ पहरेदारों ने दीपक को मुसलमान बताया फलस्वरूप जमातियों ने दीपक को मारपीट कर ही छोड़ दिया।

सुरंजन के परिचित जिन लोगों ने भी उसे देखा, हैरान होकर पूछा, 'क्या बात है ? तुम बाहर निकलते हो ! कोई अघटन घट सकता है। घर चले जाओ।'

सुरंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बड़ा लज्जित महसूस कर रहा था। उसका नाम सुरंजन दत्त है इसलिए उसे घर पर बैठे रहना होगा और केसर, तत्तीफ, बेलाल, शाहीन ये सब बाहर निकलकर कहाँ क्या हो रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। साप्तदायिकता के विरोध में जुलूस भी निकालेंगे और सुरंजन से कहेंगे—तुम घर चले जाओ। यह कैसी बात है ? क्या सुरंजन उनकी तरह विवेकपूर्ण, मुक्त विचार धारा तर्कवादी मन का व्यक्ति नहीं है ? वह दीवार से सटकर उदास छड़ा था। उसने सिंगार की दुकान से एक बंडल 'बांगता फाइव' छीरीदा। जलती हुई रसी से एक सिंगार जलाया। सुरंजन अपने आपको बड़ा अलग-थलग पा रहा था। चारों तरफ इतने लोग हैं। इसमें से कई उसके परिचित और कोई-कोई तो घनिष्ठ भी है। फिर भी उसे बड़ा

था। मानो इतने लोग चल फिर रहे हैं, बावरी मस्जिद के दूटने फिर उसी के परिणाम-स्वरूप इस देश के मंदिरों के तोड़े जाने की उत्तेजनापूर्ण चर्चा कर रहे हैं। यह सब सुरंजन का विषय ही नहीं है। वह चाहकर भी इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कहाँ पर उसे एक हिचकिचाहट सी महसूस हो रही है। सुरंजन समझ रहा है कि उसे सभी छिपाना चाहते हैं, दया कर रहे हैं। उसे अपने समूह में शामिल नहीं कर रहे हैं। सुरंजन जोर से कश खींचकर धुएं का एक गोला ऊपर की ओर छोड़ता है। चारों तरफ उत्तेजना है और वह अपने शिथिल शरीर का भार दीवार के सहारे छोड़ देता है। कई लोगों ने सुरंजन को तिरछी नजर से देखा। विस्मित हुए, क्योंकि एक भी हिन्दू आज घर से बाहर नहीं निकला है। डरकर सभी बिल में धुसे हुए हैं। इसलिए सुरंजन का भय और स्पर्छा देखकर लोग हैरान तो होंगे ही।

केसर एक समूह में शामिल हो जाता है। जुलूस का आयोजन चल रहा है। पत्रकार लोग झोला और कैमरा लटकाये इधर-उधर भाग-दौड़ कर रहे हैं। उनमें लुत्फर को देखकर भी सुरंजन उसे बुलाता नहीं है। वह खुद ही सुरंजन को देखकर आगे आता है। चेहरे पर उत्कंठा का भाव लिये हुए कहता है, 'दादा, आप यहाँ क्यों आये ?'

'क्यों, मुझे आना नहीं चाहिए ?'

लुत्फर के चेहरे और आँखों से एक चरम उत्कंठा का भाव झलक रहा है। उसने पूछा, 'धर पर कोई असुविधा तो नहीं हुई ?'

सुरंजन ने पाया कि आज लुत्फर की बातों और कहने के अंदाज में एक तरह का अभिभावक जैसा भाव झलक रहा है। यह लड़का हमेशा से जरा शर्मिले स्वभाव का था। उसकी नजर से नजर भिलाकर कभी बात नहीं की। इतना विनयी, शर्मिला और भंद्र लड़का। इस लड़के को सुरंजन ने ही 'एकता' अखबार के सम्पादक से बात करके वहाँ नौकरी दिलायी थी। लुत्फर ने एक बेंसन सिगार जलाया। सुरंजन के काफी करीब आकर बोला, 'सुरंजन दा, कोई असुविधा तो नहीं हुई ?'

सुरंजन ने हँस कर कहा, 'कैसी असुविधा ?'

लुत्फर जरा असमंजस में पड़ गया। बोला, 'क्या बताऊँ दादा। देश की जो हालत है....'

सुरंजन अपने सिगार का फिल्टर नीचे गिराकर पैर से मसलने लगा। लुत्फर हमेशा उसके साथ धीमे स्वर में बोलता था, लेकिन आज उसकी आवाज ऊँची लग रही थी। सिगार का कश लेकर धुआँ छोड़ते हुए, भौंहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, 'दादा, आज आप कहीं और ठहर जाइए, आज घर पर ठहरना उचित नहीं होगा। अच्छा सुरंजन दा, घर के आसपास के किसी मुस्लिम परिवार में कम-से कम दो रात के लिए आपके ठहरने का इन्तजाम नहीं हो सकता ?'

सुरंजन की आवाज में उदासीनता थी। वह दुकान की जलती हुई रस्सी की ओर

देखते हुए बोला, 'नहीं।'

'नहीं?' इस बार तुत्फर ज्यादा चिन्तित हुआ। सुरंजन ने पाया कि उसके सोचने के अंदाज में एक अभिभावक जैसा भाव झलक रहा है। वह समझ गया कि इस वक्त कोई भी उसके साथ इसी तरह का अभिभावकत्व का भाव दिखायेगा। बिना मांगे ही उपदेश देगा—घर पर रहना ठीक नहीं, कहीं छिपकर रहना चाहिए। कुछ दिनों तक घर के बाहर मत जाना। अपना नाम और परिचय किसी से मत कहना। परिस्थिति संभव जाने पर ही निकलना, बैरेट। सुरंजन की इच्छा हुई कि वह एक और सिंगार सुलगाये। लेकिन तुत्फर के गंभीरतापूर्ण उपदेश ने उसकी इच्छा को नष्ट कर दिया। काफी ठंड पड़ी है। वह दोनों हायों को मोड़कर आती से लगाते हुए पेड़ की गहरी हरी पत्तियों को देखने लगा। हमेशा से वह जाड़े के मौसम का काफी आनन्द लेता रहा है। सुबह गरम-गरम पीठा छाना, और रात में धूप में सुखाई हुई गरम रजाई ओढ़कर माँ से भूत की कहानियाँ सुना करता था। यह सोचकर ही वह रोमांचित हो रहा था। तुत्फर के सामने कंधे से झोला लटकाये एक दाढ़ी वाला युवक बेमतलब बोले जा रहा था, टाकेश्वरी मंदिर, सिंद्धेश्वरी कात्ती मंदिर, रामकृष्ण मिशन, महाप्रकाश मठ, नारिन्दा गौड़ीय मठ, भोलागिरि आश्रम सब तोड़ दिया गया है। लूटा भी गया है। स्वामी आश्रम भी लूटा गया है। शनि अखाड़े के पांच घरों को लूटकर जला दिया है, शनि मंदिर, दुर्गा मंदिर को भी तोड़फर जला दिया गया है नारिन्दा का ऋषिपाड़ा और दयालगंज का मधुआपाड़ा भी इसकी लपेट से बच नहीं पाया। फार्मेट, पल्टन और नवाबपुर के मरणधांद की मिठाई दुकान, टिकादुती की देशबन्धु मिठाई दुकान को भी लूटकर जला दिया गया। ठंडेरी बाजार के मंदिर में भी आग लगा दी गई। तुत्फर ने लम्बी साँस छोड़कर कहा, 'ओह !'

सुरंजन, तुत्फर की तस्वीरी साँस को कान लगाये सुनता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह यहाँ छाड़ा रहेगा, जुतूस में शामिल होगा, या कहीं और चला जायेगा। या फिर रितेदार विहीन, बन्धुहीन किसी जंगल में जाकर अकेला बैठा रहेगा। झोला लिया हुआ युवक वहाँ से हटकर एक ओर झूँड में शामिल हो गया। तुत्फर भी जाने के लिए मौका ढूँढ़ रहा है। क्योंकि सुरंजन का भावहीन चेहरा उसे बैचैन कर रहा है।

चारों तरफ दबी हुई उत्तेजना है। सुरंजन भी चाह रहा है कि वह शूड़ में शामिल हो जाए। उसकी इच्छा है कि कहाँ-कहाँ मंदिर दूटा, जला, कहाँ-कहाँ मकान-दुकानों को लूटा गया, इस चर्चा में हिस्सा ले। वह भी स्वतः स्फूर्त होकर कहे—'इन धर्मादियों को चाबुक मारकर सीधा करना चाहिए। ये नकावपोश धार्मिक ही दरअसल सबसे बड़े ठग हैं।' लेकिन वह कह नहीं पाता। उसकी तरफ जो भी तिरछी नजरों से देख रहा है, सबकी आँखों से करुणा का भाव झलक रहा है। मानो उसका यहाँ रहना छतरे से छाती नहीं है। मानो वह यहाँ छाड़े रहने, उनकी तरह उत्तेजित होने, उनके साथ जुतूस निकालने योग्य व्यक्ति नहीं है। इतने दिनों तक वह

संस्कृति, अर्धनीति, राजनीति के विषय में मंच और अड्डों पर गरमागरम भाषण देता रहा है, लेकिन आज उसे एक अदृश्य शक्ति ने गूँगा बना दिया है। कोई नहीं कह रहा है कि सुरंजन तुम कुछ कहो, कुछ करो, डटकर खड़े हो जाओ।

केसर जमाव तोड़कर बाहर आया। फुसफुसाकर बोला, 'आयतुल मोकारम में बावरी भस्त्रिद तोड़ने को लेकर सभा होगी। तोग इकट्ठा हुए हैं, तुम घर चले जाओ।'

'तुम नहीं जाओगे?' सुरंजन ने पूछा।

केसर ने कहा, 'अरे नहीं! साम्प्रदायिक सद्भावना का जुलूस नहीं निकालना है क्या!'

केसर के पीछे लिटन और माहताव नाम के दो युवक खड़े थे। उन्होंने भी कहा, 'दरअसल, हम सब आपकी भताई के लिए ही कह रहे हैं। सुनने में आया है कि वे लोग 'जसखावार' (नाश्ता) नामक दुकान को भी जला दिये हैं। वे सारी घटनाएं आसपास में ही हुई हैं। वे अगर आपको पहचान लिये तो क्या होगा, बताइए तो! वे हाथ में छुरा, लाठी, कटार लेकर खुलेजाम धूम रहे हैं।'

केसर ने एक रिक्शा बुलाया। वह सुरंजन को रिक्शे पर चढ़ा देगा। लुत्फ़र आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, 'आइए दादा! सीधे घर जाइए। इस वक्त पता नहीं क्यों आप बाहर निकले।'

सुरंजन को घर भेजने के लिए सभी उत्तावते हो उठे थे। सुरंजन को नहीं पहचानते, ऐसे भी एक-दो व्यक्ति वहाँ आ गये और क्या हुआ, जानना चाहा। उन्हें समझाते हुए उन सवने कहा—ये हिन्दू हैं, इनका यहाँ रहना उचित नहीं है। सभी ने सिर हिताकर हाथी भरी—हाँ, इनका रहना ठीक नहीं। लेकिन वह तो घर लौटने के लिए नहीं निकला था। वे उसका हाथ पकड़कर पीठ सहताते हुए रिक्शे पर उसे चढ़ाना चाह रहे थे। उसी समय सुरंजन ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया।

सुधामय तम्हे होकर सोये रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो सके। वैचैनी सी लग रही थी। सुरंजन फिर इस समय बाहर निकला है। उसके निकलने के बाद दरवाजे पर धीरे-धीरे दस्तक ही रही थी। सुधामय लपक कर विस्तर से उतरे। सुरंजन बापस आ गया होगा। नहीं, सुरंजन नहीं, अखतारूज्जमां आये हैं। इसी मुहत्त्वे में उनका मकान है। वे सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। उम्र साठ से अधिक होगी। घर में घुसते ही अपने हाथों से कुंडी लगा दिये। 'न्यों, कुछ हुआ तो नहीं?' अखतारूज्जमां ने दर्वा आवाज में पूछा। 'नहीं तो! क्या होगा?' सुधामय ने कमरे का विस्तर, टेबुल, किताब-कापियों को तरफ देखकर सिर हिताया। अखतारूज्जमां खुद ही कुर्सी खींचकर बैठ गये। वे 'सरवाइकल स्पेंडताइटिस' के रोगी हैं। गर्दन सीधी रखकर आँखों की पुतलियां नचाते

हुए बोले, 'बाबरी मस्जिद की घटना तो जानते ही हैं ? वहाँ कुछ भी नहीं बचा । छिः छिः !'

'हौं....'

'आप कुछ कह नहीं रहे हैं । क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं ?'

'सपोर्ट क्यों करूँगा ?'

'तो फिर क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं ?'

'दुरे लोगों ने बुरा काम किया है । इसमें दुखी होने के सिवाय क्या कर सकते हैं ?'

'एक सेकुलर राष्ट्र की यदि यह अवस्था है । छिः छिः !'

'पूरी राष्ट्रीय परिस्थिति, पूरी राजनैतिक धोषणा, सुप्रीम कोर्ट, लोक सभा, पार्टी, गणतान्त्रिक परम्परा—सब कुछ असतियत में ढकोसला ही है । चलता हूँ सुधामय बादू, भारत में चाहे जितना भी दंगा-फसाद हो रहा हो, इस देश की तुलना में तो कम ही है ।'

'हौं । चौसठ के बाद नब्बे में, फिर इतना बड़ा दंगा-फसाद हुआ ।'

'चौसठ न कहकर पचास कहना ही ज्यादा ठीक रहेगा ।'

पचास के बाद चौसठ में जो दंगा हुआ था उसका सबसे बड़ा पक्ष था साम्राज्यिकता का स्पानटेनियस प्रतिरोध । जिस दिन दंगा-फसाद शुरू हुआ, उस दिन माणिक मियां, जहर हुसैन चौधरी और अब्दूस सातिम के प्रोत्साहन से हर अखबार के पहले पेज की बैनर हेडिंग थी—'पूर्व पाकिस्तान रुखे दाङाओं' (पूर्व पाकिस्तान डटकर खड़े रहो) । पढ़ोरी एक हिन्दू परिवार की रक्षा करते हुए पचपन वर्षीय जमीर हुसैन चौधरी ने अपनी जान दी थी । 'आह !'

सुधामय की छाती का दर्द और तेज हुआ । वे पतंग पर लेट गये । एक हल्की गरम चाय मिलने से अच्छा लगता । तेकिन चाय देगा कौन ? सुरंजन के लिए किरणमयी चिन्तित है । अकेते ही बाहर चला गया । अगर जाना ही था तो हैदर को साथ लेकर गया होता । किरणमयी की दुरी चिन्ता ने सुधामय को भी आक्रांत कर दिया । हमेशा से ही सुरंजन का आवेग बहुत गहरा है, उसे घर में बंद करके नहीं रखा जा सकता । इस बात को सुधामय तो जानते ही हैं, फिर भी दुश्चिन्ता ऐसी चीज तो नहीं कि समझाने पर वह शांत हो जाये । वे इस बात को दिल में दबाये हुए अखतारूज्जमां के चिप्पे पर लौट आये, 'कहा गया है कि शान्ति ही सभी धर्मों का मूल गंतव्य है' तेकिन उसी धर्म को सेकर इतनी अशान्ति, इतना रक्तपत । मनुष्य कितना ताछित हो सकता है, इस शताब्दी में आकर यह भी देखना पड़ा

धर्म का पताका उड़ाकर मनुष्य और मनुष्यत्व को जिस तरह से चकनाचूर किया जा सकता है, शायद उतना और किसी चीज से सम्भव नहीं ।

अखतारूज्जमां ने कहा—'हौं !'

किरणमयी दो कप चाय लेकर कमरे में आई, 'क्या आपका दर्द और बढ़ गया है ? न हो तो नींद की गोली ले लीजिए।' इतना कहकर चाय का प्याला दोनों के सामने रखती हुई खुद भी पलंग पर बैठ गई।

अखतासूज्जमां ने पूछा, 'भाभी तो शायद शंखा (वंगालियों के सुहाग की निशानी सफेद चूड़ी) सिंदूर नहीं पहनती हैं न ?'

किरणमयी नजरें झुकाकर बोली, 'पचहत्तर के बाद से नहीं पहनती हूँ।'

'चलिए, अच्छा हुआ। फिर भी सावधान रहिएगा।'

किरणमयी धीरे से मुस्कराई। सुधामय के होठों पर भी यही मुस्कराहट आई। अखतासूज्जमां जल्दी-जल्दी चाय पीने लगे। सुधामय की छाती का दर्द कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, 'मैंने तो धोती पहनना कब का छोड़ दिया है। फॉर द सेक ऑफ डीयर लाइफ, माई फ्रेंड !'

अखतासूज्जमां चाय का प्याला रखते हुए बोले, 'चलता हूँ। सोच रहा हूँ उधर से विनोद बाबू को भी एक बार देखता हुआ जाऊँगा।'

सुधामय लम्बा होकर लेट जाते हैं। उनके माथे के सामने रखी-रखी चाय ठंडी हो गई। किरणमयी दरवाजे पर कुँड़ी लगाये हुए बैठी रहती है। वह जलती हुई बत्ती के उलटी तरफ बैठी हुई है। उसके चेहरे पर छाया पड़ी है। पहले वह बहुत अच्छा कीर्तन गाया करती थी। किरणमयी ब्राह्मणबाड़िया के जाने माने पुलिस अफसर की लड़की थी। सोलह वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद सुधामय उससे कहते, 'किरणमयी, तुम खीन्द्र संगीत सीखो। उस्ताद रख देता हूँ।' मिथुन दे से कुछ दिनों तक सीखा भी। भयगनसिंह के कई सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उसे गाना गाने के लिए बुलाया भी जाता था। सुधामय को याद आया कि टाउन हॉल में एक बार किरणमयी गाना गाने के लिए गई थी। उस समय सुरंजन की उम्र चार वर्ष की थी। शहर में गिने-चुने गायक थे। समीरचन्द्र दे के बाद किरणमयी गाने के लिए मंच पर आई। सुधामय श्रोताओं की प्रथम पंक्ति में बैठे थे। उनका तो पसीना छूट रहा था, पता नहीं कैसा गायेगी। लेकिन एक भजन सुनाने के बाद दर्शक 'वन्स मोर, वन्स मोर' करने लगे। तब उसने दूसरा भजन गाना शुरू किया। उस गाने के बोल और स्वर में इतना दर्द भरा था कि सुनकर सुधामय जैसे नास्तिक व्यक्ति की आँखों में भी आँसू आ गये।

आजादी के बाद किरणमयी बाहर गाने के लिए जाना नहीं चाहती थी। उदीची के अनुष्ठान में सुमिता नाहा, मिताली मुखर्जी गाएंगी। सुरंजन भी अपनी माँ से जिद्द करता था, माँ तुम भी गाओ न। किरणमयी हँसती, 'मैं कब से रियाज छोड़ चुकी हूँ, अब क्या पहले की तरह गा पाऊँगी।' सुधामय कहते, 'जाओ न। आपत्ति किस बात की। पहले तो गाती थीं। लोग तुम्हें पहचानते भी हैं। प्रशंसा भी तो काफी अर्जित की हो।'

'हाँ, प्रशंसा मिली है। जो सोग तालियाँ बजाते थे, वही बाद में कहते, हिन्दू लड़कियों को लाज शर्म नहीं है। इसलिए वे गाना सीखती हैं। पराये मर्द के सामने बदन दिखाकर गाना गाती हैं।'

सुधामय परिस्थिति को सम्मालते हुए कहते, 'जैसे मुसलमान लड़कियों गाना गाती ही नहीं हैं ?'

'वह तो अब गाती हैं। पहले तो नहीं गाती थीं, इसलिए हमें बातें सुननी पड़ती थीं। मिनीटी दीदी इतना अच्छा गाना गाती थीं, एक दिन एक झुंड मुसलमान लड़कों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि उनका मुसलमान लड़कियों को गाना सिखाने का इरादा है।'

सुधामय ने कहा, 'तो क्या हुआ ! गाना सिखाना तो अच्छी बात है।'

'उन लड़कों का कहना था, लड़कियों का गाना गाना ठीक नहीं, बुरी बात है। गाना गाने से बुरी हो जायेंगी।'

'अच्छा !'

उसके बाद से किरणमयी भी गाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मिथुन दे कभी-कभी कहते, 'किरण, तुम्हारा इतना अच्छा गता था, तुमने गाना छोड़ ही दिया।'

किरणमयी लम्बी साँस छोड़ती हुई कहती, 'दादा, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सोचती हूँ, गाकर क्या होगा। ये सब नाच-गाना तो तोग पसंद नहीं करते। बुरा कहते हैं।'

इस तरह धीरे-धीरे उसने गाना छोड़ ही दिया। सुधामय ने भी जवर्दस्ती नहीं की। लेकिन बीच-बीच में शिकायत जरूर करते थे कि 'बाहर न गाओ, घर पर तो गा ही सकती हो।' घर पर हो नहीं पाता था। काफी रात होने पर भी जब नींद नहीं आती थी, तब दोनों छत पर जाते थे। ब्रह्मपुत्र के तिए, ब्रह्मपुत्र के बगत में स्थित उस घर के तिए, जिसे वे छोड़ आये थे, उनका दिल रोया करता था। दूर स्थित नक्षत्र की तरफ दोनों देखते रहते थे। किरणमयी गुनगुनाती थी, 'पुराने उस दिन की बातें, मूर्ते कैसे हाय,' जिसे सुनकर सुधामय जैसे कठोर इन्सान का भी दित मचल उठाया। उनमें भी शैशव, किशोरावस्था के खेल का मैदान, स्वूत का आगन, उफनती नदी, नदी तट का घना बन, बन के दीचोबीच से हेती हुई पतते संकरे रास्ते से होल्ड सफनों के पार जाने की इच्छा होती। इतना कड़ा हृदय यता आदमी होने के बजूँ सुधामय आधी-आधी रात तक किरणमयी को आतिगन-बद्ध किये सुबक-सुबक हँड़ पड़ते थे। सुधामय के कट्ट की कोई सीमा नहीं है। इकहतर में उनकी हँड़ सामने जगन्मय घोपाल, प्रफुल्त सरकार, निराई रोन को मार दिया गक्। ले जाकर गोती रो उड़ा देते थे। दूसरे दिन ट्रक में लाद कर लूने थे। हिन्दुओं को देखते ही पाकिस्तानी उठा ते जाते थे, बूट से ला नात रो कूचते, और निकात लेते थे, पौठ की हड्डियाँ तोड़।

अत्याचार करते थे, तब लगता था कि अब छोड़ देंगे। लेकिन बाद में वे गोती मार देते थे। कई मुसलमानों को मारपीटकर छोड़ देते हुए सुधामय ने देखा था, तेकिन किसी हिन्दू को जीवित छोड़ते नहीं देखा। मेहतरपट्टी का कुआँ हिन्दू और मुसलमानों की लाशों से ठसाठस भरा था। देश आजाद होने के बाद जब कुएँ से हजारों की तादाद में हड्डियाँ निकाली गई तब मजीद, रहीम, इदरीस के रिश्तेदार उन हड्डियों पर गिरकर विलख-विलख कर रोये थे। कैसे पता चलेगा कि कौन-सी हड्डी मजीद की है और कौन-सी अनित की? सुधामय की टूटी हुई टांगें, पसली की टूटी हुई तीन हड्डियाँ जुड़ चुकी थीं। पेनिस काट लिए जाने का घाव भी सूख रहा था, तेकिन सीने का घाव अब तक ताजा था। आँखों के आँसू भी नहीं सूखे थे। जिन्दा रहना क्या इससे ज्यादा कुछ है? शारीरिक रूप से जिन्दा रहने के बावजूद कैम्प से तौटकर सुधामय को यह नहीं लगा था कि वे जिन्दा हैं। फूलपुर के अर्जुनखिता गाँव में अद्युस सलाम नाम से उन्हें सात महीने तक एक बांस की दीवार बाते मकान में रहना पड़ा था। उस समय सुरंजन को शाविर कहकर पुकारना पड़ता था। जब वहाँ रहने वाले लोग किरणमयी, को फातिमा कहकर पुकारते थे तो सुधामय को सुनने में शर्म आती थी। पसलियों की टूटी हुई हड्डियाँ जितना छाती में चुभती थीं उससे कहीं अधिक फातिमा नाम सुनने से चुभन होती थीं। दिसम्बर में मुक्तिवाहिनी का पलड़ा भारी हुआ, तब सारा गाँव 'जय बांगला' कहता हुआ खुशी से नाच उठा। पूरे सात महीने तक जिस प्रिय नाम को वे पुकार नहीं पाये थे, उस दिन मन भरकर उस नाम को पुकारा था सुधामय ने 'किरण! किरण! किरणमयी!!!' वक्ष में जमे हुए उनके दुःख की ज्वाता उस दिन बुझ गई थी। यही है सुधामय का जयवांगता! हजारों व्यक्तियों के समक्ष जोर-जोर से 'किरणमयी' को 'किरणमयी' कहकर पुकारने को ही वे 'जय बांगला' के नाम से जानते हैं।

अचानक बुरी तरह से दरवाजा खटखटाने की आवाज से दोनों चौंक उठे। हरिपद भट्टाचार्य आये हैं। जीभ के नीचे 'निफिकार्ड' टेवलेट रखकर आँखें बंद किए सोये रहने के बाद सुधामय को दर्द से धोड़ी राहत मिली। हरिपद घर के आदमी की तरह ही हैं। हरिपद को देखकर सुधामय उठकर बैठ गये।

'क्या आप बीमार हैं? बड़े फीके-से लग रहे हैं!'

'हाँ हरिपद। कई दिनों से शरीर की हालत ठीक नहीं है। प्रेसर भी नहीं देखा।'

'पहले से पता होने पर मैं बी० पी० मशीन ते आता।' किरणमयी बोती, 'देखिए न! सुरंजन भी इस वक्त बाहर निकला है। आप किस तरह आये?'

'शार्ट कट मारकर आया हूँ। मैन रोड से नहीं आया।'

काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोता। हरिपद अपनी चादर उतारते हुए बोते, 'ढाका में आज बावरी मस्जिद के तोड़े जाने को लेकर प्रतिवाद हो रहा है, दूसरी तरफ शान्ति जुलूस भी निकाला जा रहा है। राजनैतिक दलों और विभिन्न संगठनों ने

साम्राज्यिक सद्भावना बनाये रखने के लिए सभी का आव्वान किया है। मंत्रि सभा की बैठक में जनता से संयम बनाये रखने के लिए अनुरोध किया गया है। शेष हसीना ने कहा है कि किसी भी कीमत पर साम्राज्यिक सद्भावना बनाये रखिये। भारत के दंगा-फसाद में दो सौ तेर्हस लोगों की मृत्यु हुई है, चालीस शहरों में कम्फू जारी किया गया है। साम्राज्यिक दत्तों को नियिद्ध घोषित कर दिया गया है। नरसिंह राव ने बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराने का बचन दिया है।'

इतना कहकर हरिपद गम्भीर चेहरा लिये हुए बैठे रहे। फिर कहा, 'कुछ तथ्य किया है ? क्या यहीं रहिएगा ? मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहना उचित होगा। मैंने तो सौचा था, समुराल चला जाऊँगा। मेरी समुराल मानिकगंज में है। लेकिन आज सुबह साते ने आकर बताया कि मानिकगंज शहर और धितर थाने के इलाके में सौ से भी अधिक घरों की लूट कर आग लगा दी गई है। पच्चीस मंदिरों को तोड़कर जला दिया गया। वक्सुड़ी गाँव के हिन्दुओं के मकानों को जला दिया गया। आधी रात में आठ-दस युवक देवेन सूर के घर में घुसकर उसकी बेटी सरस्वती को उठा ते गये फिर बलात्कार किया।'

'क्या कह रहे हैं !' सुधामय आत्मनाद कर उठे।

'आपकी बेटी कहाँ है ?'

'माया अपनी सहेली के घर पर है।'

'मुसलमान के घर तो !'

'हौं !'

'तो फिर ठीक है।' हरिपद जी ने निश्चितता की सास छोड़ी।

किरणमयी भी निश्चित हुई। सुधामय चश्मे का शीशा पोछते हुए बोते, 'दरअसल सारा दंगा-फसाद इधर ही है। मयमनसिंह में कभी दंगा होते नहीं देखा। अच्छा, हमारे मयमनसिंह में भी कुछ हुआ है क्या, हरिपद बाबू ?'

'सुना है, पिछली रात में फूलपुर थाने के बद्युआड़ीह गाँव में दो मंदिर, एक पूजा मंडप और त्रिशाल में एक कालीमंदिर तोड़ दिया है।'

'शहर में तो कुछ नहीं हुआ होगा ? दरअसल, देश के उत्तर की ओर यह सब कम ही होता है। हमारे तरफ तो कभी मंदिर जलने की घटना नहीं घटी, है ? किरणमयी ?'

'नार्थ बुक हॉल रोड के सार्वजनिक पूजा दफ्तर जर्मीदारों की कार्रा इंडिया^३ मंदिर सब कुछ का ध्वनि कर दिया। आज शनिवार के जनखावार^४ (नाश्त)^५ मिठाई की दुकान, शतरूपा स्टोर को भी तूटने वाले जला दिया गया। इन्हें^६ में जमात शिविर के लोगों ने कुट्टिया^७ के छट पर्दा^८ के तोड़ दिया। इन्हें^९ चिटागांग, सिलहट, भोला, शेरपुर, कञ्जीवार, नंवाराली के बारे में^{१०} सुना है, उससे तो मुझे बहुत डर लग रहा है।'

‘ठर किस बात का ?’ सुधामय ने पूछा ।

“एक्सोइस !”

‘अरे नहीं ! इस देश में उस तरह से दंगा नहीं होगा !’

‘नब्बे की बातें भूल गये दादा ! या फिर वह आपको उतना महत्त्वपूर्ण नहीं लगा !’

‘वह तो इरशाद सरकार द्वारा रखी गई घटना थी !’

‘क्या कह रहे हैं दादा ! बांगलादेश सरकार के जनसंख्या व्यूरो का हिसाब देखिए न । इस बार का ‘एक्सोइस’ भयंकर ही होगा । सजाई हुई घटना में लोग अपने देश की मिट्ठी को त्याग कर इस तरह से चले नहीं जाते । क्योंकि देश की मिट्ठी तो फूल के गमते की मिट्ठी नहीं है, जिसे खाद-पानी देकर थोड़े-थोड़े दिन बाद बदल दें । दादा, काफी डरता हूँ । एक लड़का कत्तकत्ता में पढ़ता है । लड़कियाँ यहाँ हैं । लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं उनकी फिकर में नींद नहीं आती । सोचता हूँ, कहीं चला जाऊँ ।’

सुधामय चौंक गये । एक ही झटके से चश्मा उतारते हुए बोले—‘हरिपद बाबू, आप पागल हो गये हैं ? ऐसी अपशंकुन बातों का उच्चारण भी नहीं कीजिएगा ।’

‘यही कहेंगे न कि यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस अच्छी है । अच्छा रुपया कमा रहा हूँ । अपना घर है । है न ?’

‘नहीं हरिपद ! कारण वह नहीं है । सुविधा है इसलिए नहीं जा सकते, बात यह नहीं है । सुविधा न रहने पर भी जने का सवाल क्यों आयेगा ? क्या यह तुम्हारा देश नहीं है ? मैं तो सेवानिवृत्त व्यक्ति हूँ । कमाई भी नहीं है । लड़का भी नौकरी-चाकरी नहीं करता । रोगी देखता हूँ, उसी से परिवार चलता है । अब दिन-व-दिन रोगियों की संख्या भी घट रही है । इसका मतलब यह थोड़े ही है कि मैं चला जाऊँगा ? जो लोग देश छोड़कर चले जाते हैं, क्या वे आदमी हैं ? चाहे जो भी हो, जितना भी दंगा-फसाद हो, वंगाली तो असभ्य जाति नहीं है । थोड़ा बहुत कोलाहल हो रहा है, रुक जायेगा । पास-पास स्थित दो देश हैं । एक देश में आग लगेगी तो उसकी तपट तपरे देश में तो जायेगी ही । माइंड इट हरिपद ! चौंसठ का दंगा वंगाली मुसलमानों ने नहीं लगाया था, विहारी मुसलमानों ने लगाया था ।’

हरिपद बाबू अपनी चादर से नाक-मुँह अच्छी तरह से ढांकते हुए बोले, ‘चादर से अपना चेहरा छिपाये हुए जो निकल रहा हूँ तो विहारी मुसलमानों के डर से नहीं दादा, आपके वंगाली भाइयों के डर से ।’

हरिपद बाबू रावधानी से दरवाजा खोलकर दर्वे पैरों से वार्यों ओर की गली से होते हुए अदृश्य हो गये । किरणमयी दरवाजे को दोनों ऊँगलियों से फाँक करके देवैनी के साथ सुरेजन की प्रतीक्षा करती रही । थोड़ी-थोड़ी दैर वाद एक-एक जुलूस जा रहा है—नाराए—तकबीर अल्ताहो अकवर’ का नारा लगाता हुआ । उनका कहना है किसी भी तरह भारत सरकार को वावरी मस्जिद का निर्माण करना होगा, वरना छैर नहीं ।

सुरंजन काफी रात में घर लौटा। वह नशे में धूत था। उसने किरणमयी को बता दिया कि उसे भूख नहीं है। रात में वह खाना नहीं खायेगा।

सुरंजन वत्ती बुझाकर सो जाता है। उसे नींद नहीं आती। वह सारी रात करवटे बदलता रहता है। चूंकि उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वह एक-एक कदम चलता हुआ अतीत में लौटता है। इस राष्ट्र की चार मूल नीतियाँ थीं—वांगता जातीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र और समाजवाद। बावन के भाषा आन्दोलन से तेकर तभ्ये समय के गणतात्रिक संग्राम और उसके घरमुक्ति-युद्ध के बीच जो साम्प्रदायिक और धर्मान्ध शक्तियाँ परास्त हुई थीं, बाद में मुक्ति-युद्ध के चैतना विरोधी प्रति-क्रियाशील चक्र के धूमने, राष्ट्रीय सत्ता के दखल और संविधान के चरित्र-परिवर्तन के फलस्वरूप मुक्ति-युद्ध में तिरस्कृत और पराजित वही साम्प्रदायिक कट्टरपंथी शिरुतमा फिर स्थापित हुई। धर्म को राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की युश्तता के जरिए अवैध और असंवैधानिक रूप से इस्लाम को राष्ट्रधर्म बनाने के बाद साम्प्रदायिक और मौलवादी शक्ति की तत्परता बहुत अधिक बढ़ गई।

कुमिल्ता जिले के दाउदकान्दी उपजिला सवाहन गाँव में 1979 ई ८ अक्टूबर को सुबह हिन्दू ऋषि सम्प्रदाय के ऊपर आसपास के गाँवों के करीब ३००० रुपये के अचानक हमला किया। उन लोगों ने चिल्ताकर धोयणा की—‘राष्ट्रीय रुपये के द्वारा इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया है। इसलिए इस्लामी देश में रुपये के द्वारा सबको मुसलमान बनना पड़ेगा।’ उन लोगों ने ऋषियों के प्रत्येक १०० में दूसरा रुपया की तथा आग लगा दी। मन्दिरों को धूल में मिलाकर कई लोगों द्वारा रुक़झर तो गये थे, जिनकी अब तक कोई खबर नहीं मिली। तड़कियों के साथ रुते आम बलात्कार किया गया। इस हमले में बुरी तरह पायल हुए कई व्यक्ति अब तक जीवित हैं।

नरसिंदी में, शिवपुर जिले के आबीरदिया गाँव के नृपेन्द्र कुमार सेनगुप्ता और उनकी पत्नी अणिमा सेनगुप्ता को एक वकीत के दौर में अटकाकर सवा आठ धीघा जमीन की जबरदस्ती रजिस्ट्री करवा ती गई। २२ नवंबर १९७९ को अणिमा ने नरसिंदी के पुलिस सुपर से लिखित शिकायत की फिर झंगेयज्ज्ञों ने उसे डराया धमकाया। उस इलाके के लोग भी डर के मारे कुछ बड़े नहीं पाये। इसके बाद अणिमा को ही चार दिनों तक जेल में बंद रखकर उस पर तरह-तरह के जुल्म ढाए गए।

उस वर्ष ७ मई को फौरोजपुर जिले के काउखाली उपजिला के बाउलाकांदा गाँव में दस-वारह साशस्त्र व्यक्तियों ने हातदारों के मकान पर हम्स्ता किया। घर का लूटने के बाद मन्दिरों को तोड़कर उत्तसित होते हुए न्याय लगाया था—‘हिन्दुओं का निधन करो, मंदिर तोड़ मस्जिद करो।’ ऐसिन्हुओं को छोड़ देने की धमकी दे गये।

चट्टग्राम जिले में राउजान उपजिला के गोरेव गाँव में वैद्य बाड़ी में ९ मई को दिन के उजाते हैं इन फैलकर

सदस्यों को गोती से मौत के घाट उतार कर तांडव नृत्य किया।

सौतह जून को फीरोजपुर जिले में स्वरूपकाठी उपजिला के आठधर गाँव में दस-बारह पुलिस वालों ने गौरांग मण्डल, नगेन्द्र मण्डल, अमूल्य मण्डल, सुबोध मण्डल, सुधीर मण्डल, धीरेन्द्र नाथ मण्डल, जहर देउरी समेत पन्द्रह सौतह हिन्दुओं को बन्दी बनाया। गौरांग मण्डल के जाँगन में लाकर उनकी पिटाई शुरू की। गौरांग मण्डल की पली रेणु ने जब रोकना चाहा तो पुलिस वालों ने उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ बतात्कार किया। अन्य महिलाओं ने जब उन्हें रोकना चाहा तब उन्हें भी तांछित होना पड़ा। सनातन मण्डल की लड़की रीना को भी जबरदस्ती पकड़कर उन तोगों ने बतात्कार किया। इस घटना के बाद रीना का अपहरण हो गया और तब से आज तक वह तापता है।

अद्वारह जून को रात के ग्यारह बजे फीरोजपुर जिले में ही नजीरपुर उपजिला के चाँदकाठी गाँव में तीन पुलिस वाले और स्वानीय चौकीदार ने कुछ सशस्त्र व्यक्तियों को साथ तेकर तत्ताशी की। तत्ताशी करते समय उन लोगों ने हिन्दुओं को देश छोड़ने की चेतावनी दी। सर्वहारा पार्टी का सदस्य होने का आरोप लगाकर वे दुलाल कृष्ण मण्डल सहित चार-पांच हिन्दुओं को धाने में ते जाकर उन पर खूब जुल्म ढाया गया। बाद में आठ-दस हजार रुपये लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस इलाके के काफी हिन्दुओं ने देश छोड़ दिया। खुलना जिले में दिघलिया उपजिला के गाजीरहाट यूनियन के बारह गाँवों में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अवर्णनीय अत्याचार शुरू हुआ। चुनाव में हार कर चेयरमैन पद के उम्मीदवार मोत्ता जमालुद्दीन किराये के गुण्डे लगाकर हिन्दुओं की द्वेषी-वाड़ी में वाघा डालने लगे। वे धान काट ले रहे थे, गाय-वैतों को खोल कर ते जा रहे थे, दुकानों को लूट रहे थे।

दरिशाल जिले के दुर्गापुर गाँव में दान की जमीन पर अवैध कब्जा करने और तीज तेने के विरुद्ध दर्ज मामले के कारण 10 दिसम्बर 1988 को अब्दुस शुभान और यू० पी० सदस्य गुताम हुसैन ने हथियारबंद लोगों के साथ राजेन्द्रनाथ के घर पर हमला किया। उन्होंने राजेन्द्रनाथ को कल्प करने की धमकी देकर घर से सोना-गहना सब लूटकर जाते-जाते घर में आग तगड़ी दी। वे अष्टधातु की बनी राधाकृष्ण की मूर्ति भी उठा ले गये। जिन लोगों ने लेना नहीं चाहा उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। जाने से पहले वे राजेन्द्रनाथ को सपरिवार देश छोड़ने का 'हुक्म' दे गये।

26 अगस्त 1988 की सुबह वागेरहाट जिले में रामपाल उपजिला के तालबुनिया गाँव में कुछ कट्टरपंथियों के उकसावे से प्रेरित होकर पुलिस वालों ने बूढ़े लक्ष्मणचन्द्र पाल के घर में घुसकर उसके पोते विकासचन्द्र पाल की वेधड़क पिटाई की। इतना ही नहीं तक्षणचन्द्र के बड़े बेटे पुलिन विहारी पाल और मझले बेटे रवीन्द्रनाथ पाल को भी पुलिस ने काफी पीटा। पुलिन की पली ने जब पुलिस वालों को रोकना चाहा तो पुलिस ने उसे भी पीटा! इसके बाद पुलिस पुलिन, रवीन्द्रनाथ और विकास को

बांधकर धाने में ले आयी, वहाँ पर झूठा केस दर्ज करके उन्हें जेल में डात दिया गया। उन्हें जमानत भी नहीं मिली। दरअसल स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय पहले शोलाकुड़ा गाँव के अब्दुल हाकिम मुल्ता को लक्षण चन्द्र की भतीजी के साथ बताल्कार करने और परिवार के अन्य सदस्यों को मारने-पीटने के जुर्म में लम्बे समय के लिए जेल हो गयी थी। जेल से छूटकर तालदुर्निर्या गाँव के सिराज मल्लिंक, हारून मल्लिंक और अब्दुल जब्बार काजी को लेकर पुलिस की सहायता से उसने लक्षणचन्द्र पात के परिवार से इस तरह बदला लिया। इस घटना के बाद सुरक्षा के अभाव से जांशंकित कई हिन्दू परिवारों ने देश छोड़ देने का निर्णय लिया।

गोपालगंज के कोटातीपाड़ा, मकसूदपुर सहित पूरे गोपालपुर जिले में हिन्दुओं के घरों में चोरी, डकैती, लूटमार चार सौ बीसी, गैर कानूनी ढंग से घरों पर कब्जा करने, झूठा मामला दायर करने, बताल्कार करने, मंदिरों को तोड़कर आग लगाने की घटना तो ही ही, साथ ही पुलिस का अत्याचार भी द्यूब चला। कोटातीपाड़ा उपजिला के अध्यक्ष मण्टू काजी के पाततू गुण्डों ने कुशला यूनियन के मान्दा लाखिरपाड़ गाँव में दिनदहाड़े खुलेआम हिन्दुओं पर हमला किया, उचकी बेटियों पर जुल्म दाया और मादाखाड़ी, लाखिरपाड़ा, घाघर वाजार, खेजूरवाड़ी, कान्दी आदि इताकों में हिन्दुओं को डरा धमकाकर रुपया ऐंठा, कीमती वस्तुओं को तूटकर स्टाप्प ऐपर पर हस्ताक्षर भी करवा लिया। यहाँ के काफी हिन्दुओं ने डर कर देश छोड़ दिया। मण्टू काजी ने कोटातीपाड़ा में सोनाली बैंक की प्रिसेज भौमिक के साथ पाश्विक बताल्कार किया। कान्दी गाँव की ममता, मधु सहित कई लड़कियों को नौकरी देने के बहाने उपजिला कार्यालय में बंद कर द्वारी तरह बताल्कार किया गया।

बागेरहाट जिले में वित्तमारी उपजिला के गरीबपुर गाँव में अनिलचन्द्र के घर में 3 जुलाई 1988 की आधी रात पुलिस घुसी। अनिलचन्द्र घर पर नहीं थे। पुलिसवालों ने उसकी पत्नी और बच्चे को काफी पीटा। उसी रात गाँव के स्कूल मास्टर अमूल्य बाबू के घर पर भी पुलिस ने लूटपाट की। 4 तारीख को सुझीगाती गाँव के क्षितीश मण्डल के घर पर पुलिस ने घावा बोला। घर पर कोई पुरुष न रहने के कारण क्षितीश मण्डल की पत्नी और बेटी के साथ पाश्विक अत्याचार किया गया। 5 तारीख को उसी गाँव के श्यामल विश्वास के घर पर भी पुलिस ने हमला किया। श्यामल बाबू को न पाकर पुलिसवालों ने उनकी बेटी के साथ बताल्कार किया और घर की कीमती वस्तुओं को तूट लिया। इन घटनाओं के कुछ दिनों बाद से वित्तमारी गाँव के नीरद विहारी राय के घर में जबरन घुसकर एक असामाजिक व्यक्ति रहने लगा। प्रशासन से कहने-सुनने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कालशिरा गाँव के एक हिन्दू को १०० पी० सदस्य भंसूर मल्लिंक ने जबरदस्ती उसके घर से निकालकर खुद रहने लगा है। वह देघर व्यक्ति अब रास्ते में भटकता है।

गोपालगंज के शिशा विभाग के कार्यपालक जहूरसाहेब ने हिन्दू मल्लिंक

नौकरी दिलाने का तालच दिखाकर उनकी इंजेंजिनियर लूटी। डेमकैर गाँव में विश्वासवाड़ी की दो महिलाओं का उसी तरह से वलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, ये जनाब हिन्दू शिक्षक-शिक्षिकाओं को तबादले का डर दिखाकर उनसे रुपया भी ऐंठते हैं।

गोपालगंज के आलती गाँव के जगदीश हालदार के घर पर पुलिस और उस इलाके के हथियारवंद युवकों ने एक साथ मिलकर हमला किया। पूरे घर को तहसनहस कर दिया। परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और लूटपाट भी की। जाते-जाते सबके मार डालने की धमकी भी दे गये। उस वर्ष गाँव के और भी कई मकानों पर इसी तरह हमला हुआ और कई मंदिरों को तोड़ डाला गया। आशुतोष राय, सुकुमार राय, मनोरंजन राय, अंजलि राय, सुनीति राय, वेला विश्वास उनके हाथों उत्पीड़ित हुए थे। जाते समय वे धमकी दे गये कि इस देश में कोई मंदिर नहीं रह सकता।

गोपालगंज जिले में मकसूदपुर उपजिला के 'उजानि संघ' के अध्यक्ष खायेर मुत्ता की मृत्यु को मुद्रा वना कर पुनरुत्थानवादी कट्टरपंथियों और पुलिस ने उस इलाके के हिन्दुओं पर अत्याचार किया। पुलिस ने वासुदेवपुर गाँव के शिवू की पली और महाढेली गाँव की कुमारी अंजलि विश्वास के साथ वलात्कार किया। शिमुलपुर गाँव के बारह लोगों पर सर्वहारा दल का समर्थन होने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनपर काफी अत्याचार किया गया। बाद में एक वड़ी राशि के बदते उनको छुटकारा मिला।

20 जून को फिरोजपुर जिले में स्वरूपकाठी उपजिला के वास्तुकाठी गाँव में पुलिस ने हिन्दुओं की फसल को तहस-नहस कर दिया। खेत में जो काम कर रहे थे, उन्हें थाने में बंद कर दिया गया और काफी रुपये वसूलने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। इसी गाँव में 11 जून को उपजिला के स्वास्थ्य विभाग की सेविका भिनती रानी अपनी भाभी और भाई को लेकर अपनी सहेली छवि रानी के घर मिलने आदमकाठी जा रही थी। रास्ते में अस्थायी पुलिस कैप्प में बंद करके उन्हें सताने की धमकी दी जाने लगी। बाद में एक हजार रुपये के बदले उन्हें छोड़ा गया। स्वरूपकाठी के पूर्व जलावाड़ी गाँव के सुधांशु कुमार हालदार की चौदह वर्षीय लड़की शिउली को मामा के घर जाते समय रास्ते में पकड़कर रुस्तम अल्ती नाम के एक आदमी ने उसके साथ वलात्कार किया। शिउली रास्ते में बेहोश होकर गिरी हुई थी। सुधांशु हालदार ने जब वहाँ के जाने माने लोगों से इसकी फरियाद की तो उससे कहा गया, 'यह सब अगर नहीं वर्दाश्त कर सकते तो इस देश को छोड़ना होगा।'

7 अप्रैल को वागुड़ा जिले में शिवगंज उपजिला के वूड़ीगंज बाजार में डॉ० शचीन्द्र कुमार साहा के आवास के सामने मस्तिष्ठ बनाने के मक्क्सद से मस्तिष्ठ कमेटी के लोगों ने उनके घर पर हमला किया। उन्होंने डाक्टर साहा के घर का दरवाजा खिड़की तोड़ डार्ता। सामान लूटकर घर में आग लगा दी। उन लोगों ने उनके घर से

सटे मंदिर को छोड़कर धूत में पुतिस दिया। करीब दो घण्टे तक ताण्डव चला। इस दौरान करीब 11 लाख रुपये का सामान लूट लिया। घटना के समय डॉक्टर साहब के लड़के ने किसी तरह भागकर थाने में खबर दी तो पुलिस अधिकारी अपनी पुलिस वाहिनी लेकर गये तो जरूर लेकिन अभियुक्त अलताफ हुसैन मण्डल के नेतृत्व में अन्य अभियुक्तों ने लाठी, लोहे के रोड, इंट-पत्थर से पुतिस पर आक्रमण किया। इसमें कुछ पुतिस वाले धायल भी हुए बाद में शिवगंज उपजिला के कार्यकारी अधिकारी ने अलताफ हुसैन मण्डल सहित पैसठ लोगों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की। उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन ऊपर से आदेश होने के कारण अभियुक्तों को रिहा करना पड़ा। डॉक्टर साहब के परिवार के सदस्यों को भी मार डालने की धमकी दी गई। इससे पूरे इलाके के हिन्दू असुरक्षा महसूस करने लगे। अब वे इस इलाके को छोड़कर जाने के बारे में सोचने लगे हैं।

फरीदपुर जिले में आलताफड़ांगा उपजिला के टिकरापाड़ा गाँव में 3-4 मई 1980 को हिन्दुओं के ऊपर अत्याचार किया गया। उस इलाके के हिन्दू जान बघाने के लिए अपना-अपना घर छोड़कर दूसरी जगह आश्रय लेने लगे।

यागुरा जिले में मुहम्मदपुर उपजिला रायपुर यूनियन के राहतपुर गाँव के निवासी हरेन विश्वास की पली, नावातिग लड़की और उसके बेटे की बहू के साथ उसी इलाके के प्रभावशाली नजीर मृधा ने बलात्कार किया। इस मामते की शिकायत दर्ज कराने पर नजीर नायर और उसके सहयोगियों ने ऐसा अत्याचार शुरू किया कि हरेन विश्वास और उसके परिवार को देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा।

19 और 20 मई को गोपालगंज जिले में कोटातीपाड़ा उपजिला के देवग्राम में पुलिस वंगभूमि आन्दोलन में शरीक होने के अभियोग में उस गाँव के अनिल कुमार बागवी, सुशील कुमार पाण्डे, माछनलाल गांगुती को गिरफ्तार किया गया। काफी रुपये वसूलने के बाद उन्हें छोड़ा गया। झालकाठी जिले के उपजिला भीराकाठी गाँव के रमेशचन्द्र ओझा को जबरदस्ती धर्मान्तरित किया गया। रमेशचन्द्र की पली मिनती रानी और उसके बड़े भाई नीरद ओझा पर भी धर्म बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मिनती रानी ने जब खुद स्थानीय जाने-माने लोगों से यह बात कही तो उन्हीं को उल्टे पाशविक अत्याचार मुगतने की धमकी दी गई। मिनती रानी अब जान बघाने के डर से भागी-भागी फिर रही हैं।

गोपालगंज जिले में कबुद्धा उपजिला के जवाई गाँव में सुधीर वैद्य की पली के साथ सुलतान नाम के एक नौकरी से निकाले गये पुलिस जवान ने बलात्कार किया। लोकताजि के डर से उस पहिला ने अपने आपको कहीं छिपा लिया है। इतना ही नहीं, उसे जान से मार डालने की धमकी भी दी गई है। उसी गाँव के उपेन्द्र माला की एक गाय को जबह करके मुरालमान खा गये। उसने जब इसकी शिकायत की तो उल्टे उसे ही लाभित होना पड़ा। गोपालगंज की बौतताली यूनियन के बौतताली गाँव में

राय ने अपने ही खेत की धान की फसल की रक्षा करते हुए मुहल्ले के मुसलमानों के हाथों जान दे दी। और उसकी पली रेणुका इस निर्दयी हत्याकाण्ड को उनके दबाव में आकर 'स्वाभाविक मृत्यु' कहने को बाध्य हुई।

कुमिल्ला जिले में लाकसाम उपजिला के दक्षिण चौंदपुर के प्रेमानन्द शील की नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की मंजुरानी शील का 4 दिसम्बर 1988 की रात आठ बजे अब्दुर रहीम ने अपने दल-बल के साथ अपहरण किया। दूसरे दिन सुबह लासाम थाने में शिकायत दर्ज की गई। फिर भी मंजुरानी का अब तक कोई पता नहीं चला। अपहरणकर्ता प्रेमानन्द शील और उसके परिवार के सदस्यों को धमकाते फिर रहे हैं। पूरे मामले में पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। इस इलाके के अभिभावक अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने का साहस तक नहीं जुटा पा रहे हैं।

25 अप्रैल को बरिशाल जिले में उजिरपुर उपजिला के गुटिया गाँव में पुलिस ने कीर्तन करते सोलह हिन्दुओं को गिरफतार किया। वे सब के सब दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर थे।

राष्ट्रधर्म बिल पास होने के बाद जैसोर जिले में अंभयनगर उपजिला के सिद्धिरपाशा गाँव के हिन्दू 20 हजार रुपये फी वीधा कीमत की जमीन सात-आठ हजार रुपये वीधा वेचकर भारत जा रहे थे। क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों ने प्रचारित किया था कि हिन्दुओं की सम्पत्ति अब बेची नहीं जा सकेगी। इस पर गाँव के माधव नन्दी वाकी हिन्दुओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी बातों में आकर अपनी जमीन-जायदाद मत बेचिए। इसके कुछ ही दिनों बाद आधी रात को माधव नन्दी के घर पर बारह-चौदह लोगों ने हमला कर दिया। उन सब के हाथों में कटारी, बल्लम आदि था। हमलावरों ने माधव नन्दी की सात महीने की गर्भवती पुत्रवधू और जवान लड़की के साथ बलाकार किया।

कुष्ठिया के खोकसा उपजिला के देवेन विश्वास पर पन्द्रह मई को गोली चलाई गई। इसकी शिकायत भी दर्ज की गई लेकिन आज तक कोई गिरफतार नहीं हुआ।

1988 में 12 और 16 अगस्त को पुलिस ने राशस्त्र युवकों को साथ लेकर वागेहाटा जिले में चितलमारी उपजिला के गरीवपुर गाँव पर हमला किया। उन्होंने मंदिर की देवमूर्ति को तोड़ डाला, लड़कियों की इज्जत लूटी। वीस-इक्कीस लोगों को वेतहाशा पीटने के बाद रुपया ऐंठ कर छोड़ा। नारायण वैरागी, सुशान्त ढाली, अनुकूल वाईर्ड, रंजन ढाली, जगदीश वैरागी काफी दिनों तक जेल में रहे। चारबालीयाड़ी गाँव में भी इसी तरह का हमला हुआ। पन्द्रह-सोलह व्यक्तियों को जेल में बंद करके रुपया वसूलने के बाद छोड़ा गया। हिजला और बड़वाड़िया गाँव में भी आठ-नी व्यक्तियों को गिरफतार किया गया, उन पर जुल्म ढाया गया, अंत में रुपसों के बदले उन्हें मुक्ति मिली।

सातक्षीरा के ताला उपजिला में पारकुमिरा गाँव के रवीन्द्रनाथ घोष की किशोरी

तड़की छन्दा के साथ, जो तीसरी कक्षा में पढ़ती है, गाँव के ही स्कूल शिक्षक ने बलात्कार किया। 1979 में 16 मई को यह घटना घटी। उस दिन, रात में छन्दा अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर के बरामदे में सोई हुई थी, आधी रात को उसका स्कूल मास्टर नईमुद्दीन कुछ लोगों को साथ लेकर आया और जबरदस्ती छन्दा को उठा ले गया। बगल के एक बगीचे में ते जाकर उसके साथ बतात्कार किया। दूसरे दिन सुबह छन्दा खून से लथपथ अचेत हालत में मिली। उसे सातकीरा जस्पतात में दाखिल कराया गया। ताता धाने में रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर भी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया।

गोपालगंज जिले में मकसूदपुर उपजिला के गोहाता गाँव की उज्ज्वला रानी के साथ उसके बाप की सम्पत्ति हथियाने के फिराक में लगे पांच व्यक्तियों ने बलात्कार किया। उज्ज्वला रानी के अभिभावक जव मकसूदपुर धाने में रिपोर्ट तिखाने गये तो धानेदार ने एफ० आई० आर० ही दर्ज नहीं किया।

बरिशाल जिले में झालकाठी, नलछिटी, स्वरूपकाठी, बानूरियापाड़ा, आगैतझरा, उजिरपुर, नजीरपुर, गौरनदी आदि इलाकों के सर्वहारा पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार करने के बहाने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया गया। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद रिश्वत लेकर छोड़ा गया। पुतिस के अत्याचार से भयभीत होकर उस इलाके के अनेक हिन्दू भागे-भागे फिर रहे हैं। आगैतझरा उपजिले के ब्राजीनाय हातदार पुतिस अत्याचार से उत्सीड़ित होकर करीब अधमरे पड़े हैं।

फीरोजपुर जिले में नाजिरपुर उपजिला के दीधा धूनयन के तहत नावटाना गाँव के केशव साधु और उसके इकलोते पुत्र की, सर्वहारा पार्टी के साथ मिले होने के आरोप में, पुतिस ने इतनी पिटाई की कि वे दो को मार छाते देख केशव साधु को दिल का दौरा पड़ा और उसका निधन हो गया।

नरसिंदी जिले में रायपुर उपजिला की चरमधुआ० यूनियन के चरमधुआ० गाँव में शहाबुद्दीन और अलाउद्दीन के नेतृत्व में महर असी तोगों के एक दल ने सुत्रधर पाड़ा के हिन्दुओं के घर पर हमला किया और लूटपाट की। वीस परिवारों के करीब डेढ़ सौ सदस्य गाँव छोड़कर रिफ्यूजियों का जीवन जी रहे हैं।

नेत्र कोना जिले में मदन उपजिला के जहांगीरपुर गाँव में 16 मई को पुनरुत्थानवाटी कटूरपथियों के एक दल ने अल्पसंख्यक नेता विनय वैश्य के घर पर हमला किया। दिनज्यानू के परिवार के सदस्यों को छत्तीस घटे तक बंदी बनाकर उनके घर पर लूटपाट की। धाने में वे शिकायत करने गये तो उत्टे पुतिस उन्हीं के दोनों बेटों को पकड़कर ले गयी। बाद में उन तोगों को छोड़ दिया गया था।

बाकेरगंज चौटपुर यूनियन के दुर्गापुर गाँव में दरा दिसम्बर को भानीय य०० पी० सदस्य गुताम हुसैन कं नेतृत्व में करीब साँ व्यक्तियों ने राजेन्द्र चन्द्र दास के घर पर हमला किया। लूटपाट की, घर के तोगों को मारा पोटा और अत में पर में ग;

दी। कोतवाली धाने में राजेन्द्र चन्द्र ने जब मुकदमा कर दिया तो उनके घर में फिर से आग तगा दी गई और परिवार के सदस्यों को जान से मार डालने की घमकी दी। उपजिला अदातत में मुकदमा किये जाने पर भी पुतिस चुप रही।

नोवाखाली जिले में वेगमगंज उपजिला के भीर वारिसपुर गाँव में दिनेश चन्द्र दास की सम्पत्ति कुछ लोगों ने जबरदस्ती हड़प ती।

सुरंजन को नींद नहीं आती उसने 'एकता' पत्रिका में दो वर्षों तक काम किया था। वह रिपोर्टर के रूप में काम करता था। इस सिलसिले में उसे देश के कोने-कोने तक भागना पड़ता था। इस तरह की निपीड़ित खबरें उसके धैते में ही पड़ी रह जाती थीं। कुछ छपतीं और कुछ नहीं छपती थीं। संपादक कहते, 'जानते हो सुरंजन, यह दुर्वल के ऊपर सबल का अत्याचार है। यदि तुम अभीर हो तो तुम हिन्दू हो या मुसलमान, यह फैक्टर नहीं है। पूँजीवादी समाज व्यवस्था का तो यही नियम है। जाकर देखो, दरिद्र मुसलमानों की हालत भी ऐसी ही है। धनी व्यक्ति चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, दरिद्र का शोषण कर रहा है।'

जाड़ा बहुत जमकर पड़ रहा है न? सुरंजन बदन से रजाई हटाता है। बहुत पहले सुबह हो चुकी है। विस्तर से उठने का उसका मन नहीं होता। कल रात वह सारा शहर घूमता रहा। किसी के घर जाने की इच्छा नहीं हुई। किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था। वह अकेला चलता रहा। उसने यह भी सोचा कि घर पर माँ-बाप चिन्ता कर रहे होंगे। फिर भी उसकी लौटने की इच्छा नहीं हुई। डर से सहमी हुई किणमयी का चेहरा देखने से वह खुद भी डर रहा था। सुधामय भी भावहीन आँखों से देखते रहे। सुरंजन की इच्छा हो रही थी कि वह कहीं बैठकर शराब पीये। ताकि वह शराब पीते-पीते माया की मायावी आँखों को भूल सके। जिन आँखों में जगह-जगह पर भय स्पष्टी नीलाभ बादल लिये वह 'भैया-भैया' कहकर सुरंजन को पुकार रही थी। देखते-ही-देखते वह धड़धड़ाकर बड़ी हो गई। अभी उस दिन की ही तो बात है। वह छोटी-सी गुड़िया भैया का हाथ पकड़े नदी देखने जाती थी। वह इयामती सुन्दर लड़की दुर्गापूजा आते ही फ्रॉक खरीद देने की मांग करती थी। सुरंजन कहता, 'पूजा-वूजा की बात छोड़ दो! मिट्टी की प्रतिमा बनाकर असम्ब्र तोग नाचेंगे और तुम नया कपड़ा पहनोगी, छिः। तुम्हें मैं आदमी नहीं बना सका।'

माया लाड़ भरे स्वर में कहती, 'भैया, पूजा देखने जाऊँगी। ले जाऊँगे?' सुरंजन धमकाता। कहता, 'आदमी बनो, आदमी! हिन्दू पत बनो।'

माया छित्तधिलाकर हँसती। कहती, 'क्यों, हिन्दू लोग आदमी नहीं होते!' 1971 में माया को 'फरीदा' कहकर पुकारा जाता था। 1972 में भी दंगा-फसाद समाप्त हो

गया था, सुरंजन के मुँह से कभी-कभी 'फरीदा' निकल जाता था। माया इससे गात फूता लेती थी। उसका गुस्सा उतारने के लिए सुरंजन मोड़ की दुकान से उसे चॉकलेट खरीद देता था। चॉकलेट पाकर वह और सुश्र हो जाती थी। जब वह चॉकलेट गात में रखती थी, तब उसकी मायावी आँखें सुश्री से घमक उठती थीं। वह दवापन में मुसलमान सहेतियों को रंगबिरंगे गुब्बारे खरीदते देखकर गुब्बारे के लिए भी जिद करती। इतना ही नहीं वह पटाखे फोड़ेगी, फुतझड़ी जतायेगी, इसके लिए किरणमयी का आंचल पकड़कर धूमती रहती थी। और कहती, 'आज नादिरा के घर पुलाव और मास पकेगा, मैं भी पुलाव खाऊंगी।' किरणमयी भी पुलाव पकाती थी।

माया परसों सुबह गई है। आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसे लेकर भौ पिताजी को कोई दुश्चिंहता भी नहीं है। मुसलमान के घर में कम से कम जिन्दा तो रहेगी। इतनी सी उप्र में वह दो-दो दृश्यमान करती है। 'इडेन कॉस्टेज' में पढ़ती है, और अपनी पढ़ाई-लिखाई का सर्व सुद ही चलाती है। सिर्फ सुरंजन को ही हाय पराहना पड़ता है। उससे नौकरी-चाकरी कुछ भी नहीं हो पायी। फिजिक्स में मास्टर डिग्री लेकर बैठा हुआ है। शुरू-शुरू में नौकरी करने की इच्छा थी। कई जगह इण्टरव्यू भी दिया था। वह विश्वविद्यालय का मेधावी छात्र था। लेकिन जो लड़के उससे पढ़ाई में मदद लेने आ जाया करते थे, वही फाइनल परीक्षा में उससे ज्यादा नम्बर लेकर पास हुए। नौकरी के मामले में भी वही हुआ। उससे कम नम्बर पाने वाले छात्र को शिक्षक की नौकरी मिली लेकिन उसे नहीं मिली। उसने कई इण्टरव्यू दिये। इण्टरव्यू पर उसे कहीं पछाड़ नहीं पाये। लेकिन जो लड़के बोर्ड से निकल कर दुखी होकर कहते थे कि वाइबा अच्छा नहीं हुआ, सुरंजन देखता कि अंततः 'अप्वॉयटमेंट लेटर' उन्हें ही मिलता था। इस पर सुरंजन हैरान होता था। कुछेक बोर्ड में बात उठी कि सुरंजन अदब नहीं जानता है, परीक्षकों को सलाम नहीं करता है। दरअसल, 'अस्सताम वालेकुम', 'आदाव' या 'नमस्कार' से ही केवल श्रद्धा झापित की जा सकती है, सुरंजन इस बात को नहीं मानता है, जो लड़का 'अस्सताम वालेकुम' कहकर गदगद भाव से बात करता है, वही बोर्ड से निकलकर परीक्षकों को 'सुअर का बच्चा' कहकर गाली देता है। उसी लड़के को लोग सम्म मानते हैं और वही इण्टरव्यू में चुना भी जाता है। पर जिस सुरंजन ने 'अस्सताम वालेकुम' नहीं कहा, लेकिन कभी शिक्षकों को गाली नहीं दी। उसी ने लोगों से 'वे अदब' होने का इनाम पाया है। पता नहीं, इसी बजह से या फिर वह हिन्दू है, इसलिए उसे कोई सारकारी नौकरी नहीं मिली। गैर-सरकारी प्रतिष्ठान में उसे एक नौकरी मिली थी परन्तु तीन महीने नौकरी करने के बाद उसे और अच्छा नहीं लगा। उसने वह नौकरी छोड़ दी। इधर माया ठीक है। उसने हालात से समझौता कर लिया है। दो दृश्यमान पढ़ाती ही है। और सुनने में आया है कि एक एन० जी० ओ० में नौकरी भी ठीक हो गई है। सुरंजन को शक होता है कि ये सारी सुविधाएं शायद जहांगीर नाम के लड़के ने दिलाई होंगी। क्या माया अंततः

होकर उस लड़के से विवाह कर लेगी ? आशंका के तिनकों से उसके मन में बबूल पक्षी के घोंसले की तरह घोंसला बनने लगा । । एक प्याला चाय लिये किरणमयी सामने आकर खड़ी हो गई । आँखों के किनारे सूजन आ गई है । सुरंजन समझ गया कि वह रातभर सो नहीं पाई । वह भी कहाँ सो सका ? लेकिन इस बात को उसने जाहिर नहीं होने दिया । जम्हाई लेते हुए कहा, 'इतना दिन चढ़ आया, पता ही नहीं चला ।' मानो गहरी नींद में होने के कारण ही उसे पता नहीं चल पाया, बरना अगर उसे सुवह होने का आभास होता तो वह अन्य दिनों की तरह आज भी उठकर टहलने गया होता । जॅगिंग करता । किरणमयी चाय का प्याला लिये खड़ी रहती है । टेबिल पर रखकर जा भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया । सुरंजन को लगा कि किरणमयी कुछ बोलना चाहती है । लेकिन वह कुछ नहीं कहती । मानो वह बेटे के चाय का प्याला लेने के ही इन्तजार में खड़ी है । दो व्यक्तियों के बीच कितने योजन का फर्क होने पर कोई व्यक्ति इस तरह निर्वाक रह सकता है, सुरंजन इस बात को समझता है । वह खुद ही बात छेड़ता है, 'क्या मुझा आज भी नहीं लौटी ?'

'नहीं !' मानो एक प्रश्न की प्रतीक्षा में ही वह खड़ी थी । मानो सुरंजन के मुँह से निकले किसी भी शब्द को लेकर वह दो-चार बातें कह सकती है, इस तरह जल्दी से जवाब देकर वह विस्तर पर जा वैठी । लड़के के दायरे के अन्दर ! सुरंजन ने अनुमान लगाया कि इतना नजदीक बैठने का कारण दरअसल असुरक्षा की चेचैनी ही है । वह किरणमयी की न सो पायी आँखों, अस्त-व्यस्त बाल व मालिन साड़ी से अपनी नजरें हटा लेता है । जरा झुककर प्याला उठाकर चुस्की लेता है — 'वह क्यों नहीं लौट रही है ? मुसलमान लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं ? उसे हम पर विश्वास नहीं ? एक बार पूछा तक नहीं कि हम लोग यहाँ कैसे हैं ? केवल उसके जीने भर से काम चल जायेगा ?'

किरणमयी चुप रहती है । सुरंजन चाय के साथ-साथ एक सिगरेट सुलगाता है । माँ-बाप के सामने उसने कभी सिगरेट नहीं पी । लेकिन आज उसने 'फस' से माचिस जलायी । कश लेकर मुँह भर धुआँ भी छोड़ा । उसे याद भी नहीं रहा कि वह किरणमयी के सामने सिगरेट नहीं पीता है । मानो अन्य दिनों की तरह यह सामान्य दिन नहीं है । इतने दिनों तक माँ-बेटे की जो दूरी थी, वह समाप्त हो गई । जो सूक्ष्म दीवार थी, वह दूरी जा रही है । कितने दिन हो गये, उसने अपना स्नेहातुर हाथ किरणमयी की गोद में नहीं रखा । क्या बेटा बड़ा होते ही माँ के स्पर्श से इस तरह दूर होता जाता है ! सुरंजन की इच्छा हो रही थी कि वह अवोध बालक की तरह माँ की गोद में सिर रखकर बचपन में पतंग उड़ाने की बात करे । उसके भासा जो सिलहट से आते थे, नवीन नाम था उनका, वे अपने ही हाथों से पतंग बनाते थे, और काफी अच्छा उड़ाते भी थे । आसमान में दूसरी पतंगों को काटकर उनकी पतंग अकेले ही समूचे आकाश में विचरण करती रहती ।

पर क्या नहीं होता ? जिस देश के गर्म खून वाले व्यक्ति इतना बड़ा युद्ध कर सकते हैं, उस देश के व्यक्ति आज साँप की तरह शीतल क्यों हैं ? क्यों वे साम्राज्यिकता के पौधे को समूल उखाड़ फेंकने की जरूरत अनुभव नहीं कर रहे हैं ? क्यों वे ऐसी एक असम्भव बात को सोचने का साहस जुटा पा रहे हैं कि धर्म निरपेक्षता के बगैर भी गणतंत्र आएगा या आ रहा है ? ऐसा सोचना तो उन्हीं व्यक्तियों का है न, जो स्वतंत्रता के पक्ष की शक्ति थे ? प्रगतिशील आन्दोलन से जुड़े थे !

‘सुनने में आया है कि कत मुसलमानों ने सोयारीघाटा का मंदिर और श्यामपुर का मंदिर तोड़ डाला है ?’ किरणमयी कातर कंठ में बोली। सुरंजन ने अंगड़ाई ली। बोला, ‘क्या तुम कभी मंदिर जाती थीं, जो मंदिर के दूटने पर तुम्हें दुःख हो रहा है ? तोड़ने दो न, हानि क्या है ? धूल में मिल जाएं ये सब धर्म की इमारतें।’

‘मस्जिद के तोड़े जाने पर उनको गुस्सा आता है, तो मन्दिर के तोड़े जाने पर हिन्दुओं को भी तो गुस्सा आयेगा। क्या यह बात उन्हें मालूम नहीं है ? या नहीं समझते हैं ? एक मस्जिद के लिए वे लोग सौ-सौ मन्दिरों को तोड़ रहे हैं। इस्ताम क्या यही शान्ति का धर्म है ?’

‘इस देश के हिन्दू गुस्सा करके कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात की जानकारी मुसलमानों को है। इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं। क्या कोई एक भी मस्जिद में हाथ लगा पा रहा है ? नयाबाजार का मंदिर दो वर्षों से ढूटा पड़ा है। वच्चे उस पर चढ़कर सछलकूद करते हैं, पेशाब करते हैं। किसी भी हिन्दू में है हिम्मत जो मस्जिद की साफ-सुधरी दीवार पर दो मुक्का मार आये ?’

किरणमयी चुपचाप उठकर चत्ती गई। सुरंजन समझता है कि वह अपने ही भीतर अपनी एक दुनिया बना चुकी है। परिवार के बाहर वह कभी पैर नहीं बढ़ाती। वह परवीन को जिस नजरिये से देखती थी, अर्चना को भी उसी नजरिये से देखती। वह भी धोड़ा-सा लड़खड़ा गई। उसके मन में भी सवात उठा कि क्रोध-अभिमान पर सिर्फ मुसलमानों का ही अधिकार है ?

वावरी मस्जिद पर संकट आने के बाद ही, यानी नव्वे के अक्लूवर से ही इस देश में हिन्दुओं पर अत्याचार और मंदिरों पर हमता शुरू हुआ, ऐसी बात नहीं। सुरंजन को याद आया कि 1973 में 21 अप्रैल की सुबह जिला शहर के साहब बाजार में ऐतिहासिक काती मंदिर की काती प्रतिमा को अयूब अती नामक एक व्यक्ति ने अपने हाथों से तोड़ दिया था। मंदिर तोड़ने के बाद हिन्दुओं को दुकानों को भी तोड़ दिया गया।

16 अप्रैल को उसी बाजार के झिनाइद में शैलकूपा उपजिले कि रामनोपातपाड़ा

में रामगोपाल मंदिर की विष्ण्यात रामगोपाल प्रतिमा चोरी हो गई। बाद में शैलकूपा शमशान के बगल में टूटी-फूटी छातत में वह प्रतिमा पड़ी मिली। सेकिन उसके अलंकार नहीं मिले।

सीताकुण्ड के पूर्व लालानगर गाँव में जयगोपाल हाटी काली मंदिर को जलाकर भस्मीभूत कर दिया गया। उत्तर चाँदगाँव की कुराइशा चाँदगाँव और दुर्गाबाड़ी की प्रतिमा को भी तोड़ दिया गया।

राष्ट्रधर्म विल पास होने के दो महीने बाद खुलना जिले में फूलतला उपजिला के दक्षिणांडीही गाँव के बगल में पुराने कालाचाँद मंदिर की कस्ती पत्थर की बनी मूर्ति और उसका सोने का अलंकार चोरी हो गया। मंदिर कमेटी के सचिव फूलतला धाने में रिपोर्ट करने गये तो उल्टे पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया और उन पर शारीरिक अत्याचार किया। मंदिर कमेटी के सभी सदस्यों के नाम गिरफ्तारी का परवाना जारी किया गया। जिले के एस० पी० उस इलाके का जब दौरा करने गये तो वहाँ के हिन्दुओं को उल्टे यह कहकर धमकी दी कि हिन्दुओं ने ही मंदिर के मूर्ति और गहने चुराए हैं।

टांगाइल जिले में कालीहाती उपजिला के द्विमुखा गाँव के प्राचीन मंदिर से ८ दिसम्बर की रात सफेद पत्थर का शिवलिंग, राघागोविन्द व अन्नपूर्णा की मूर्ति और शालिग्राम शिला चोरी हो गई। धाने से पुलिस आयी। नूर मोहम्मद तातुकदार ने चोरी की है, यह बताने के बाद भी मूर्तियों का उद्धार नहीं हुआ।

कुमिल्ला जिले में बुड़ीचं उपजिला के मयनामती यूनियन के हिन्दुओं को 'विश्व इस्ताम' नाम के एक संगठन से पत्र दिया गया कि हिन्दू लोग जल्द-से-जल्द इस देश को छोड़ कर चले जायें। चिठ्ठी द्वारा चेतावनी दी गई कि पूजा-पाठ बंद न करने पर दंगा होगा। 14 अप्रैल को कालीबाड़ी मंदिर के बगल में बटवृक्ष पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। अलीअहमद नामक एक व्यक्ति ने मयनामती बाजार में प्रचार किया कि उस इलाके के हिन्दुओं को दंगा के जरिए भगा दिया जायेगा।

11 मार्च को भोला जिले में सालमोहन उपजिला के श्री श्री मदनमोहन अखाड़ा में जब कीर्तन हो रहा था तब शताधिक लोगों ने उस मण्डप में हमला किया। उन्होंने मंदिर में घुसकर प्रतिमा की तोड़-फोड़ की और वहाँ उपस्थित भक्तों की पिटाई भी की। दत्तपाड़ा के विभिन्न मंदिरों में घुसकर प्रतिमाओं को तोड़ा और सामान लूटकर आग लगा दी।

मानिकगंज जिले में धिउर उपजिला के बड़हिया गाँव में करीब सौ साल पुराने श्री श्री कालीमाता मंदिर के बगल की जमीन पर एडवोकेट जिल्टूर अहमद का कव्रिस्तान और मस्जिद-गिर्माण शुरू होने पर पूजा-पाठ में वाधा आएगी, ऐसा हिन्दुओं का सोचना है। नोवाहाली जिले में चटखिल उपजिला की मोहम्मदपुर यूनियन के तहत कातीरहाट के एक मंदिर में हिन्दू लम्बे समय से पूजा अर्चना करते आ रहे थे,

स्थानीय मुसलमानों ने साजिश करके जबरदस्ती मंदिर में पूजा वंद कराके वहाँ पर व्यवसाय करना शुरू कर दिया है।

गाजीपुर नगर निगम के फाउकात गाँव में तक्षी मंदिर की प्रतिमा 26 मई को तोड़ दी गई। इतना ही नहीं, प्रतिमा का सिर भी ले गये।

झिनाइदह जिले में उपजिला के काष्टसागरा गाँव में माठवाड़ी में चैत संक्रान्ति की रात जब चड़क पूजा चल रही थी, एक झुंड लोगों ने हमला किया। पुजारी को देघड़क पीटा गया। पूजा की सामग्री तहस-नहस करके ढोल-ढाक छीन लिया गया। शिकायत दर्ज किये जाने के बावजूद किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।

1979 में 14 मार्च की रात नौ बजे गोपालगंज शहर में उपजिला निज़ा पूर्वपाड़ा कालीमंदिर में मुसलमानों ने हमला किया और मंदिर को क्षति पहुँचाई। उलपुर के शिवमंदिर का ताला तोड़कर शिवलिंग समेत कीमती सामानों की चोरी कर ली गई।

कुष्टिया जिला शहर के धानापाड़ा में 17 अक्टूबर 1988 को दुर्गा प्रतिमा तोड़ दी गई।

खुतना जिले के सदर पाल बाजार में बाजार के कुछ मुसलमानों ने पूजा आरम्भ होने के पहले ही मूर्तियों को तोड़ डाला।

एक अक्टूबर 1988 को खुलना जिले के प्रसिद्ध श्री श्री प्रणवानन्द जी महाराज आश्रम की दुर्गा प्रतिमा तोड़ दी गई।

खुतना में दुमुरिया उपजिला के मधुग्राम में मस्जिद के इमाम ने शारदीय दुर्गोत्सव से पहले इलाके के सभी पूजा मण्डपों में चिट्ठी भेजकर इतिला दे दी कि हर बार जब-जब अजान होगी और नमाज पढ़ी जायेगी, पूजा का सब कार्यक्रम वंद रखा जायेगा। यह चिट्ठी 17 अक्टूबर को पहुँची थी।

अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में खुतना जिला शहर में साम्बद्धायिकों के एक जुलूस में नारा लगाया जा रहा था—‘मूर्ति पूजा नहीं चलेगी, तोड़ दो, चूर-चूर कर दो !’

कुष्टिया में कुमारखाली उपजिला के कातीगंज बाजार में पूजा से पहले जो मूर्ति बनाई जा रही थी, उसे भी तोड़ दिया गया।

गाजीपुर में कालीगंज बाजार के काली मंदिर में पूजा से पहले बनाई जा रही मूर्ति भी तोड़ दी गयी।

30 सितम्बर को सातक्षीरा में श्यामनगर उपजिला के नाकीपुर गाँव के हरितता मंदिर में भी पूजा से पहले मूर्ति को तोड़ दिया गया।

फौरोजपुर जिले में भानुरिया उपजिला के काली मंदिर की दीवार तोड़कर ड्रेन (नाली) बनाया गया है।

वरगुना जिले के फूलझुरी बाजार की दुर्गा प्रतिमा पर विजयादशमी के दिन कट्टरपंथियों का हमला हुआ। बामना उपजिला में बुकादुनिया यूनियन की दुर्गा प्रतिमा

को पूजा शुरू होने के दो-चार दिन पहले तोड़ दिया गया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कहते हैं कि बांग्लादेश साम्प्रदायिक सद्भाव वाला देश है! अबानक सुरंजन हैं स पड़ा। अकेले कमरे में। किरणमयी भी नहीं थी। हाँ, एक विल्टी जलर दरवाजे के सामने सोई हुई थी। विल्टी चौककर सुरंजन की तरफ देखने लगी, क्या विल्टी आज दाकेश्वरी मंदिर नहीं गई? अच्छा, इस विल्टी की क्या जात है? क्या यह हिन्दू है? हिन्दू के घर में रहती है तो हिन्दू ही होगी शायद। काले-सफेद रंगों से मिश्रित इसका शरीर, नीली-नीली मायावी आँखें। क्या इसकी आँखों से भी कहुणा का भाव झलक रहा है? तब तो यह भी मुसलमान ही होगी! अवश्य ही मुक्ता-विंतन वाली धिवेक्यान मुसलमान होगी, क्योंकि आजकल वे हिन्दुओं को कहुणा भरी निगाहों से देखते हैं। विल्टी उठकर चली जाती है। इस घर में ठीक से चूल्हा नहीं जल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि विल्टी उठकर बगलवाले मुसलमान की रसोई के सामने बैठ गई हो। क्योंकि विल्टी की तो कोई जात नहीं होती। जात तो सिर्फ मनुष्यों की है। मनुष्यों का ही मंदिर-मस्जिद है। सुरंजन ने देखा कि सामने सीढ़ी पर धूप आ गई है। काफी दिन ढल गया। आज दिसम्बर की नी तारीख है। उसके अन्दर विल्टी बन जाने की तीव्र इच्छा हो रही है। जिन्दगी भर उसने पूजा नहीं की, मंदिर नहीं गया। देश में समाजवाद ताने की प्रतिज्ञा की, रास्ते में भटका, मीटिंग की, जुलूस निकाला। मीटिंग में अच्छी-अच्छी बातें की। किसान के बारे में सोचा, मजदूरों के बारे में सोचा। देश की सामाजिक-अर्थ नैतिक उन्नति के बारे में सोचते हुए स्वद की तरफ, परिवार की तरफ देखने की उसे फुर्सत नहीं मिली। और आज इसी सुरंजन को लोग उंगती दिखाकर कह रहे हैं—वह हिन्दू है। मुहल्ते के लड़के उसे 'पकड़ो-पकड़ो' कहकर दौड़ाते हैं। आज उसे पकड़ कर नहीं पीटा, लेकिन कल पीटेंगे। गौतम अण्डा खरीदने जाते हुए मार खाया, वह मोड़ पर मति की टुकान पर सिंगरेट खरीदने जायेगा। अचानक कोई आकर उसकी पीठ पर धूसा मारेगा, उसके होठों से सिंगरेट गिर जायेगी, जब वह धूमकर देखेगा तो पायेगा कि कुदूदस, रहमान, बिलायत, शुभान सभी खड़े हैं। उनके हाथों में पतती लाठी, तेज धुरा है। यह दृश्य सोचते ही सुरंजन आँखें बंद कर लेता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या सुरंजन भी डरता है? वह तो डरनेवाला लड़का नहीं है। विस्तर छोड़कर वह आँगन में आकर उस विल्टी को खोजता है। घर कितना सुन्नासान है। लगता है, कितने समय से इस मकान में कोई रहता ही नहीं। इकहतर में जब गाँव से ब्रह्मपुल्ली के मकान में लौटा था तो वहाँ बड़ी-बड़ी पास उग आयी थी। सारे घर में सन्नाटा आया हुआ था। एक भी सामान नहीं था, उसकी लाटिम मार्बत की बनी पंतग की लटाई, कैरमबोर्ड, शतरंज, किल्लाबैं, कुछ भी नहीं। उस समय खाली पर में धुसते हुए आती धड़क रही थी, आज सुरंजन की छाती फिर उसी तरह काँप रही है। क्या सुधामय दिन भर सोये ही रहे? यदि

प्रेसर बढ़ ही गया है तो डॉक्टर कौन बुलायेगा ? बाजार जाना, दवा खरीदना, मिस्त्री बुलाना, अखवार रखना, इस तरह का कोई भी काम सुरंजन ने कभी नहीं किया। वह घर पर तीन बक्त नहीं तो दो बक्त का खाना जरूर खाता है। रात को घर लौटता है, ज्यादा रात होने पर अपने कमरे का दरवाजा, जो बाहर से भी खुलता है, खोलकर अन्दर घुस जाता है। रुपये पैसे की जरूरत होने पर किरणमयी या सुधामय से मांग लेता है। रुपये मांगते हुए उसे शर्म आती है क्योंकि तींतीस वर्ष की उम्र में भी वह कोई रोज़गार नहीं करता। सुधामय ने कहा था, 'मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, तुम कुछ काम करो सुरंजन !'

'मुझरो नौकरी-चाकरी नहीं होगी !' कहकर वह छुटकारा पा गया। बाहर के कमरे में रोगी देखते हुए डॉक्टर सुधामय परिवार पाल रहे हैं। पार्टी ऑफिस, मधु की कैंटीन, 'घातक दलाल निर्मल कमेटी' का ऑफिस, प्रेस क्लब बत्तीस नम्बर में सारा दिन घूमते हुए थक-हार कर सुरंजन देर रात घर लौटता है। एविल पर खाना ढका रहता है। किसी दिन खाता है, किसी दिन भूखे ही सो जाता है। इसी तरह धीरे-धीरे उसके और परिवार के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। लेकिन आज सुबह जब किरणमयी चाय देने के लिए आयी और उसके निस्तर पर बैठी तो उसे लगा कि आज भी उस जैसे निकम्पे, उदासीन, गैर-जिम्पेदार वेटे पर माँ-वाप का पूरा-पूरा भरोसा है। क्या दिया है उसने परिवार को ? किसी रामय के सम्पन्न सुधामय अब भात-दाल भर रो संतुष्टि की डकार लेते हैं। सुरंजन भी संतुष्ट होता है, उसे याद है, वचपन में नाक दनाकर उसे दूध पिलाया जाता था। मक्खन न खाने पर पिटाई होती थी। अगर वह वचपन की तरह किरणमयी से कहे कि उसे लोटा भर दूध चाहिए, मलाई चाहिए, मक्खन चाहिए, दोपहर को खाने के साथ मछली चाहिए, धी का पराठा चाहिए, तो क्या सुधामय खिला पायेगे ? यह और बात है कि सम्पन्नता और विलासिता के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं है। उसकी रुचि न होने का कारण भी सुधामय ही हैं, जब उसके हमउम्र लड़के नये डिजाइन का पैंट-शर्ट पहनते थे, तब सुधामय उसके लिए आइनस्टाइन, न्यूटन, गैलिलियो की जीवनी, फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास, द्वितीय विश्वयुद्ध की कहानी, गोर्की-टात्त्वराटाय आदि की किताबें खरीद कर लाते थे। सुधामय चाहते थे कि उनका वेटा इन्सान बने। आज सुबह उस जातिहीन विल्ती को ढूँढते हुए उसके मन में सवाल उठ रहा था कि क्या सचमुच वह इन्सान बन पाया है ? उसके अन्दर कोई लोभ नहीं है। सम्पदा के प्रति कोई मोह नहीं है। खुद के स्वार्थ से दूसरों के स्वार्थ को बढ़कर देखता है। क्या इसे इन्सान बनना कहा जाता है ! सुरंजन वेमन से वरामदे में टहलता रहता है। सुधामय एक पत्रिका पढ़ रहे थे। लड़के को देखते ही पुकारा, 'सुरंजन, सुनो !'

'कहिए !' पलंग का हैंडिल पकड़कर वह खड़ा हो गया।

'जोशी और आडवाणी सहित आठ नेता गिरफ्तार किये गये हैं, सुने हो ? वहाँ

चार सौ से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। यू० पी० के कल्याण सिंह की भी सुनवाई होगी। अमेरिका, यहाँ तक कि सारा विश्व बाबरी मस्तिष्क के दूटने की निन्दा कर रहा है। भोला में कफर्यू जारी किया गया है। साम्प्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए बी० एन० पी०, अवामी लीग के साथ-साथ कई दत रास्ते में उतर पड़े हैं। वे विवरण दे रहे हैं।' सुधामय की आँखों की पुतलियों में विल्ती की आँख की तरह माया भरी हुई है।

'दरअसल जानते हो; जो देंगा कर रहे हैं, क्या वे धर्म भानकर कर रहे हैं? उनका असली मकसद तो है लूटपाट करना। मिठाई की दुकानों को क्यों लूटा जाता है, मेरी तो समझ में नहीं आता। मिठाई के लोभ में? सोने की दुकानों को लूटा जाता है, सोने के लालच में। गुण्डे-बदमाशों का दत यह सब कर रहा है। दरअसल, यहाँ सम्प्रदायों में कोई मतभेद नहीं है। जितने शान्ति-जुत्तूस निकल रहे हैं, उससे लग रहा है कि कोई-न-कोई समाधान अवश्य होगा। नब्बे में जो इशाद का पतन हुआ था, इसी बजह से ही तो! अच्छा सुरो, इशाद ने कहा था हिन्दुओं को क्षतिपूर्ति देगा, दी है?"

'आप क्या पागल हो गये हैं, पिताजी ?'

'क्या पता! आजकल तो कुछ याद भी नहीं रहता? निदाराबाद के हत्याकाण्ड के मुजरिमों की फौसी होगी, जानते हो ?'

सुरंजन समझ रहा था कि सुधामय समझाना चाहते हैं कि इस देश में भी हिन्दुओं को न्याय भिलता है। ब्राह्मणवाङ्मय के निदाराबाद गाँव के विरजावाता देवनाथ और उसकी पाँच सन्तानों नियतिवाला, सुमाय देवनाथ, मिनतीवाला, सुमन देवनाथ और सुरंजन देवनाथ को धोपाजुङ्गी नाले में से जाकर छासी काटने वाली कटारी से काट दिया गया था। बाद में उनको एक झूम में भरकर ऊपर से ढूना और नमक डालकर बंद करके धोपाजुङ्गी नाले में ढुबो दिया गया। दूसरे दिन, वह झूम पानी के ऊपर तैरने लगा। विरजा के पति शशांक देवनाथ की तीन एकड़ चौतीस छटांक जमीन हड्डपने और शशांक हत्याकाण्ड से बचने के लिए यह ढून किया गया था। हत्याकाण्ड के मुजरिम ताजुल इस्लाम और चोरा बादशाह को सुप्रीम कोर्ट से फौसी का हुक्म हुआ था। इस घटना को हुए भी चार महीने हो गये। नये सिरे से इस घटना का जिक्र करके क्या सुधामय सांत्वना पाना चाह रहे हैं। सोचना चाह रहे हैं हिन्दुओं को इस देश में बहुत न्याय भिलता है। इस देश में हिन्दू-मुसलमान को समान मर्यादा भिलती है। हिन्दू इस देश के द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं हैं।

'क्या तुम कल सद्भावना जुत्तूस में गये थे सुरंजन? कितने लोग थे उस जुनूस में ?'

'पता नहीं !'

'जमातियों को छोड़कर तो सभी दत रास्ते में इकट्ठा हुए थे। है न ?'

‘पता नहीं !’

‘सरकार तो अवश्य ही पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है ?’

‘पता नहीं !’

‘शांखारी वाजार इलाके में इस छोर से उस छोर तक पुलिस खड़ी है। तुमने देखा है ?’

‘पता नहीं !’

‘हिन्दू लोगों ने तो दुकानें भी खोली हैं !’

‘पता नहीं !’

‘भोला की हालत क्या बहुत खराब है ? सुरंजन, क्या सचमुच बहुत खराब हालत है ? या इस वात का प्रचार ज्यादा हो रहा है ?’

‘पता नहीं !’

‘गौतम को शायद जाती दुश्मनी के कारण मारा-पीटा है। सुना है, वह लड़का गांजा-वांजा भी पीता था ?’

‘पता नहीं !’

सुरंजन की उदासीनता सुधामय के जोश को दमित कर देती है। वे फिर से पत्रिका का पन्ना आँखों के सामने खोल लेते हैं। आहत स्वर में कहते हैं, ‘शायद तुम आजकल पत्र-पत्रिकाएँ नहीं पढ़ते हो ना ?’

‘पत्र-पत्रिकाएँ पढ़कर क्या होगा ?’

‘चारों तरफ किस तरह प्रतिरोध हो रहा है, प्रतिवाद हो रहा है। क्या जमातियों की इतनी शक्ति होगी जो पुलिस के धेरे को तोड़कर मन्दिर में घुस पायेगी ?’

‘मन्दिर से आप क्या करेंगे ? क्या अन्तिम उप्र में पूजा करने की इच्छा जाग रही है ? अगर मन्दिरों को धूत में भी मिला दें तो क्या आपको कोई असुर्वेधा होगी ? जितने भी मन्दिर हैं सबको तोड़ डालें न ! मैं तो खुश होऊँगा।’

सुधामय हड्डदड़ा गये। सुरंजन ने जान-दूझकर अपने भले मानस पिता को आहत किया। इतने दिनों तक मुसलमानों को भाई-बन्धु समझकर सुधामय को क्या फायदा हुआ ! क्या फायदा हुआ सुरंजन को भी ! सभी तो उन्हें ‘हिन्दू’ ही समझते हैं। जिन्दगी भर मनुष्यत्व और मानवता की चर्चा करके, सारी जिन्दगी नास्तिकता में विश्वास करके इस परिवार को क्या मिला ! धर पर पथराव भी हुआ, वैसे ही डरकर भी रहना पड़ता है, वैसे ही साप्तटायिकता की अन्धी आग के डर से सहम कर रहना पड़ता है। सुरंजन को अब तक याद है, वह जब सातवीं लक्षा में पड़ता था, टिफिन पीरियड में उसी के सहपाठी फारुक ने उसे अतंग बुलाकर कहा था, ‘मैं आज घर से बहुत अच्छा खाना लाया हूँ। किसी को नहीं दूँगा।’ सिर्फ तुम और मैं इत की सीढ़ी में दैठकर छायेंगे। टीक है ?’ सुरंजन उस बक्त काफी भूखा रहा हो, ऐसी वात नहीं थी, किर भी उसे फारुक का प्रस्ताव नुरा नहीं लगा। टिफिन वाक्स लेकर फारुख इत पर

आया। उसके पीछे-पीछे सुरंजन था। फारूक ने टिफिन बाकर छोलकर सुरंजन को कबाव दिया। दोनों ने बाते करते हुए कबाव खाया। सुरंजन ने सोचा कि उसकी माँ भी बहुत अच्छे नारियल के लड्डू बनाती है। एक दिन ताकर फारूक को खिलाएगा। फारूक से उसने कहा थी, 'इसे किसने बनाया है, तुम्हारी माँ ने? अपनी माँ के हाथ का पकाया खाना एक दिन तुम्हें भी खिलाऊंगा।' इधर खाना छत्म होने के बाद फारूक ने उल्लास से चिल्लाते हुए कहा, 'हुर्रे!' वह कुछ समझ पाये इससे पहले फारूक दौड़कर नीचे उतर गया। नीचे उतर कर कक्षा के सभी बच्चों को उसने बता दिया कि सुरंजन ने गाय का मांस खाया है। सभी सुरंजन को धेर कर हो-हल्ता करते हुए नाचने लगे। किसी ने चिकोटी काटी, किसी ने उसके सर पर चाँटा मारा, किसी ने कमीज पकड़कर खींची, कोई तो पैट ही छोत देना चाहा। कोई जीभ निकालकर चिढ़ाता रहा, किसी ने मारे खुशी के पैट में मरा हुए तितचद्दा घुणा दिया। सुरंजन मारे शर्म के सिर झुकाये हुए था, उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे, गाय का मांस खाकर उसे थोड़ी भी गतानि नहीं हो रही थी। गतानि तो इसलिए हो रही थी, क्योंकि वे लोग उसे धेर कर पाशविक उल्लास मना रहे थे। वह अपने आप को विचिन्न समझ रहा था। उसे लग रहा था कि वह इन लोगों से अलग है। सारे दोस्त एक जैसे इन्सान हैं और वह इनसे अलग। घर लौट कर सुरंजन फूट-फूटकर रोया। सुधामय से बोला, 'उन तोगों ने मुझे धोखे से गाय का मांस खिला दिया।'

सुनकर सुधामय हँसकर बोले, 'इसके तिए रोना पड़ता है क्या? गाय का मांस तो अच्छा खाना है। तुम देखना, कल ही मैं बाजार से खरीद कर लाऊँगा।'

दूसरे दिन सचमुच सुधामय गाय का मांस खरीद कर से आये। किरणमयी ने उसे पकाया भी था। आसानी से पकाना थोड़े ही चाहती थी। आधी रात तक सुधामय ने उसे समझाया था कि इन कुरीतियों का कोई मतलब नहीं होता। अनेक बड़े-बड़े मनीषी भी ये संस्कार नहीं मानते। इसके अतावा तुम जो भी कहो, है वह मांस बड़ा स्वादिष्ट। इरो 'फ्राई' भी कर सकती हो, धीरे-धीरे सुरंजन के भीतर से वचपन की वह शर्म, डर-क्षोभ घला गया था। उस परिवार के शिक्षक थे सुधामय। सुरंजन को लगता था कि उसके पिता अतिमानव जैसा कुछ होगे। इतनी सतता, इतनी सरतता, इतना स्वस्थ विंतन, गंभीर भावना और प्यार, इतनी असाम्प्रदायिकता को ढोकर आजकल कोई जिन्दा नहीं रहता।

सुरंजन पत्रिका को हाथ भी नहीं लगाता। धीरे से सुधामय के कमरे से निकल जाता है। उसका मन नहीं होता कि वह पत्रिका पर झुका रहे। साम्प्रदायिक दर्गे के विरुद्ध लिखा बुद्धिजीवियों का तेषु पढ़े, शान्ति जुलूस की तस्वीरें देखे। इसारे उराके दित में आस्था-विश्वास की गुन्दर हवा बहेगी, यह सुरंजन को कताई परांद नहीं। इसके बदले वह विल्ती को दृढ़ता रहा—जातिहीन एक विल्ती! विल्ती की तो

जाति नहीं, सम्प्रदाय नहीं, काश, वह भी एक बिल्ली बन पाता !

कितने दिनों बाद सुधामय कैम्प से लौटे थे, सात दिनों बाद ? या छह दिनों बाद ? उनको बहुत प्यास लगी थी। इतनी प्यास कि बंधे हाथ-पाँव बंधी आँख के बावजूद लुढ़क रहे थे, ताकि शायद लुढ़कते हुए किसी घड़े से जा टकरायें। लेकिन कैम्प में घड़ा कहाँ भिलेगा ! सामने से होकर ब्रह्मपुत्र वह रही है, इसलिए घड़े में कोई पानी नहीं रखा गया। सुधामय की जीभ सूखकर लकड़ी हुई जाती थी। जब वे 'पानी-पानी' कहकर कराहते थे, तब सैनिक अजीव तरह की आवाज करते हुए हँसते थे। एक दिन उन लोगों ने पानी अवश्य दिया था। सुधामय की आँखों की पट्टी खोलकर उसे दिखा-दिखाकर दो सैनिकों ने एक लोटे में पेशाब किया था। उस लोटे का पेशाब जब सुधामय की आँखों में डालना चाहा तो सुधामय ने धृणा से मुँह फेर लिया था। लेकिन एक सैनिक ने उनका मुँह जबरदस्ती खोले रखा और दूसरे ने वह पेशाब उनके मुँह में डाल दिया। इसे देखकर कैम्प के अन्य सैनिकों ने अट्टहास किया। नमकीन गरम पानी धीरे-धीरे उनके गले से उत्तर रहा था और वे प्रकृति से अपने लिए विष माँग रहे थे। उन लोगों ने उन्हें सिलिंग से टांग कर पीटा था। वे पीटते-पीटते उन्हें मुसलमान होने को कह रहे थे। एलेक्स हैली के रूट्स में काले लड़के कुंटा-किन्टे को जिस तरह अपना नाम 'टोटी' कहने के लिए लोगों ने उसकी पीठ पर चाबुक मारा था और वह बार-बार यही कहता रहा कि उसका नाम कुंटा-किन्टे है, उसी प्रकार जब सुधामय ने किसी भी तरह मुसलमान नहीं होना चाहा तो उन लोगों ने कहा—जब तुम खुद मुसलमान बनोगे ही नहीं, तो ये लो, तुम्हें हम ही मुसलमान घना देते हैं। यह कहकर एक दिन उनकी तुंगी उठाकर उन्होंने खच से उनका पुरुषांग काट लिया और जिस तरह पेशाब पिलाने के दिन हँसे थे, उसी तरह उस दिन भी अद्भुत स्वर में हँसे। सम्भवतः उस समय सुधामय अपनी चेतना खो बैठे थे। वहाँ से जिन्दा लौटेंगे, यह उन्होंने सोचा ही नहीं था। अन्य जो भी हिन्दू उनकी आँखों के सामने बंधे थे, वे कलमा पढ़कर मुसलमान बनने के लिए राजी होकर भी जिन्दा नहीं रहे। सुधामय को जड़ से मुरालमान बना दिये जाने के करुणावश शायद उन लोगों ने उन्हें जिन्दा रखा। उस तरह से जिन्दा रहने के बाद उनकी नातितावाड़ी जाने की योजना धरी रह गई।

डाकवंगला के सामने बाती नाली के पास पड़े शरीर में जब चेतना आयी तब उन्होंने पाया कि उनके शरीर से खून वह रहा है लेकिन वे जिन्दा हैं। टूटे पैर और पसलियों वाले शरीर से वे किस तरह अत्यपत्ती के मकान में लौटे थे, सोचने पर आज भी उनके गोंगटे खड़े हो जाते हैं। सम्भवतः उनके अन्दर की शक्ति ही उन्हें अब तक अटल रखे हैं। उस दिन घर जाकर वे किरणमयी के पास मुँह के नल गिरे

थे। उन्हें उस हातत में देखकर किरणमयी घर-घर कांप रही थी। किरणमयी उन्हें साय लेकर, घर-द्वार छोड़कर फेरी से ब्रह्मपुर के पार से गई। साय में दो निर्वाण शिशु थे, जो रह-रहकर रो रहे थे। किरणमयी उस दिन रो नहीं पायी थी। सारे औंसू उसकी छाती में जमे हुए थे। फैजुल की माँ अक्सर उससे कहती, 'मौतवी बुताती हूँ। कतमा पढ़कर मुसलमान हो जाइए। माया के पिताजी को समझाइये।' किरणमयी तब भी नहीं रोयी। वह अपनी गोपन वेदना अपने में ही समेटे रही। घर के सभी जब सो जाते थे तब अपने ऊचत से कपड़ा फाड़कर सुधामय के घाव पर पट्टी बांधती थी। तब भी वह नहीं रोयी। वह तब रोयी थी, जब सारे गाँव ने 'जय बांगला' होने की खुशी मनाई थी। तब पड़ोसियों की परवाह न करते हुए सुधामय की छाती पर गिरकर अपने सारे जमे औंसूओं को निकालते हुए बच्चों की तरह फूट-फूटकर रोयी थी।

अभी भी किरणमयी की तरफ देखने पर सुधामय को लग रहा है कि उसके अन्दर इकहत्तर की तरह औंसू जमा है। अचानक एक दिन वह अपना सारा औंसू निकालेगी, अचानक एक दिन उसकी दुसरह स्तव्यता दूर होगी। उसके अन्दर काते वादत की तरह दुःख जमा हुआ है। एक दिन वारिश बनकर सब बाहर आयेगा। कब 'जय बांगला' की तरह स्वाधीनता का समाचार उनके कानों में आयेगा। कब उनके पास सुहाग का शब्दा और सिन्दूर पहनने की खबर आयेगी, धोती पहनने की खुत्ती छूट भिलेगी कव बीतेगी इकहत्तर की तरह साँस रोकने वाली लम्बी काती रात? सुधामय ने पाया कि अब उनके पास कोई रोगी भी नहीं आता। वारिश-तूफान के दिनों में भी तो कम-से-कम छह-सात रोगी आ ही जाया करते थे। सुधामय को सारा दिन घर पर बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर के अन्तरात में एक-एक जुतूस जा रहा है—'नारा-ए-तकबीर अल्लाहो-अकबर! हिन्दू यदि जीना चाहो इस देश को छोड़कर चले जाओ।' किसी भी समय कट्टरपंथियों द्वारा घर पर बम फैंका जा सकता है, आग लगा दी जा सकती है, घर को लूटा जा सकता है, घर का कोई भी व्यक्ति कल्प किया जा सकता है। क्या हिन्दू देश छोड़कर चले जा रहे हैं? सुधामय जानते हैं कि नव्वे के बाद काफी हिन्दू देश छोड़कर चले गये हैं। नयी जनगणना में हिन्दू-मुसलमानों की अलग-अलग गणना नहीं हुई है। अगर हुई होती तो पता चलता कि कितने हिन्दू देश छोड़कर गये हैं। किताबों की ताक में धूल जम गयी है। सुधामय ने फूँक कर धूल साफ की। इससे भला धूल साफ होती है! अपने कुर्ते से धूत साफ करते हुए उनकी नजर, बांगला देश सरकार के जनगणना व्यूरो द्वारा जारी 'गणना वर्ध ग्रन्थ' पर पड़ी, 1986 का ग्रन्थ है। 1974 एवं 1987 का हिंसाव इसमें है। 1974 में पार्वत्य चट्टग्राम की कुल जनसंख्या 5 लाख 80 हजार थी, 1974 में जर्मन मुसलमानों की संख्या 96 हजार थी, वही 1981 में बढ़कर एक लाख 55 हजार हो गई, जबकि 1974 में हिन्दुओं की संख्या थी 53 हजार, जो 1981 में बढ़कर 66 हजार हुई। यानी मुसलमानों की वृद्धि का अनुपात 95.83% और हिन्दुओं का 24.53% था।

में 1974 में मुसलमानों की संख्या थी 52 लाख 50 हजार जो 1981 में 63 लाख हो गई और हिन्दुओं की संख्या थी 5 लाख 64 हजार, जो 1981 में बढ़कर 5 लाख 65 हजार हुई। मुसलमानों की वृद्धि का अनुपात 20.13% जबकि हिन्दुओं का महज 0.18%। फरीदपुर की जनसंख्या 1974 से 1981 के दौरान बढ़कर 17.34% हुई है। जिसमें मुसलमानों की संख्या 31 लाख से बढ़कर 1981 में 38 लाख 52 हजार हो गई। उनकी वृद्धि का दर 24.26% है। जबकि हिन्दुओं की संख्या 1974 में 9 लाख 44 हजार थी और 1989 में 8 लाख 94 हजार रह गई। पावना जिते की जनसंख्या में 1974 से 1981 के दौरान 21.63% की वृद्धि हुई है। 1974 में 25 लाख 46 हजार मुसलमान थे। 1981 में बढ़कर यह संख्या 31 लाख 67 हजार हुई। वृद्धि का अनुपात 24.39% रहा। इधर हिन्दुओं की संख्या थी 2 लाख 60 हजार, जो 1981 में 2 लाख 51 हजार रह गयी। राजशाही जिंते की जनसंख्या वृद्धि का अनुपात 23.78% है। मुसलमानों में वृद्धि हुई है 27.20%। वहीं 1974 में हिन्दू थे 5 लाख 58 हजार, जो 1981 में 5.5 लाख 3 हजार रह गए। जनगणना पुस्तक के पृष्ठ संख्या 122 में सुधामय ने पाया कि एक हिसाब लिखा हुआ है : वर्ष 1974 में कुल जनसंख्या का साढ़े तेरह फीसदी हिन्दू थे। 1981 में कुल जनसंख्या का 12.1 फीसदी हिन्दू थे। तो फिर बाकी हिन्दू कहाँ गये? सुधामय ने कुर्ते को बाँह से चश्मे के काँच साफ किये। तो क्या वे चले जाएं रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्या चले जाने में ही उनकी मुक्ति है? क्या उचित नहीं कि वे देश में रहकर लड़ें। फिर से सुधामय को भागे हुए हिन्दुओं को 'कावार्ड' कहकर गाती देने की इच्छा हुई।

तबीयत कुछ ठीक नहीं तग रही। जनगणना पुस्तक को हाथ में लेने के बाद से वे अपने दाहिने हाथ को थोड़ा कमज़ोर पा रहे हैं। किताब को ताक में रखते हुए उन्होंने पाया कि पहले की तरह उनके हाथ में वह ताकत नहीं है। उन्होंने किरणमयी को बुलाया। तब भी उन्हें तगा कि उनकी जीभ थोड़ी भारी लग रही है। नीले चीते की तरह एक आशंका उनके द्वार पर आकर खड़ी हो गई। बड़ा ही जिद्दी चीता है वह। चलते हुए उन्होंने पाया कि उनके दाहिने पैर में भी पहले की तरह बल नहीं रहा। पुकार उठे, 'किरण ! ओ किरण !'

किरणमयी ने चूल्हे पर दाल चढ़ायी है। चुपचाप सामने आकर खड़ी हो गई। सुधामय ने अपना दाहिना हाथ उसकी ओर दबाना चाहा लेकिन उनका हाथ लुढ़क कर गिर गया—'किरण, मुझे विस्तर पर त्रिटा दो, न !'

किरणमयी भी कुछ समझ नहीं पायी कि क्या हुआ। ये इस तरह क्यों काँप रहे हैं। इनकी आवाज भी क्यों अस्पष्ट होती जा रही है। वह सुधामय को सोने के कमरे में तिटा देती है।—क्या हुआ है तुम्हें?

'मुरंजन कहाँ है?'

'अभी-अभी तो निकल गया। मैंने मना किया, मुना नहीं।'

'किरण मुझे ठीक नहीं लग रहा। कुछ करो।'

'तुम्हारी आवाज क्यों अटक रही है? क्या हुआ है?'

'दाहिने हाथ में कोई शक्ति नहीं है। दाहिने पैर में भी नहीं। तो क्या किरणमयी ज़े 'पैराताइसिस' हो रहा है?'

किरणमयी लपक कर सुधामय की दोनों बाहें पकड़ तेती है—'नहीं, भगवान के लए ऐसा मत कहो! कमज़ोरी के कारण ऐसा हो रहा है। रात भर नीद नहीं आयी है तायद इसीतिए। खाना-पीना भी तो ठीक से नहीं करते।'

सुधामय छटपटाते हैं। उनके सारे वदन में वेवैनी हो रही है। उन्होंने कहा, 'देखो मैं किरण, मैं मर रहा हूँ कि नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है?'

'किसे बुलाऊँ? हरिदेव बाबू को एक बार बुलाऊँ?'

सुधामय ने अपने बायें हाथ से किरणमयी के हाथ को जोर से पकड़ा—'कहीं त जाओ, मेरे सामने रो मत उठो, किरण! माया कहाँ है?'

'वह तो उसी समय जो पारूल के घर गई है, फिर नहीं तौटी।'

'मेरा बेटा कहाँ है किरण, मेरा बेटा?'

'क्या पामतों-सी बाते कर रहे हो?'

'किरण, दरवाजा-खिड़की खोल दो!'

'दरवाजा-खिड़की क्यों खोलूँ?'

'मुझे थोड़ी रोशनी चाहिए। हवा चाहिए।'

'हरिपद बाबू को बुला लाती हूँ। तुम चुपचाप सीये रहो।'

वे हिन्दू अपना-अपना घर छोड़कर भाग गये हैं। उनके यहाँ जाकर तुम्हें कोई ही फिलेगा। माया को बुलाओ!

'किससे छबर भिजवाऊँ, बोलो! कोई भी तो नहीं है।'

'तुम एक इंच भी मत हितो, किरण! सुरेजन को बुलाओ।'

इसके बाद सुधामय धीरे-धीरे बड़वड़ाते हुए कुछ बोले, वह समझ में नहीं आया। किरणमयी डर से कौंप गई। क्या वह चित्ताकर मुहत्ते के तोगों को बुलाये? तभ्ये मय से पाय-पास रहने वाले किसी पड़ोसी को? अचानक तुप हो गये। पड़ोसी कौन, जो आयेगा? हैदर, गौतम या शफीक साहन के घर में कोई! किरणमयी बड़ा इसहाय महसूस कर रही है। दाल के जलने की महक सारे पर मे फैल गई है।

आज भी सुरेजन किधर जायेगा, कोई ठीक नहीं। एक बार मन में आया कि बेतात घर जाये। काकराइल पार होकर दाटिनी ओर देखा, 'जतधावार' नामक दुकान दूटी है। दुकान की टेबुत-कुर्सियों को रास्ते में लाकर जला दिया गया है, जिसक

जमी हुई है। जब तक देखा जा सका, सुरंजन देखता रहा। चमेलीबाग में पुलक का भी घर है। सुरंजन अचानक अपना इरादा बदल देता है। वह पुलक के घर जाने का निर्णय लेता है। रिक्शो को बार्यां और की गली में चलने को कहता है। पुलक भाड़े पर एक फ्टैट लेकर रहता है। एन० जी० ओ० में नौकरी करता है। बहुत दिनों से उसके साथ मुलाकात नहीं हुई। वह अक्सर बेलाल के घर अड्डा मारने आता है, जो पुलक के मकन के सामने ही है। लेकिन कॉलेज के दोस्त पुलक से मिलने की उसे फुर्सत ही नहीं होती!

‘कालिंग बेल’ बजाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आयी। सुरंजन लगातार ‘बेल’ बजाता रहा। अन्दर से धीर्घी आवाज आती है, ‘कौन?’

‘मैं, सुरंजन!’

‘कौन सुरंजन?’

‘सुरंजन दत्त!’

अन्दर से ताला खोलने की आवाज आई। पुलक ने खुद ही दरवाजा खोला। दबी आवाज में बोला, ‘अन्दर आ जाओ!’

“क्या बोते हैं, इतने प्रोटेक्शन का इन्तजाम क्यों? ‘डोर ब्लू’ लगा सकते हो!”

“पुलक ने फिर दरवाजे में ताला लगा दिया। उसे खींचकर देखा कि ठीक से बन्द हुआ था। नहीं। सुरंजन यह देखकर काफी हैरान हुआ। पुलक ने फिर दबी हुई आवाज में पूछा, ‘तुम वाहर निकले हो। क्यों?’

‘जान-बूझकरा!’

‘मतलब? डर-भय नहीं है क्या? साहस दिखाकर जान गँवाना चाहते हो तुम? या फिर एडवेंचर में निकले हो?’

निश्चित होकर सोफे पर बैठते हुए सुरंजन ने कहा, ‘जो सोचो, वही!’

पुलक की आँखों की पुतलियों में आशंका कॉप रही थी। वह भी सोफे पर उसके बगल में बैठ गया।

तम्ही साँस छोड़ी। बोला, ‘सब कुछ पता है?’

‘नहीं!’

‘भौता की तो बहुत दुरी स्थिति है। तजमुद्दीन, बुरहानुद्दीन थाने के गोलकपुर, छोटा डाउरी, शम्भुपुर, दासेर हाट, खासेर हाट, दरिरामपुर, पद्मामन और मणिराम गाँव के दस हजार परिवारों के करीब पचास हजार हिन्दुओं का सब कुछ लूट गया। उनको लूटकर वचे हुए सामान में आग तगाकर सब कुछ खत्म कर दिया। पचास करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। दो व्यक्ति मारे गये हैं और दो सौ से अधिक धायत हुए हैं। लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने को अन्न नहीं है। एक भी घर नहीं बचा जिसमें आग न तगाई गई हो। सैकड़ों दुकानें लूटी गईं। दासेर हाट बाजार की एक भी हिन्दू-दुकान नहीं बची। बेघर लोग इस प्रचण्ड ठण्ड में खुले आकाश के

नीचे दिन बिता रहे हैं। शहर के मदनमोहन ठाकुरबाड़ी, मन्दिर, लक्ष्मीगोविन्द ठाकुरबाड़ी, उसका मन्दिर, महाप्रभु अखाड़ा को भी तूटकर आग लगा दी। बुरहानुदीन, दौलतखान, चरफैशन, तजमुद्दीन व सालमोहन थाने के किसी भी मन्दिर, किसी भी अखाड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। सभी घरों में तूट हुई है, आग लगाई गई है। पुइन्या हाट इलाके में करीब दो बीत तक रियत हिन्दुओं के घरों को आग लगा दी गई है। दौलतखान थाने के बड़े अखाड़ा में सात तारीछ की रात को आग लगा दी गई। बुरहानुदीन बाजार का अखाड़ा तोड़कर उसमें आग लगा दी गयी। कुतुबा गाँव के पचास घरों को राख कर दिया गया है। चरफैशन थाने के हिन्दुओं के घरों को लूटा गया है। अरविन्द दे नामक एक व्यक्ति को चाकू भी मारा गया है।'

'नीता कहाँ है ?'

'वह तो मारे डर के काँप रही है। तुम्हारी क्या रियति है ?'

सुरंजन ने सोफे पर आराम से बैठकर आँखें बन्द कर ली। उसने सोचा आज वह बेताल के घर न जाकर पुलक के घर क्यों आया ! तो क्या वह अन्दर ही अन्दर कम्पूनल हो गया है, या फिर परिस्थिति ने उसे कम्पूनल बना दिया है।

'जिन्दा हूँ ! इतना कह सकता हूँ !'

जमीन पर पड़ा पुलक का छह वर्षीय लड़का सुबक-सुबक कर रो रहा है। पुलक से पूछने पर उसने बताया कि बगल के फ्लैट के बच्चे जिनके साथ वह छेतता था, आज से अलक को खेल में शामिल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 'हम तुम्हारे साथ नहीं छेतेंगे। हुजूर ने हिन्दुओं के साथ छेतने से मना किया है।'

'हुजूर' मतलब ?' सुरंजन ने पूछा।

'हुजूर यानी मौतवी ! जो सुबह उन लोगों को अरबी पढ़ाने आता है।'

'बगल वाले फ्लैट में जनीस अहमद रहते हैं न ? वे तो कम्पुनिस्ट हैं। वे भी अपने बच्चे को हुजूर से अरबी पढ़ाते हैं ?'

'हाँ !' पुलक ने कहा।

सुरंजन ने फिर से आँखें बन्द कर लीं। उसने चुपचाप सुद को अलक समझकर अनुभव करना चाहा। अलक का शरीर रह-रहकर काँप रहा था। ठलाई उसके सीने में ही थी। मानो सुरंजन को भी कोई छेल में शामिल नहीं कर रहा था। इतने दिनों तक जिनके साथ छेतता रहा था, जिनके साथ सोचा था कि छेतता रहेगा, वे छेल में उसे नहीं शामिल कर रहे हैं। हुजूरों ने कहा है, हिन्दुओं को छेल में न लो। सुरंजन को याद आया, माया एक बार रोते-रोते घर लौटी थी। बोती थी, 'मुझे टीघर कक्षा से बाहर निकाल देती है।'

दरअसल, कक्षा की पढ़ाई में धर्म एक आवश्यक विषय था। इस्तामियत की कक्षा से उसे बाहर निकाल दिया जाता था। वह उस कक्षा की अकेती हिन्दू लड़की थी जो बरामदे की रेतिंग से सटकर छड़ी रहती थी। वडी ही अकेती निःसं-

अपने आपको बड़ी ही कटी हुई महसूस करती थी।

सुधामय ने पूछा था, ‘क्यों? क्यों तुम्हें कक्षा से बाहर निकाल देते हैं?’

‘सभी क्लास करते हैं। मुझे नहीं रखते, मैं हिन्दू हूँ न, इसलिए।’

सुधामय माया को छाती में समेट लिए थे, अपमान और वेदना से वे काफी देर तक कुछ कह नहीं पाये थे। उसी दिन स्कूल के धर्म-टीचर के घर जाकर उन्होंने कहा था, ‘मेरी लड़की को क्लास से बाहर मत भेजिएगा। उसे कभी समझने मत दीजिएगा कि वह अन्य बच्चों से अलग कोई है।’ माया की समस्या का समाधान तो हुआ लेकिन उसे ‘अलिफ-वे-ते-से’ के मोह ने जकड़ लिया। घर पर खेलते हुए वह अपने मन में दुहराती रहती – ‘आलाहाम दुलिल्लाह हि बारिवल आल आमिन’ और ‘रहमानिर रहीम’। यह सुनकर किरणमयी सुधामय से कहती, ‘यह सब क्या कर रही है? अपना जात-धर्म त्याग कर अब स्कूल में पढ़ना होगा क्या?’ इससे सुधामय भी चिन्तित हुए। वेटी की मानसिक स्थिति को ठीक रखने में यदि वह इस्लाम धर्म में आसक्त हो जाये तो इससे एक और समस्या आयेगी। इस घटना के एक सप्ताह बाद स्कूल के हेड मास्टर के पास उन्होंने एक आवेदन-पत्र भेजा कि धर्म व्यक्तिगत विश्वास की भावना है, इसे स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करना उचित नहीं है। इसके अलावा यदि मैं अपने बच्चे को किसी धर्म से शिक्षित करना जरूरी नहीं समझता हूँ तो स्कूल अधीक्षक कभी उसे जबरदस्ती धर्म सिखाने का दायित्व नहीं ले सकते और, धर्म नामक विषय के बदले मनीषियों की वाणी, महापुरुषों की जीवनी आदि के विषय में सभी सम्प्रदायों के पढ़ने योग्य एक विषय की रचना की जा सकती है। इससे अल्पसंख्यकों में हीनता की भावना दूर होगी। लेकिन सुधामय के उस आवेदन का स्कूल अधीक्षक ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसा चलता था, वैसा ही चलता रहा।

नीला आयी। वह छरहरे बदन की, सुन्दरी है। हमेशा बन-सैंचर कर रहती है। लेकिन आज उलझी-उलझी-सी है। आँखों के नीचे काली छाया पड़ गयी है। उद्धिग्न आँखें, आते ही उसने कहा, ‘सुरंजन दा कितने दिनों से नहीं आये, न ही हालचाल पूछा कि जिन्दा भी हूँ या मर गयी हूँ। खबर मिलती है कि बगल वाले घर में आते हैं।’ कहते-कहते नीला अचानक रो पड़ी।

सुरंजन नहीं आता है, यह कहकर भला क्यों नीला रो पड़ेगी? क्या वह अपने सम्प्रदाय की असहायता के लिए रो रही है। चूँकि इस वक्त जो दुःख नीला झेल रही है, वही पीड़ा और असुरक्षा तो सुरंजन को भी सहनी पड़ रही है! वह इस वात को समझती है इसीलिए अपनी असहायता की भावना के साथ पुलक, अलक और सुरंजन के एहसास को भी उसने वेदिङ्गक अपने साथ शामिल कर लिया है। आज सुरंजन को यह परिवार बड़ा अपना-सा लग रहा है। चार-पाँच दिन पहले भी वेलाल के घर पर सुरंजन अहु जमा चुका है, लेकिन तब उसने इस घर में आने की जरूरत नहीं समझी। अभी-अभी उसके अन्दर इस भावना का जन्म हुआ है।

'तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो ? दाका में ज्यादा कुछ नहीं कर पायेगे वे । शाँखारी बाजार, इस्लामपुर, ताँतीबाजार सभी जगह पुलिस का पहरा है ।'

'पिछली बार भी तो पुलिस थी । तब भी दाकेश्वरी मन्दिर को लूटा गया, पुलिस के सामने आग लगायी गई । पुलिस कुछ कर पायी ?'

'हाँ !'

'आप क्यों निकलते हैं ? इन मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं । आप सोच रहे हैं, जो दोस्त हैं, लेकिन वही सबसे पहले आपकी गर्दन काटेगे ।'

सुरंजन ने फिर आँखें बन्द कर लीं । आँखें बन्द करने से क्या अन्तरज्ञाता कुछ कम होती है । बाहर कहीं शोरगुल हो रहा है, शायद किसी हिन्दू की दुकान को तोड़-फोड़कर जलाया जा रहा है । आँखें बन्द हैं तो क्या हुआ, जली हुई महक आ रही थी । आँखें बन्द करते ही लगता है कि कुल्हाड़ी, कटार आदि तिये हुए कट्टरपथियों का दत्त आँखों के सामने नाच रहा है । पिछली रात वह गौतम को देखने गया था । वह सोचा हुआ था, आँखों के नीचे, छाती-पीठ पर खून जमने का निशान था । सुरंजन उसकी छाती पर हाथ रखकर बैठा हुआ था । कुछ पूछा नहीं । उसने जिस स्पर्श से उसे छुआ था, उसके बाद और किसी तरह के स्पर्श की जरूरत नहीं होती । गौतम ने ही कहा था, 'दादा, मैंने कुछ नहीं किया । वे मस्तिष्ठ से दोपहर की नमाज पढ़कर लौट रहे थे । घर पर कोई सब्जी नहीं थी, माँ ने अण्डा खरीद कर लाने की कहा मैंने सोचा, मुहत्ते की दुकान है, डर किस बात का, मैं दूर कहीं तो जा नहीं रहा । अण्डा लेकर दैरा बापस ले ही रहा था कि अचानक पीछे से पीट में लात पड़ी । वे छह-सात लड़के थे और मैं अकेला । क्या करता दुकानदार, राते के लोग दूर से मजा लेते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा । उन्होंने मुझे बेवजह मारा, जमीन पर पटककर पीटा । आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने उन्हे कुछ नहीं कहा ।' वे कह रहे थे, 'साता हिन्दू मालाउन का बच्चा ! साले को मारकर खत्म कर दूँगा । हमारी मस्तिष्ठ तोड़कर क्या सोचा है । तुम लोग पार पा जाओगे ?' हाथ के स्पर्श से सुरंजन उसके दिल की घड़कन अनुभव कर रहा था । क्या यही शब्द उसकी छाती में भी सुनाई पड़ रहा है ? शायद उसने एक-दो बार सुना भी है !

नीता चाय लेकर आयी । चाय बीते-बीते माया की बात छिड़ती ।

'माया को लेकर मुझे बहुत धिन्ता होती है । कहीं वह अचानक जहाँगीर से शादी न कर ले !'

'सुरंजन दा, अब भी समय है, उसे लौटा तीजिए । विपत्ति के समय इन्सान झट से निर्णय ले लेता है ।'

'देखता हूँ, लौटते बक्त पारूल के घर से उसे लेता जाऊँगा । माया बर्बाद होती जा रही है । जीने की प्रचण्ड लालसा में वह फरीदा बेगम जैसा क़स्त हो जायेगी । स्वार्थी !'

नीला की आँखों में नीली दुश्चिन्ता खेल रही थी। अलक रोते-रोते सो गया। उसके गालों पर अब भी आँसू के दाग हैं। पुलक टहलता रहता है। उसकी बैचैनी सुरंजन को भी स्पर्श करती है। चाय उसी तरह पड़ी-पड़ी ठंडी हो जाती है। सुरंजन को चाय पीने की इच्छा थी, लेकिन पता नहीं वह इच्छा कहाँ गायब ही गई। वह आँखें मूँद कर सोचना चाहता है—यह देश उसका है, उसके बाप का, उसके दादा का, दादा के भी दादा का है यह देश। फिर भी वह क्यों कटा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों उसे लगता है कि इस देश पर उसका अधिकार नहीं है!

उसके चलने का, कहने का, कुछ भी पहनने का, सोचने का अधिकार नहीं है, उसे सहमा हुआ रहना पड़ता है, छिपे रहना पड़ता है। वह जब मन आए तब निकल नहीं सकता। कुछ भी कर नहीं सकता। किसी व्यक्ति के गले में फंदा डालने पर जैसा लगता है, सुरंजन को भी वैसा ही लग रहा है। वह खुद ही अपने दोनों हाथों से अपना गला दबाता है। उसकी साँस रुकने-रुकने को हुई कि वह चीख पड़ा, ‘मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पुलक !’

पुलक के माथे पर वूँद-वूँद पसीना जमा है। इतनी ठंड में भी पसीना क्यों आता है? सुरंजन ने अपने माथे पर हाथ रखा। वह हैरान हुआ कि उसके भी ललाट पर पसीना जम गया है। क्या डर से? कोई भी उनको घर के अन्दर पीट नहीं रहा है। हत्या नहीं कर रहा है। फिर भी क्यों डर समाया है? क्यों दिल की धड़कन तेज है?

सुरंजन फोन का डायल धुमाता है। दिलीप दे, जो कभी तेज छात्र नेता रहे हैं, अचानक उनका नम्बर याद आया। दिलीप दे घर पर ही थे।

‘कैसे हैं दादा? कोई असुविधा तो नहीं है? कोई घटना तो नहीं घटी?’

‘नहीं कोई असुविधा तो नहीं, लेकिन शान्ति नहीं है। और मेरे साथ घटने को क्या है? सारे देश में ही तो घट रहा है।’

‘हाँ, वह तो है !’

‘तुम कैसे हो? चट्टग्राम की हालत तो अवश्य सुने ही होगे?’

‘कैसी हालत?’

‘संदीप थाना के वाउरिया में तीन, कालापानिया में दो, मगधराय में तीन, टेउरिया में दो, हरिशपुर में एक, रहमतपुर में एक, पश्चिम सारिकाइ में एक और माइटडांगा में भी एक मन्दिर झोड़ा गया है। पश्चिम सारकाइ में सुचारू दास नामक एक आदमी को मारपीट कर पन्द्रह हजार रुपये ले गये। टोकातली में दो घरों को लूटकर दो व्यक्तियों को छुरा मार दिया है। पटिया थाना के कचुआ में एक घर, भाटकाइन में एक मन्दिर....’

‘आपको इस तरह एक-दो का हिसाब कहाँ से मिला?’

‘अरे, मैं तो चिटागंग का लड़का हूँ न? उन इताकों में क्या हो रहा है खबर न लेने पर भी खबर आ ही जाती है। और सुनो, वाँसखाली थाना के बड़लष्टड़ी में तीन,

पूर्व चम्बल में तीन घरों को तोड़ दिया गया है। रांगुनिया धाने में सरफभाटा यूनियन में पाँच घरों, पायरा यूनियन में सात घरों, शितक यूनियन में एक मन्दिर, घन्टमाइश धाना के बादामतली में एक मन्दिर और जोआरा के एक मन्दिर को लूटा गया। बाद में उसे तोड़ भी दिया। अनवरा धाने के बोआलगांव में चार मन्दिर व एक घर और तेगोटा में सोलह घरों पर हमला हुआ, लूटपाट हुई, तोड़फोड़ हुई। बोआलखाती धाने के 'मेघसमुनि आश्रम' में आग लगा दी गई।

'मैंने सुना है कि कैवल्यधाम, तुलसीधाम आश्रम, अभय मित्र शमशान, शमशान कातीबाड़ी, गोपाल पहाड़ शमशान कातीबाड़ी, पंचधाम समेत दस कातीबाड़ियों को पूरा जला दिया गया है।' सुरंजन ने कहा।

'सदरधाट कातीबाड़ी, गोपाल पहाड़ शमशान मन्दिर पर भी हमला हुआ। जमालखान रोड और सिराजुद्दीना रोड में दुकानों की तोड़फोड़ हुई। एनायेड गजार, के० सी० दे रोड ब्रिकफिल्ड रोड के हिन्दुओं की दुकानों और घरों को लूट कर आग लगा दी गई। कैवल्यधाम के मनीपाड़ा में अइतीस घरों को, सदरधाट जेतेपाड़ा में सौ से अधिक घरों को लूटा गया और आग लगा दी गई। ईदगांव आग्राबाद जेतेपाड़ा और बहदारहाट की मैनेजर कातोनी में लूटपाट की गई व तोड़ डाला गया। सबसे भयानक घटना मीरेरसाई और सीताकुण्ड में घटी है। मीरेरसाई के सातवाड़िया गाँव में पचहत्तर परिवारों को, मसदिया यूनियन के दस परिवारों को, हादीनगर में चार परिवारों को, बेशर में सोलह परिवारों व तीन मन्दिरों को, उदयपुर में बीस परिवारों को, खाजुरिया के बारह परिवारों को जाफराबाद में सत्ताईस परिवारों को हमले का शिकार बनाया गया है। उनके घरों को लूटकर, तोड़फोड़कर आग लगा दी गयी, सीताकुण्ड के मुरादपुर यूनियन के एक परिवार, बारईया के ढाला यूनियन के महालंका गाँव में तेझस परिवार, बहरपुर के अस्सी परिवार, बारईपाड़ा के तीन सौ चातीस परिवार समेत नारायण मन्दिर, बाँसबाड़िया के बारह परिवार, बाइबकुण्ड के रात्रह परिवार, व दो मन्दिर और फरहादपुर के चौदह परिवारों पर हमला हुआ। लूटपाट हुई और आग लगा दी गई।'

'और कितना सुनूँगा दिलीपदा! अब और अच्छा नहीं तग रहा है।'

छ्या तुम अस्वस्थ हो सुरंजन? तुम्हारी आवाज कुछ असामान्य तग रही है।'

'कुछ समझ में नहीं आ रहा।'

फोन रखते ही पुतक ने कहा देवद्रत का हातचात पूछो तो सुरंजन देवद्रत, महादेव भट्ठाचार्य, असितपाल, सजलधर, माधवी धोष, कुन्तला चौधरी, सरत दे, रवीन्द्र गुप्त, निखिल सान्ध्याल, निर्मलसेन गुप्त सभी को एक-एक करके फोन करता है। सबसे पूछता है, 'अच्छे तो हैं!' काफी दिनों बाद कई परिवितों के साथ इकट्ठे बातें हुई। एक तरह की आत्मीयता का भी अनुभव किया।

'किं....किं....' फोन की धंटी बजी। सुरंजन के कान में वह आवाज़।

करती लगी। उसे बुरा लग रहा था। पुलक का फोन है काक्सबाजार से। फोन की बातें छत्म कर पुलक ने कहा, 'काक्सबाजार में जमात शिविर के लोगों ने राष्ट्रध्वज जला दिया है।'

सुरंजन सुनता है और अपनी उदासीनता देखकर खुद ही हैरान होता है। इस खबर को सुनते ही उसे क्षोभ के मारे फट पड़ना चाहिए था। परन्तु आज उसे लग रहा है कि इस झण्डे के जल जाने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। यह झण्डा उसका नहीं है, सुरंजन ऐसा क्यों सोच रहा है? उसके अन्दर ऐसी भावना आ रही है इसलिए वह खुद को धिक्कारता है। अपने आप पर क्रोध आता है, वह अपने को बड़ा नीच, बड़ा स्वार्थी समझता है फिर भी उसकी उदासीनता का भाव दूर नहीं होता। झण्डे के जल जाने से उसके अन्दर जो क्रोध व भावना उत्पन्न होनी चाहिए थी वह कुछ भी नहीं हुआ।

पुलक सुरंजन के पास आकर बैठा। बोला, 'आज मत जाओ, यहीं रुक जाओ! बाहर निकलने पर कव क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इस वक्त हममें से किसी का रास्ते में निकलना ठीक नहीं है।'

कल लुत्फर ने उसे इसी तरह समझाया था। सुरंजन ने पुलक के स्वर की आत्मीयता और लुत्फर के स्वर के सूक्ष्म अहंकार को अनुभव किया।

नीता लम्बी साँस छोड़ती हुई बोली, 'शायद अब और देश में नहीं रह पाऊँगी। आज भले ही कुछ नहीं हुआ, कल हो सकता है, परसों हो सकता है। कितनी भीषण अनिश्चितता है हमारे जीवन की। इससे निश्चित, निर्विघ्न दरिद्र जीवन बहुत अच्छा है।'

पुलक की बात मानकर सुरंजन रुक ही जाता, तेकिन सुधामय और किरणमयी की याद आते ही कि वे चिन्तित होंगे, सुरंजन जाने के लिए बड़ा हो गया। बोला, 'जो होगा देखा जायेगा। मुसलमानों के हाथों शहीद ही हो जाऊँगा। राष्ट्रीय स्कूल के सामने लांवारिस लाश पड़ी रहेगी। लोग कहेंगे—यह कुछ नहीं, दुर्घटना है। क्यों, ठीक कहा न?' सुरंजन हँसने लगा। तेकिन पुलक और नीता के होंठों पर हँसी नहीं आई।

उसे रास्ते में निकलते ही एक रिक्षा मिल गया। अभी सिर्फ आठ ही बजे हैं। उसकी घर लैटने की इच्छा नहीं हुई। पुलक उसका कॉलेज के जमाने का दोस्त है। शादी-व्याह करके सुन्दर गृहस्थी बसायी है। उसी का कुछ नहीं हुआ, उम्र तो काफी हो गई। करीब दो महीना पहले रला नाम की एक लड़की से उसका परिचय हुआ है। अचानक कभी-कभी सुरंजन के मन में शादी करके घर बसाने की इच्छा होती है। पर्यीन की शादी हो जाने के बाद तो उसने संन्यास लेने के बारे में सोचा था। फिर भी पता नहीं कैसे रला ने उसकी मवाली जिन्दगी को तितर-वितर कर दिया। तेकिन अब फिर सब कुछ संवार लेने की इच्छा हो रही है। अब उसे कहीं पर पैर जमाने की इच्छा हो रही है। मगर रला से उराने अब तक कुछ कहा नहीं, 'तुम जो मुझे इतनी

अच्छी लगती हो, क्या तुम इस बात को जानती हो ?'

पहली मुलाकात के कुछ दिनों बाद रला ने उससे पूछा था, 'अभी आप क्या कर रहे हैं ?'

'कुछ भी नहीं !' सुरंजन ने हँड उलटते हुए कहा था।

'नौकरी-चाकरी, व्यवसाय, कुछ भी नहीं ?'

'नहीं !'

'राजनीति करते थे, वह ?'

'छोड़ दिया !'

'युवा यूनियन के सदस्य भी तो थे !'

'वह सब, अब अच्छा नहीं लगता !'

'तो क्या अच्छा लगता है ?'

'धूमना, लोगों को देखना !'

'पेंड-पौधे, नदी-पहाड़ देखना अच्छा नहीं लगता ?'

'लगता है ! लेकिन सबसे ज्यादा मनुष्यों को देखना अच्छा लगता है। मनुष्य के अन्दर जो रहस्यमयता है, उसकी गाँठ को खोलना ज्यादा अच्छा लगता है।'

'कविता भी लिखते हैं ?'

'अरे नहीं ! लेकिन काफी कवि दोस्त हैं।'

'शराब-वराब पीते हैं ?'

'कभी-कभी !'

'सिगरेट तो काफी पीते हैं।'

'हाँ, वह तो पीता हूँ। पैसा तो मिलता नहीं !'

'सिगरेट इज इन्यूरियस टु हेल्थ। यह तो जानते हैं न ?'

'जानता हूँ। लेकिन कुछ कर नहीं सकता।'

'शादी क्यों नहीं की ?'

'किसी ने पसंद नहीं किया, इसलिए !'

'किसी ने भी नहीं ?'

'एक ने किया था। लेकिन अंततः रिस्क नहीं ते सकी।'

'क्यों ?'

'वह मुसलमान थी और मुझे तो हिन्दू कहा जाता है। हिन्दू के साथ शादी ! उसे तो हिन्दू नहीं होना पड़ता। फिर मुझे ही अब्दुस शाविर की तरह नाम परिवर्तन करना पड़ता।'

रला उसकी बात सुनकर हँसी थी। कहा था, 'शादी न करना ही अच्छा है, क्योंकि दिनों की तो जिन्दगी है। बंधनहीन काट देना ही बेहतर है।'

'अच्छा ! तो आप भी उस रास्ते पर नहीं जा रही हैं ?'

'आपने ठीक समझा !'

'एक तरह से यह अच्छा ही है !'

'मेरा-आपका एक ही सिद्धांत है, इसलिए मेरी आपकी दोस्ती खूब जमेगी !'

'दोस्ती का बहुत बड़ा अर्थ लगाता हूँ मैं। एक-दो विचारों के मिलने से ही दोस्त बना जा सकता है क्या !'

'आपका दोस्त बनने के लिए क्या खूब तपस्या करनी होगी ?' सुरंजन ने जोर से हँसते हुए कहा था, 'क्या मेरा इतना सौभाग्य होगा ?'

'आपके अन्दर आत्मविश्वास बहुत कम है न ?'

'नहीं, ऐसी बात नहीं ! खुद पर विश्वास है, दूसरों पर नहीं !'

'मुझ पर विश्वास करके तो दखिए !'

उस दिन, दिन भर सुरंजन बेहद प्रसन्न था। आज फिर उसकी रत्ना के बारे में सोचने की इच्छा हो रही है। सम्भवतः मन को ठीक करने के लिए ही। आजकल वह यही करता है। जब भी उसका मन उदास होता-है, वह रत्ना को याद करता है। रत्ना कैसी होगी ? एक बार वह आजिमपुर जायेगा ? जाकर पूछेगा, 'कैसी हैं रत्ना मित्र ?' क्या रत्ना थोड़ा-सा हड्डबड़ा जायेगी उसे देखकर ! सुरंजन तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए। साम्प्रदायिक त्रास के कारण एक तरह से हिन्दुओं का पुनर्मिलन हो रहा है, इसे वह महसूस करता है। और अवश्य ही रत्ना उसे देखकर हैरान नहीं होगी। सोचेगी, इस वक्त हिन्दू लोग हिन्दुओं का हालचाल पूछ रहे हैं। विपत्ति में सभी एक-दूसरे का सहारा बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में विना निमंत्रण के सुरंजन रत्ना के सामने जाकर खड़ा हो सकता है।

वह रिक्षा आजिमपुर की तरफ भोड़ने को कहता है। रत्ना का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक है। गोरा रंग, गोल चैहरा, लेकिन आँखों में गहरी मायूसी। सुरंजन को उसकी थाह नहीं मिलती। वह पाकेट से टेलीफोन इंडेक्स निकाल कर उसमें लिखा पता देखकर घर खोजता है। चाहने पर घर नहीं ढूँढ़ पाये, ऐसा कहीं हो सकता है !

रत्ना घर में नहीं है। थोड़ा-सा दरवाजा खोलकर एक प्रौढ़ व्यक्ति ने पूछा, 'आपका नाम क्या है ?'

'सुरंजन !'

'वह तो दाका से बाहर गई हुई है !'

'कव ? कहाँ ?' सुरंजन को खुद अपनी आवाज में झलक रही अधीरता और आवेग का आभास होते ही शर्म आयी।

'सिलहट !'

'क्या लौटेंगी, कछ पता है आपको ?'

'नहीं !'

क्या रत्ना दफ्तर के काम से सिलहट गई है ? या फिर सिलहट गयी ही नहीं है

और उससे यूं ही कहा गया। तेकिन सुरंजन का नाम सुनकर तो छिपने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि यह एक 'हिन्दू' नाम है। यही सोचते हुए सुरंजन आजिमपुर के रास्ते पर चलता रहा। यहाँ कोई उसे हिन्दू समझकर नहीं पहचान पा रहा है। टोपीधारी राहगीर, शूट में छड़े उत्तप्त युवक, रास्ते में चलते युवक; कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा है। यह एक बड़ी मजेदार बात है। बरना यदि वे उसे पहचान लें और यदि उनकी इच्छा हो कि उसके हाथ-पौव बाँधकर कब्रिस्तान में फेंक आयें तो क्या सुरंजन अकेते उनके हाथों से अपनी रक्षा कर पायेगा! उसकी छाती के अन्दर फिर से धुकधुकी होने लगी। चलते-चलते उसने पाया कि पसीना सूट रहा है। वह कोई गरम कपड़े नहीं पहने है। बस पतला-सा एक शर्ट। शर्ट के अन्दर हवा धूस रही है, फिर भी उसके माथे पर पसीना वह रहा है। सुरंजन चलते-चलते पलाशी पहुंच जाता है। जब पलाशी पहुंच ही गया है तो एक बार निर्मलेन्दु गुण का भी हालचाल पूछ लिया जाए। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फोर्य क्लास कर्मचारियों के लिए पताशी में कालोनी बनी हुई है। उस कालोनी के माली का घर भाड़े घर सेकर निर्मलेन्दु गुण रहते हैं। सत्यभाषी इस व्यक्ति के प्रति सुरंजन की अगाध श्रद्धा है। दरवाजे पर दस्तक देते ही दस-बारह साल की एक तड़की पूरा दरवाजा खोल कर छड़ी हो गई। निर्मलेन्दु गुण विस्तर पर पैर चढ़ाये ध्यान से टेलीविजन देख रहे थे। सुरंजन को देखते ही सुर में बोले, 'आओ, आओ! आओ, मेरे घर आओ! मेरे घर !'

'टीवी में देखने को क्या है ?'

'विज्ञापन देखता हूँ। सनलाइट बैटरी, जिया रिल्क साई, टूथपेस्ट का विज्ञापन। हामद, नात देखता हूँ। कुरान की वाणी देखता हूँ।'

सुरंजन हँसने लगता है। कहता है, 'सारा दिन इसी तरह से कटता है ? बाहर से निकले नहीं होंगे ?'

'मेरे घर में चार वर्ष का एक मुसलमान लड़का रहता है। उसी के भरोसे तो जिन्दा हूँ। कल असीम के घर गया था। वह लड़का आगे-आगे और मैं उसके पीछे-पीछे !'

सुरंजन फिर हँसा। बोला, 'तेकिन अभी-अभी तो दिना देखे ही दरवाजा खोल दिये। यदि दूसरा कोई होता तो ?' गुण हँसते हुए बोले, 'कल रात के दो बजे फूटपाथ पर छड़े कुछ लड़के जुलूस निकालने की योजना बना रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि हिन्दुओं को गाली देते हुए क्या-क्या नारे लगाये जा सकते हैं, तभी मैंने दहाड़ा, 'कौन है वहाँ पर ! भागते हो कि नहीं !' इतने से ही वे हट गये। मेरी दाढ़ी और बाल देखकर तो अधिकतर लोग मुझ मुसलमान ही समझते हैं, वह भी मौतवी !'

'कविताएं नहीं लिखते ?'

'नहीं। वह सब लिखकर क्या होगा ! सब कुछ छोड़ दिया है !'

'जुना है, रात में आजिमपुर बाजार में जुआ खेलते हैं ?'

'हाँ, समय काटता हूँ ! तेकिन कई दिनों से वहाँ भी नहीं जा रहा !'

'क्यों ?'

'मारे डर के विस्तर से ही नहीं उतरता । तगता है उतरते ही ये लोग पकड़ लेंगे !'

'क्या टीवी कुछ कह रहा है, मंदिरों का टूटना दिखा रहा है ?'

'अरे नहीं ! टीवी देखने से तो तगता है यह देश साम्राज्यिक सद्भावना का देश है । इस देश में दंगा वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वह भारत में हो हो रहा है !'

'उस दिन एक आदमी ने कहा, भारत में अब तक चार हजार दंगे-फसाद हुए हैं । फिर भी भारत के मुसलमान देश नहीं छोड़ रहे । तेकिन यहाँ के हिन्दुओं का एक पैर दांगलादेश में रहता है तो दूसरा भारत में । यानी भारत के मुसलमान लोग जूँ रहे हैं और यहाँ के हिन्दू भाग रहे हैं ।'

गुण गंभीर होकर बोते, 'वहाँ के मुसलमान तड़ाई कर भी सकते हैं । भारत सेकुतर राष्ट्र जो है । और यहाँ पर फंडामेंटिस्ट क्षमता में हैं । फिर यहाँ लड़ाई किस बात की ! यहाँ हिन्दू द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं । क्या द्वितीय श्रेणी के नागरिकों को तड़ाई का अधिकार रहता है ?'

'इस पर कुछ लिखते क्यों नहीं ?'

लिखने की तो इच्छा होती है । परन्तु लिखने पर 'भारत का दलाल' कहकर गाती जो देंगे । बहुत कुछ लिखने का मन होता है, जानबूझकर ही नहीं लिखता । क्या होगा लिखकर !'

गुण टेलीविजन नामक खिलौने की तरफ देखते रहे । गीता टेबुल पर चाय रख गयी । सुरंजन को चाय पीने की इच्छा बहीं रही । गुणदा के अंतर की वेदना उसे स्पर्श कर रही है ।

गुण अचानक हँसने लगते हैं । कहते हैं, 'तुम तो लोगों का हाल-चाल पूछते फिर रहे हो, तुम्हारी खुद की सुरक्षा है ?'

'अच्छा गुणदा, क्या जुआ खेलकर कभी जीतते हैं ?'

'नहीं !'

'तो फिर क्यों खेतते हैं ?'

'न खेतने पर वे माँ-वाप की गाली देते हैं । इसीलिए खेलना पड़ता है ।'

यह सुनकर सुरंजन अड़हास कर उठा । गुण भी हँसने लगे । बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं गुणदा नामक ये शख्स । अमेरिका में जास बेगास के कैसिनो में बैठकर भी वे जुआ खेत सकते हैं, और पताशी की वस्ती में बैठकर मच्छरों का काटना सहते हुए भी खेल सकते हैं । इनको किसी चीज से एतराज नहीं है, न किसी बात से ऊब या धीँज । बारह बाईं बारह फुट के एक घर में आराम से अपनी छोटी-छोटी खुशियों का मजा लेते हुए दिन बिता रहे हैं । किस तरह ये इतने अमल आनन्द में प्रवहमान

रहते हैं, सुरंजन सोचता रहता है। सचमुच, आनन्दित रहते भी हैं या छाती में अन्दर ही अन्दर दुःख छिपाये हुए हैं। कुछ भी करने को नहीं है, शायद इसलिए हँस कर दुस्समय को काटते हैं।

सुरंजन खड़ा हो जाता है। उसे अपने भीतर का दुःखबोध बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या दुःख संक्रामक होता है? वह चलते हुए टिकाडुली की तरफ जाने लगता है। नहीं, अब रिक्षा नहीं लूँगा। जेव में सिर्फ पाँच रुपये ही हैं। पलाशी के मोड़ से सिगरेट खरीदता है। 'वांगला फाइव' माँगने पर दुकानदार सुरंजन के चेहरे की तरफ हैरान होकर देखता है। उसे इस तरह से देखता हुआ देखकर छाती में फिर से धुक्क जुकी होने लगती है। क्या यह आदमी जान गया है कि वह हिन्दू का लड़का है। क्या यह आदमी जानता है कि वावरी मस्जिद टूट गयी है इसलिए किसी भी हिन्दू को इच्छा होने पर पीटा जा सकता है? सुरंजन सिगरेट खरीद कर तेजी से चल देता है। उसे लग रहा है, क्यों नहीं वह दुकान पर ही सिगरेट सुतगाकर चला आया! क्या इसलिए कि आग माँगने पर वह समझ जाता कि वह हिन्दू है? हिन्दू-मुसलमान का परिचय तो किसी व्यक्ति के माथे पर नहीं लिखा होता। फिर भी उसे लगा कि उसके घलने में, उसकी भाषा में, औंधों की दृष्टि में शायद पकड़ में आने लायक कुछ है। टिकाडुली के मोड़ पर आते ही एक कुता भौंकने लगा। वह चौक गया। अचानक पीछे से एक झुंड लड़कों की 'पकड़ो-पकड़ो' की आवाज सुनाई पड़ी। यह सुनकर वह फिर पीछे नहीं मुड़ा। बेतहाशा भागता रहा। उसका शरीर पसीना-पसीना हो रहा था। कमीज की बटन खुल गई, फिर भी दौड़ता रहा। काफी दूर तक दौड़ने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो क्या वह व्यर्थ ही दौड़ता रहा। वह आवाज उसके लिए नहीं थी? या फिर यह उसका 'आडिटर हैतुशिनेशन' है।

अधिक रात हो जाने पर वह बाहर से 'केसी' को आवाज न देन्हर चुपचाप अपने कमरे को जिसे बाहर से ताता तगाकर गया था, छोतकर अन्दर धूस जाता है। अन्दर धूसते ही बगल के कमरे से वह 'भगवान-भगवान' कहकर रोने की एक करुण आवाज सुनता है। एक बार तो सोचता है कि उसके घर कोई हिन्दू अतिथि या रिश्तेदार तो नहीं आया। हो भी सकता है! यह सोचकर जब वह सुधामय के कमरे में जाने तगा तो देखकर हैरान रह गया कि किरणमयी कमरे के एक कोने में छोटे से आसन पर मिट्टी की एक प्रतिमा रखे दैठी हुई है। मूर्ति के सामने गते में जाँचत डालकर धूटना टेककर वैठी हुई 'भगवान-भगवान' कहती रो रही है। यह दृश्य इस घर में नहीं दिखता। अद्भुत अपरिचित यह दृश्य सुरंजन को चकित कर गया। कुछ समय तक तो वह समझ ही नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह उस मूर्ति को पटक कर तोड़ दे, या फिर किरणमयी के नतमस्तक को अग्ने हाथों रो पकड़कर रीधा कर दे। इस तरह नतमस्तक देखना उसे बिल्कुल नापसंद है।

सामने आकर वह किरणमयी की दोनों बाँहें पकड़कर रीधा कर देता है।

है, 'तुम्हें क्या हो गया है। मूर्ति लेकर क्यों बैठी हो ? मूर्ति तुम्हें बचायेगी ?'

किरणमयी सुवककर रो पड़ती है। बताती है, 'तुम्हारे पिता जी के हाथ-पाँव सुन्न हो भये हैं। जवान लड़खड़ा रही है।'

तुरंत ही उसकी नजर सुधामय पर पड़ी। वे लेटे हुए हैं। लड़खड़ा रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्या कह रहे हैं। पिताजी के पास बैठकर उसने उनका दाहिना हाथ हिलाया। हाथ में कोई चेतना शक्ति नहीं थी। मानो सुरंजन की छाती पर किसी ने कुल्हाड़ी दे मारी। उसके दादाजी के शरीर का एक हिस्सा इसी तरह सुन्न हो गया था। डॉक्टर ने कहा था, स्ट्रोक है। उनको लेटे-लेटे चने की तरह दवा चबानी पड़ती थी। फिजिओथेरेपिस्ट आकर हाथ-पाँव की एक्सरसाइज करा जाता था। गुंगी आँखों से एक बार किरणमयी की तरफ और एक बार सुरंजन की तरफ सुधामय ने देखा।

आस-पास कोई रिश्तेदार भी नहीं है। किसके पास जायेंगे वे लोग ? वैसे भी उम्का कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। एक-एक कर सभी ने देश छोड़ दिया। सुरंजन खुद को बहुत अकेला, असहाय महसूस कर रहा था। लड़का होने के नाते सारा दायित्व उसके कंधे पर ही आ जाता है। परिवार में वेमतलब, बेकार बेटा है वह। आज भी उसका जीवन यूं ही धूम-धूमकर बीतता है। किसी भी नौकरी में वह टिक नहीं सका। व्यवसाय भी करना चाहा था, लेकिन नहीं हो पाया। सुधामय के विस्तर पकड़ लेने से उनका चूल्हा कैसे जलेगा ? घर छोड़कर सबको रास्ते में आकर खड़ा होना होगा।

'कमाल वगैरह कोई नहीं आया ?' सुरंजन ने पूछा।

'नहीं !' किरणमयी ने सिर हिलाया।

किसी ने खबर नहीं ली, सुरंजन कैसा है ! जबकि वह सारे शहर में धूम-धूमकर कितने लोगों की खबर ले आया। सभी अच्छे हैं उसे छोड़कर ! शायद इस परिवार के अलावा इतनी दरिद्रता, अनिश्चितता और किसी परिवार में नहीं है। सुधामय के अचेत हाथ को छूकर उसे बहुत दया आई। अपने विपरीत दुनिया में कहीं वे जानबूझकर तो नहीं जड़ हो गये ! कौन जानता है !

'माया नहीं लौटी ?' सुरंजन अचानक खड़ा हो जाता है।

'नहीं !'

'क्यों नहीं लौटी वह ?' अचानक सुरंजन चिल्लाता है। किरणमयी अवाक् रह जाती है। नम्र स्वभाव का यह लड़का, इससे पहले कभी इतनी ऊँची आवाज में नहीं बोला। आज अचानक चीखकर क्यों बोल रहा है। माया, पारुल के घर गई है, यह कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं है ! वल्कि इससे काफी निश्चित रहा जा सकता है। हिन्दू का घर जब लूटने आयेंगे तो गाया के अलावा उन्हें इस घर में और कोई सम्पत्ति नहीं मिलेगी। लड़कियों को तो लोग सोना-चांदी की तरह ही समझते हैं !

सुरंजन पूरे कमरे में बैचैन टहलता रहा। बोता, 'मुसलमानों के प्रति उसका इतना विश्वास क्यों है ? कितने दिनों तक वे उसे बचायेंगे ?'

किरणमयी समझ नहीं पा रही थी कि सुधामय बीमार हैं, इस वक्त डॉक्टर बुलाना चाहिए। और, ऐसी स्थिति में माया क्यों मुसलमान के पर गई है, बेटा इस बात पर बिगड़ रहा है !

सुरंजन बड़बड़ता है 'डॉक्टर बुलाना होगा, इताज सर्च कहाँ से आयेगा, बताओ तो जरा ? मुहल्ले के दो रत्ती भर लड़कों ने इन्हें डाराया और डर के मारे दस ताल्ह रुपये का मकान दो लाख में बेच कर यहाँ चले आये। अब मिलारी की तरह जीने भे शर्म नहीं आती !'

'क्या सिर्फ लड़कों के डर से घर बेचा था ? घर को तेकर मुकदमे का झमेता भी तो कम नहीं था !' किरणमयी ने जवाब दिया।

बरामदे में एक कुर्सी रखी हुई थी। सुरंजन ने उसे लात मारकर गिरा दिया।

'तड़की गई है मुसलमान से शादी करने ! सोचा है मुसलमान सोग उसे बैठाकर खिलायेंगे ! तड़की रईस होना चाहती है !'

वह घर से निकल जाता है। मुहल्ले में दो डाक्टर हैं। हरिपद सरकार टिकादुली के मोड़ पर हैं, और दो मकान छोड़कर अमजद हुसैन। वह किसे बुलायेगा ? सुरंजन बेमन से चलता रहा। माया घर नहीं तौटी, इस बात पर जो वह चिल्ताया तो क्या माया के न तौटने की बजह से या फिर मुसलमानों के ऊपर उसका इतना भरोसा देखकर ! क्या सुरंजन थोड़ा-थोड़ा कम्यूनल हो उठा है ? उसे अपने पर संदेह होता है। वह टिकादुली के मोड़ की तरफ जाता है।

हैदर सुरंजन के घर आया। कैसा है यह जानने के लिए नहीं, बल्कि जहा मारने। हैदर अवामी सोग की राजनीति करता है। कभी सुरंजन ने उसके साथ छोटा-मोटा बिजनेस शुरू किया था, बाद में कोई फायदा न देखकर उस योजना को स्थगित कर दिया। हैदर का प्रिय विषय राजनीति है। सुरंजन का भी यह प्रिय विषय था। यह और बात है कि आजकल वह राजनीतिक प्रसंग को बिल्कुल नापसंद करता है। इराशाद ने क्या किया था, खातिरा ने क्या किया है और हसीना क्या करेगी, इन बातों में समय नष्ट करने से रोये रहना ज्यादा अच्छा है। हैदर खुद ही बोते जा रहा है। राष्ट्रपर्म इस्ताम को लेकर वह एक लम्बा-चीड़ा भाषण देता है।

'अच्छा हैदर !' सुरंजन अपने विस्तर पर अपत्तेटा होकर पूछता है, 'तुम्हारे राष्ट्र या संसद को क्या अधिकार है कि अन्य धर्मों के लोगों के नीन भेदभाव उत्पन्न हो ?'

हैदर कुर्सी पर बैठा मेज पर पाँव चढ़ाए सुरंजन की लाल जिल्द वाली किताबों का पन्ना पलट रहा था। उसकी बात सुनकर 'हो-हो' करके हँसने लगा। बोला, 'तुम्हारे राष्ट्र का मतलब ? राष्ट्र क्या तुम्हारा नहीं है ?'

सुरंजन होंठ दबाकर हँसता है। उसने आज जान-वूझकर हैदर को 'तुम्हारे' शब्द का उपहार दिया। हँसकर बोला, 'मैं कुछ सवाल करूँगा, उनका जवाब तुमसे चाहता हूँ।'

हैदर सीधा होकर बैठता है। फिर बोला, 'तुम्हारे सवाल का जवाब है, नहीं ! यानी राष्ट्र को कोई अधिकार नहीं है अन्य धर्मों के बीच भेद-भाव उत्पन्न करने का।'

सुरंजन ने सिगरेट का लम्बा कश लेकर पूछा, 'राष्ट्र या संसद को क्या यह अधिकार है कि वह किसी एक धर्म में अन्य धर्मों की अपेक्षा ज्यादा दिलचस्पी या विशेष अनुकूलता दिखाये ?'

हैदर ने तुरन्त जवाब दिया, 'नहीं !'

सुरंजन का तीसरा सवाल था, 'राष्ट्र या संसद को क्या पक्षपात करने का अधिकार है ?'

हैदर ने माधा हिलाया, 'ना !'

'संसद को क्या अधिकार है कि लोकतांत्रिक वांग्लादेश की राष्ट्रीय संविधान में वर्णित अन्यतम मूल नीति, धर्मनिरपेक्षता की नीति में परिवर्तन करे ?'

हैदर ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर बोला, 'कदापि नहीं !'

सुरंजन फिर सवाल करता है, 'देश की सार्वभौमिकता तो सभी नागरिकों के समान अधिकार की नींव पर प्रतिष्ठित है। फिर संविधान को संशोधित करने के नाम पर उस नींव पर ही कुठाराघात नहीं किया जा रहा है ?'

इस बार हैदर ने आँखें छोटी करके सुरंजन की तरफ देखा, 'वह मजाक तो नहीं कर रहा है !'

सुरंजन अपना छठा सवाल करता है, 'राष्ट्रीय धर्म इस्लाम घोषित करके क्या दूसरे धर्मावलंबियों के समुदाय को राष्ट्रीय अनुकूलता या स्वीकृति से वंचित नहीं किया गया है ?'

हैदर माधा सिकोड़ते हुए कहता है, 'हाँ वंचित किया है !' इन सारे सवालों का जवाब सुरंजन भी जानता है और हैदर भी। सुरंजन भी जानता है कि इन सवालों के जवाब के मामले में हैदर और वह एकमत हैं। फिर भी सवाल करने का अर्थ है, हैदर सोचता है कि सुरंजन एक विशेष समय में ये सवाल करके उसकी परीक्षा ले रहा है—हैदर भीतर ही भीतर कहीं से थोड़ा-सा भी साम्प्रदायिक है या नहीं ! इसीलिए तो उसने इन सवालों के जरिये आठवें संविधान संशोधन का प्रसंग छेड़ा।

सुरंजन ने सिगरेट का आखिरी हिस्सा 'एशट्रे' में दबाते हुए कहा, 'मेरा अंतिम सवाल है कि 'व्रिटिश भारत' में भारत से अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश के तहत

आरोपित दो राष्ट्रीयताओं के जटित भैंवर में बांग्लादेश को फिर से तपेटने की यह कुचेष्टा क्यों और किसके स्वार्थ के लिए है ?'

हैदर इस बार कोई जवाब न देकर एक सिगरेट सुलगाता है। घुआँ छोड़कर बोता, 'जिन्ना ने खुद भी द्विराष्ट्रीयता को राष्ट्रीय ढाँचे के तहत रद्द करते हुए कहा था—आज से मुसलमान, हिन्दू, किश्चियन, बौद्ध राष्ट्रीय जीवन में अपने-अपने धार्मिक पहचान से नहीं जाने जायेंगे। सभी धर्म निर्विशेष एक राष्ट्र पाकिस्तान के नागरिक होंगे—पाकिस्तानी। वे सिर्फ 'पाकिस्तानी' के रूप में परिचित होंगे।'

सुरेजन अधलेटी अवस्था से सीधा होकर बैठता है। फिर बोता, 'पाकिस्तान ही शायद अच्छा था ! तुम्हारा क्या ख्याल है ?'

हैदर उत्तेजित होकर खड़ा हो गया। बोता, 'असल में पाकिस्तान तो कभी टीक नहीं था। हाँ, पाकिस्तान में तुम्हारे लिए उम्मीद करने वाती कोई बात नहीं थी। बांग्लादेश होने के बाद तुम तोगों ने रोच लिया इस देश में तुम्हें सब तरह का अधिकार रहेगा क्योंकि यह है सेकुलर राष्ट्र। लेकिन यह देश जब तुम्हारे सपनों को पूरा करने में बाधक बना, तब तुम्हे ज्यादा घोट पहुँची।'

सुरेजन अद्वितीय कर उठा। हँसते-हँसते बोता, 'अंततः तुम भी कितनी अच्छी तरह 'तुम्हारी उम्मीद', 'तुम्हारे सपने' कह गये ! यह 'तुम लोग' कौन हैं ? हिन्दू ही तो ? तुमने मुझे भी हिन्दुओं में शामिल कर ही दिया ? इतने दिनों तक नासिकता में विश्वास रखने का यही फायदा हुआ मुझे ?'

सुरेजन पूरे कमरे में बैठैन होकर ठहतता रहा। भारत में मूतकों की संख्या साढ़े छह सौ पार कर गई है। पुलिस ने आठ साम्प्रदायिक नेताओं को गिरफ्तार किया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और एत० के० आडवाणी भी हैं, बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के विरोध में सारे भारत में 'बंद' आयोजित हुआ है। बम्बई, राँची, कर्नाटक, महाराष्ट्र में दमे चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उग्र हिन्दू साम्प्रदायिकों के प्रति धृणा से सुरेजन मुट्ठियाँ भीषता है। उसका वश चले तो वह दुनियां के सभी साम्प्रदायिक कट्टरपंथियों को एक लाइन में खड़ा करके 'बस फायर' कर दे ! इस देश का साम्प्रदायिक दल मुँह से कह तो रहा है कि 'बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए भारत सरकार दोषी है और इसके लिए बांग्लादेश के हिन्दू उत्तरदायी नहीं हैं। बांग्लादेश के हिन्दू और मंदिरों के प्रति हमारी कोई नाराजगी नहीं। हमें इस्लामिक धैतना से जाग्रत होकर साम्प्रदायिक राष्ट्रभाव की रक्षा करनी होगी।' साम्प्रदायिक दल का वयान रेडियो, टेलीविजन, अखबार द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन यह मुँह से यह कुछ भी बोले, सारे देश में हड़ताल के दिन मस्जिद तो ? जाने के दिरोध के नाम पर जो तांडव, जो उत्तात मचाया गया, उसे न देछने पर किसी को यकीन नहीं आयेगा। दिरोध के बहाने इकहस्तर के देश घातकों ने घातक दत्तात्र निर्मूत कमेटी का कार्यात्मक, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यात्मक भी

हैदर कुर्सी पर बैठा मेज पर पाँच चढ़ाए सुरंजन की लाल जिल्द वाली किताबों का पन्ना पलट रहा था। उसकी बात सुनकर 'हो-हो' करके हँसने लगा। बोला, 'तुम्हारे राष्ट्र का मतलब ? राष्ट्र क्या तुम्हारा नहीं है ?'

सुरंजन होंठ दबाकर हँसता है। उसने आज जान-बूझकर हैदर को 'तुम्हारे' शब्द का उपहार दिया। हँसकर बोला, 'मैं कुछ सवाल करूँगा, उनका जवाब तुमसे चाहता हूँ।'

हैदर सीधा होकर बैठता है। फिर बोला, 'तुम्हारे सवाल का जवाब है, नहीं ! यानी राष्ट्र को कोई अधिकार नहीं है अन्य धर्मों के बीच भेद-भाव उत्पन्न करने का।'

सुरंजन ने सिगरेट का लम्बा कश लेकर पूछा, 'राष्ट्र या संसद को क्या यह अधिकार है कि वह किसी एक धर्म में अन्य धर्मों की अपेक्षा ज्यादा दिलचस्पी या विशेष अनुकूलता दिखाये ?'

हैदर ने तुरन्त जवाब दिया, 'नहीं।'

सुरंजन का तीसरा सवाल था, 'राष्ट्र या संसद को क्या पक्षपात करने का अधिकार है ?'

हैदर ने माथा हिलाया, 'ना।'

'संसद को क्या अधिकार है कि लोकतांत्रिक बांग्लादेश की राष्ट्रीय संविधान में वर्णित अन्यतम मूल नीति, धर्मनिरपेक्षता की नीति में परिवर्तन करे ?'

हैदर ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर बोला, 'कदापि नहीं।'

सुरंजन फिर सवाल करता है, 'देश की सार्वभौमिकता तो सभी नागरिकों के समान अधिकार की नींव पर प्रतिष्ठित है। फिर संविधान को संशोधित करने के नाम पर उस नींव पर ही कुठाराधात नहीं किया जा रहा है ?'

इस बार हैदर ने आँखें छोटी करके सुरंजन की तरफ देखा, 'वह मजाक तो नहीं कर रहा है !'

सुरंजन अपना छठा सवाल करता है, 'राष्ट्रीय धर्म इस्लाम घोषित करके क्या दूसरे धर्मावलंबियों के समुदाय को राष्ट्रीय अनुकूलता या स्वीकृति से वंचित नहीं किया गया है ?'

हैदर माथा सिकोड़ते हुए कहता है, 'हाँ वंचित किया है।' इन सारे सवालों का जवाब सुरंजन भी जानता है और हैदर भी। सुरंजन भी जानता है कि इन सवालों के जवाब के मामले में हैदर और वह एकमत हैं। फिर भी सवाल करने का अर्थ है, हैदर सोचता है कि सुरंजन एक विशेष समय में ये सवाल करके उसकी परीक्षा ले रहा है—हैदर भीतर ही भीतर कहीं से थोड़ा-सा भी साम्प्रदायिक है या नहीं ! इसीलिए तो उसने इन सवालों के जरिये आठवें संविधान संशोधन का प्रसंग छेड़ा।

सुरंजन ने सिगरेट का आखिरी हिस्सा 'एशट्रे' में दबाते हुए कहा, 'मेरा अंतिम सवाल है कि 'व्रिटिश भारत' में भारत से अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश के तहत

आरोपित दो राष्ट्रीयताओं के जटिल भौवर में बांग्लादेश को फिर से लपेटने की यह कुचेष्टा क्यों और किसके स्वार्थ के लिए है ?'

हैदर इस बार कोई जवाब न देकर एक सिगरेट सुलगाता है। घुआँ छोड़कर बोला, 'जिन्ना ने खुद भी द्विराष्ट्रीयता को राष्ट्रीय ढाँचे के तहत रद्द करते हुए कहा था—आज से मुसलमान, हिन्दू, क्रिश्वर्यन, बौद्ध राष्ट्रीय जीवन में अपने-अपने धार्मिक पहचान से नहीं जाने जायेंगे। सभी धर्म निर्विशेष एक राष्ट्र पाकिस्तान के नागरिक होंगे—पाकिस्तानी। वे सिर्फ 'पाकिस्तानी' के रूप में परिचित होंगे।'

सुरेजन अधलेटी अवस्था से सीधा होकर बैठता है। फिर बोला, 'पाकिस्तान ही शायद अच्छा था ! तुम्हारा क्या ख्याल है ?'

हैदर उत्तेजित होकर खड़ा हो गया। बोला, 'असल में पाकिस्तान तो कभी टीक नहीं था। हाँ, पाकिस्तान मे तुम्हारे लिए उम्मीद करने वाली कोई बात नहीं थी। बांग्लादेश होने के बाद तुम लोगों ने सौच लिया इस देश मे तुम्हे सब तरह का अधिकार रहेगा क्योंकि यह है सेकुलर राष्ट्र। तेकिन यह देश जब तुम्हारे सपनों को पूरा करने में बाधक बना, तब तुम्हें ज्यादा चौट पहुँची।'

सुरेजन अदृश्य होकर उठा। हँसते-हँसते बोला, 'अंततः तुम भी कितनी अच्छी तरह 'तुम्हारी उम्मीद', 'तुम्हारे सपने' कह गये ! यह 'तुम लोग' कौन है ? हिन्दू ही तो? तुमने मुझे भी हिन्दुओं में शामिल कर ही दिया ? इतने दिनों तक नास्तिकता में विश्वास रखने का यही फायदा हुआ मुझे ?'

सुरेजन पूरे कमरे में बैठैन होकर ठहतता रहा। भारत में मृतकों की संख्या साढ़े छह सौ पार कर गई है। पुलिस ने आठ साम्प्रदायिक नेताओं को गिरफ्तार किया है। इनमें मारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और एल० के० आडवाणी भी हैं, बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के विरोध में सारे भारत में 'बंद' आयोजित हुआ है। बम्बई, राँची, कर्नाटक, महाराष्ट्र में दंगे चल रहे हैं, लोग पर रहे हैं। ऊँग हिन्दू साम्प्रदायिकों के प्रति धृणा से सुरेजन मुट्ठियाँ भीचता है। उसका वश चले तो वह दुनिया के सभी साम्प्रदायिक कट्टरपथियों को एक लाइन में खड़ा करके 'बस फायर' कर दे ! इस देश का साम्प्रदायिक दल मुँह से कह तो रहा है कि 'बाबरी मस्जिद के विघ्यास के लिए भारत सरकार दोषी है और इसके लिए बांग्लादेश के हिन्दू उत्तरदायी नहीं हैं। बांग्लादेश के हिन्दू और मंदिरों के प्रति हमारी कोई नाराजगी नहीं ! हमे इस्लामिक वेतना से जाग्रत होकर साम्प्रदायिक सद्भाव की रक्षा करनी होगी।' साम्प्रदायिक दल का वयान रेडियो, टेलीविजन, अद्यावार द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। तेकिन चाहे मूँह से यह कुछ भी बोले, सारे देश मे हडताल के दिन मस्जिद तोड़े जाने के दिरोध के नाम पर जो ताडव, जो उत्पात मचाया गया, उसे न देखने पर किसी को यकीन नहीं आयेगा। विरोध के बहाने इकहत्तर के देश घातकों ने घातक दस्ताल निर्मूल कर्मेटी का कार्यालय, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय भी

तोड़-फोड़ दिया और आग लगा दी। आखिर क्यों? जमाते इस्लामी के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता से थ्रेंट की। उनके बीच क्या वातें हुई होंगी? क्या चर्चा, क्या पश्चिम द्वारा हुआ होगा? सुरंजन इसका अनुमान लगा सकता है, पूरे उपमहादेश में धर्म के नाम पर जो दंगा-फसाद शुरू हुआ है, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो नृशंस अत्याचार हो रहा है, सुरंजन खुद उनमें से एक होने के कोरण उस नृशंसता और भयावहता से भली-भाँति परिचित है। बोस्निया, हारजेगोविनिया की घटना के लिए जिस तरह वांग्लादेश का कोई क्रिश्चियन नागरिक उत्तरदायी नहीं है, उसी तरह भारत की किसी दुर्घटना के लिए वांग्लादेश का हिन्दू नागरिक भी उत्तरदायी नहीं है। लेकिन ये वातें सुरंजन किसे समझायेगा!

हैदर ने कहा, 'चलो-चलो, तैयार हो जाओ! 'मानव-वंधन' में जाना है। मानव-वंधन मुक्तियुद्ध की चेतना को वास्तविक रूप देने और स्वाधीनता के सार्वभौमत्व के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एकता—इकहत्तर के युद्ध अपराधी सहित सभी साम्प्रदायिक फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिकता के विरुद्ध क्षेत्रीय सौहार्द और विश्व बन्धुत्व को लक्ष्य मानकर विश्व मानवता के लिए एकता के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय समन्वय कमेटी के आव्वान पर पूरे देश में 'मानव-वंधन' आयोजित किया जा रहा है।

'इससे मुझे क्या?' सुरंजन ने पूछा।

'तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारा कुछ भी नहीं?' हैदर ने हैरान होकर पूछा।

सुरंजन ने शान्त, स्थिर होकर कहा, 'नहीं!'

हैदर इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वह खड़ा था, बैठ गया। उसने फिर एक सिगरेट सुलगायी। बोला, 'एक कप चाय पिला सकते हो?'

सुरंजन विस्तर पर लम्बा होकर लेट गया। फिर कहा, 'घर में चीनी नहीं है!'

वहादुरशाह पार्क से राष्ट्रीय संसद भवन तक 'मानव-वंधन' के गुजरने का रास्ता है। सुवह ग्यारह बजे से दोपहर एक बजे तक उस रस्ते से होकर कोई सवारी नहीं जायेगी। हैदर मानव वंधन के विषय में और कुछ कहने जा ही रहा था कि सुरंजन ने उसे रोककर पूछा, 'कल की आवामी लीग की मीटिंग में हसीना क्या बोलेगी?'

'शान्ति रैली में?'

'हाँ!'

'साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए हर मुहल्ते में धर्म, जाति से परे शान्ति ब्रिगेड स्थापित करना होगा।'

'क्या इससे हिन्दू लोग यानी हमारी रक्षा हो पायेगी? मन-प्राण से जी पाऊँगा?'

हैदर जवाब न देकर सुरंजन को देखता रहा। दाढ़ी नहीं बनाया है, बाल विछरे हुए हैं। अचानक प्रसंग बदल जाता है। उसने पूछा: 'या कहाँ है?'

'वह जहानुम में गई है।'

सुरंजन के मुँह से निकला हुआ 'जहन्नुम' शब्द सुनकर हैदर चौंक गया। वह हँसकर बोला, 'जहन्नुम कैसा? जरा सुनें तो ?'

'जहाँ सौप काटता है, बिछू डंक मारता है, शरीर में आग लगा दी जाती है, जलकर राख हो जाते हैं फिर भी मरते नहीं !'

'वाह! तुम तो मुझसे ज्यादा जहन्नुम की खबर रखते हो !'

'रखना पड़ता है। आग हमें ही जलाती है न, इसीलिए !'

'तुम्हारा घर इतना सुनसान क्यों है? मौसा-मौसी कहाँ हैं? कहीं दूसरी जगह भेज दिये हो ?'

'नहीं !'

'अच्छा सुरंजन, एक बात पर तुमने ध्यान दिया है। गुलाम अजमेर की सुनवाई की माँग को जमाती तोग बाबरी मस्जिद के बहाने दूसरे खाते में ले जा रहे हैं ?'

'शायद ले जा रहे हैं ! लेकिन यकीन मानो, गुलाम अजमेर को लेकर तुम जिस तरह से सोच रहे हो, मैं उस तरह से सोच नहीं पा रहा हूँ। उसे अगर जेत या फौसी हो जाती है तो उससे मेरा क्या ! और अगर नहीं भी होती है तो भी उसमें मेरा क्या ?'

'तुम काफी बदले जा रहे हो !'

'हैदर ! खालिदा जिया ने भी कहा कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करना होगा। अच्छा वह क्यों मंदिरों के पुनर्निर्माण की बात नहीं कह रही है ?'

'क्या तुम मंदिरों का निर्माण चाहते हो ?'

'तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि न तो मैं मंदिर चाहता हूँ और न मस्जिद। लेकिन जब निर्माण की बात उठ रही है तब सिर्फ मस्जिद का ही निर्माण क्यों होगा ?'

हैदर एक और सिगरेट सुलगाता है। वह सोच नहीं पा रहा है कि मानव-बन्धन के दिन सुरंजन अकेला क्यों घर पर बैठा रहेगा। इसी वर्ष 26 मार्च को जब 'जन अदालत' हुई थी, सुरंजन ही हैदर को नींद से उठाकर ले गया था। आमसभा के दिन आँधी-तूफान था, हैदर एक चादर औढ़कर सोया हुआ था। उसने जम्हाई लेते हुए कहा था, 'आज नहीं चलते हैं, बल्कि घर पर बैठकर ही 'मुद्री-भुजिया' ढाते हैं।' लेकिन सुरंजन उसके इस प्रस्ताव पर तैयार नहीं हुआ, उठकर खड़ा हो गया था और कहा था, 'तुम्हें तो चलना ही होगा तुरन्त तैयार हो जाओ। यदि हम तोग ही हैं—जायेंगे तो कैसे होगा ?' आँधी-तूफान के बीच वे दोनों निकले थे। वही सुरंजन ही कह रहा है—यह समा-समिति उसे अच्छी नहीं लगती। मानव बंधन-बंधन है—उसे ढकोसला लगता है।

हैदर सुबह नौ बजे से ग्यारह बजे तक बैठा रहा। फिर भी सुरंजन ही बंधन में न ले जा सका।

किरणमधी जाकर पारुल के घर से माया को ले आयी। आते ही वह अक्षम, अचल, असहाय पिता की छाती पर पड़कर फूट-फूटकर रोयी। रोने की आवाज सुन कर सुरंजन को बहुत कोफ्ता होती है। क्या आँसू बहाने से भी दुनिया में कुछ होता है? इससे ज्यादा जरूरी है इस समय उनका इलाज करवाना। हरिपद डॉक्टर द्वारा बतायी गई दवा सुरंजन खरीद लाया है। उसमें महज तीन दिन का 'डोज' है। किरणमधी की आलमारी से इसके बाद और कितना निकलेगा? निकलेगा भी या नहीं, कौन जानता है!

उसने खुद तो कोई नौकरी-चाकरी की नहीं। असल में दूसरों की गुलामी करना उसके बश की बात नहीं है। हैदर के साथ अपना पुराना विजनेस फिर से शुरू करेगा या नहीं, यह सोचते-सोचते उसे जोरों की भूख लगी लेकिन इस समय वह किससे अपने भूख की बात कहेगा? माया, किरणमधी कोई भी तो इस कमरे में नहीं आ रही है। वह वेरोजगार है, अकर्मण्य है इसीलिए कोई उसकी गिनती नहीं करता। घर पर खाना बन रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लेने की उसे इच्छा नहीं होती है। वह भी आज सुधामय के कमरे में नहीं गया। सुरंजन के कमरे का दरवाजा आज बाहर से खुला हुआ है। यार-दोस्त आने पर बाहर के दरवाजे से ही उसके कमरे में आ जाते हैं। आज वह अन्दर का दरवाजा बन्द किये हुए है। क्या इसीलिए किसी ने उसके कमरे में दस्तक नहीं दी। वे सोच रही होंगी सुरंजन यार-दोस्तों के साथ अड़ेबाजी करने में मस्त होगा। फिर सुरंजन उनसे इतनी अपेक्षा ही क्यों रखता है? क्या किया है उसने इस परिवार के लिए? सिर्फ यार-दोस्तों के साथ बाहर-बाहर धूमता रहा है, घर के लोगों के साथ किसी भी चीज को लेकर या तो चिल्लाता रहा है या फिर उदासीन रहा है। सिर्फ आन्दोलन ही करता रहा है वह। पार्टी के किसी भी आदेश का नौकर की तरह पालन किया है। आधी-आधी रात घर लौटकर मार्क्स, लेनिन की किताबें रटता रहा है। क्या मिला उसे यह सब करके? क्या मिला उसके परिवार को भी?

हैदर गया है, जाए! सुरंजन नहीं जायेगा। क्यों वह मानव-वन्धन में जायेगा? क्या मानव-वन्धन उसे विच्छिन्नता बोध से मुक्ति दिलायेगा? उसे विश्वास नहीं है। आजकल सुरंजन का सब कुछ से विश्वास उठा जा रहा है। यही हैदर उसका बहुत पुराना दोस्त है। वे लगातार कई दिनों तक एक साथ बुद्धि, विवेक की चर्चा करते रहे हैं। मुक्ति युद्ध की चेतना में होकर देश की और मानवीय मूल्य बोध की रक्षा के लिए जनता का आस्थान करते हुए कितने वर्ष एक साथ गुजारे हैं। लेकिन आज सुरंजन को लग रहा है कि यह सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। उससे तो अच्छा था वह भर पेट शराब पीता, बी० सी० आर० में फिल्में देखता, ब्लू फिल्म देखता, 'इव टिंजिंग' करता, या फिर शादी-व्याह करके जिम्मेदार आदमी की तरह प्याज-लहसुन का हिसाब करता, सज्जन व्यक्ति की तरह मछली का पेट दवा-दवाकर मछली खरीदता।

शायद वही अच्छा होता। इतनी तकलीफ तो नहीं झेलनी पड़ती। सुरेजन सिगरेट सुलगाता है, टेबल के ऊपर से एक पतती-सी किताब लेकर उस पर आँखें फेरता है। इसमें नब्बे के साम्राज्यिक अत्याचार का वर्णन है। इस किताब को उसने कभी पतट कर भी नहीं देखा था। दरअसत उसकी लिङ्गासा ही नहीं हुई। आज इस किताब के प्रति उसके मन में गहरी दिलचस्पी जनमी है। 30 अक्तूबर की रात को नौ बज रहे थे। अचानक जुलूस की आवाज सुनकर 'पचानन धाम' के तोग जाग गये। जुलूस के लोग गेट और दीवार तोड़कर घुसे। घुसते ही आश्रमवासियों को गाली-गलौज देना शुरू किया। बगल के टीन की छावनी वाले घर में किरासन डालकर आग लगा दी। आश्रम के लोग डर के बारे इधर-उधर भागने लगे। उन लोगों ने एक-एक कर सारी मूर्तियों को तोड़ डाला। साधू बाबा की समाधि, मंदिर के कतश को तोड़ डाला। धर्म की किताबों को जला डाला। आश्रम में ही संस्कृत शिक्षा की पाठशाला थी। उस पाठशाला की अलमारी को तोड़कर सभी किताबों में आग लगा दी और रुपया-पैसा लूट लिया। सदरहाट कातीबाड़ी में 30 अक्तूबर को रात के बारह बजे करीब ढाई हजार लोगों ने ईंट मार-मारकर मंदिर का मुख्य द्वार तोड़ दिया। सशस्त्र अन्दर घुसे। मुख्य मंदिर के अन्दर घुसकर उन लोगों ने मूर्तियाँ तोड़ डालीं। भारी-भारी लोहे की छड़ और सब्बत से ध्वंसा यड़ा चलाया। चट्टेश्वरी माँ के मंदिरों में सीढ़ी के दोनों ओर स्थित दुकानों और घरों को तूटकर आग लगा दी। गोलपहाड़ शमशान की सारी चीजों को रात के साढ़े ग्यारह बजे तूट से गये और शमशान में आग लगा दी। शमशान काली की मूर्ति राख हो गई। 30 अक्तूबर की रात में 'वायस ऑफ अमेरिका' की खबरों के बाद साम्राज्यिक गुटों ने कैवल्य धाम पर नग्न हमला किया। आश्रम के प्रत्येक देव प्रतीक को तोड़ा, हर कमरे के सामान में आग लगा दी। आश्रम के लोगों ने डरकर पहाड़ में आश्रय लिया। उनको पाते तो मारपीट करते। कई हजार लोगों ने मंदिर पर कई बार आक्रमण किया। लोहे की छड़, खुरपी, सब्बत से मंदिर के ढाँचे को नष्ट किया गया। हरणीरी मंदिर के भीतर की मूर्तियों को तोड़ डाला। रुपया-पैसा और कीमती सामान लूटकर ले गये। धर्मग्रंथों को जला दिया गया। मंदिर के आसपास का प्रत्येक इलाका, मालीपाड़ा का हर परिवार सुते आकाश के नीचे दिन काटने के लिए बाघ्य था क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। चट्टेश्वरी रोड के कृष्णगोपाल जी के मंदिर पर रात के नौ बजे सशस्त्र व्यक्तियों ने आक्रमण किया। उन्होंने दो सौ तोला चाँदी व पच्चीस तोला स्वर्णांतकार समेत अन्य बहुमूल्य सामान लूटकर मूर्ति सहित मुख्य मंदिर को पूरी तरह ढहा दिया। मंदिर के प्रवेश द्वार के तोरण पर स्थित गाभीमूर्ति को तोड़ दिया। उनके सब्बत के आघात से मंदिर का पाइन पेड़ धराशायी हो गया। रास के उपतक्ष्य में बनाई गई मूर्तियाँ भी उनरो नहीं बच पायी। बहदरहाट इलियास कालोनी के प्रत्येक हिन्दू घरों में लूटपाट, तोड़ . . नारी-पुरुष सभी पर अकथ्य शारीरिक अत्याचार चला। यहाँ तक कि रिटिंग . .

गार कर दिये गये ।

ग्राम शहर में कॉलेज रोड की दस भुजा दुर्गाबाड़ी, कुरबानीगंज, वरदेश्वरी द्वार, चक बाजार का परमहंस महात्मा नरसिंह मंदिर, उत्तर चाँद गाँव वालीबाड़ी, दुर्गाकालीबाड़ी, सदरघाट का सिद्धेश्वरी काली मंदिर, दीवानहाट का वालीबाड़ी, काटघर की उत्तर पतेंगा श्मशान कालीबाड़ी, पूर्व मादारबाड़ी धेश्वरी मूर्ति, रक्षाकाली मंदिर, मुगलटुली का मिलन परिषद मंदिर, टाइगर पास गांग मंदिर, शिवबाड़ी और हरिमंदिर, सदरघाट का राजराजेश्वरी ठाकुरबाड़ी, लगांज का कालीमंदिर, दुर्गाबाड़ी, कुल गाँव का नापितपाड़ा श्मशान मंदिर, लगांज का करुणामयी कालीमंदिर, चाँदगाँव का नाथपाड़ा जयकाली मंदिर, रपाड़ा की दयामयी कालीबाड़ी और मगधेश्वरी काली मंदिर, पश्चिम वाकलिया कालीबाड़ी, कातालगंज ब्रह्ममयी कालीबाड़ी, पश्चिम वाकलिया के बड़ा बाजार का कृष्ण मंदिर, हिमांशु दास, सतीशचन्द्र दास, राममोहन दास, चंडीचरण दास का वर्मांशु दास, सतीशचन्द्र दास, राममोहन दास, चंडीचरण दास का नन्दन कानन का तुलसी धाम मंदिर, बंदर ताके का दक्षिण हालीशहर मंदिर, पाँचलाइश गोलपहाड़ महाशमशान और कालीबाड़ी, गमनअली रोड का जेलेपाड़ा कालीमंदिर और मेडिकल कॉलेज रोड के आनन्दमयी कालीमंदिर में लूटपाट, तोड़फोड़ की गई और फिर आग लगा दी गयी ।

सातकानिया में नलुया की बूढ़ा कालीबाड़ी, जागरिया की सार्वजनिक कालीबाड़ी और दुर्गामण्डप, दक्षिण कांचना का चण्डी मण्डप, मगधेश्वरी मंदिर, दक्षिण चरती मध्यपाड़ा कालीबाड़ी मध्यनलुया की सार्वजनिक कालीबाड़ी, चरती मंदिर, दक्षिण चरती वर्णकिपाड़ा रूप कालीबाड़ी और धरमन्दिर, पश्चिम मटियाडांगा ज्यालाकुमारी मंदिर, वादोना डेपुटी हाट का कृष्णहरि मंदिर, बाजालिया दूरनीगढ़ का दूरनीगढ़ महावोधि विहार, बोयालखाली कधुरखिल का प्रसिद्ध मिलन मंदिर और कृष्ण मंदिर, आबुरदण्डी जगदानन्द मिशन, पश्चिम शाकपुरा सार्वजनिक मगधेश्वरी मंदिर, मध्यशाकपुरा का मोहनीमंदिर आश्रम, धोरला कोलाइया हाट का काली मंदिर, कधुरखिल का सार्वजनिक जगदधात्री मंदिर, कोक दण्डी का ऋषिधाम अधिपति, कधुरखिल शाश्वत चौधरी विग्रह मंदिर, मगधेश्वरी धनपोता, सेवाखोला, पटियार सार्वजनिक कालीबाड़ी, सातकानिया में नलुया का द्विजेन्द्र दास हरिमंदिर और जगन्नाथ बाड़ी, सातकानिया दक्षिण चरती में दक्षिणपाड़ा सार्वजनिक कालीबाड़ी, दक्षिण ब्राह्मणडांगा की सार्वजनिक कालीबाड़ी को भी तोड़कर, लूटपाट करके आग लगा दी गयी ।

हाटहजारी उपजिला के मिर्जापुर जगन्नाथ आश्रम में 31 अक्टूबर की रात को ग्यारह बजे एक सौ साप्तदशिक लोगों ने हमला किया । आश्रम की मूर्तियों को उन लोगों ने पटक-पटककर तोड़ दिया । भगवान जगन्नाथ के सभी अलंकारों को लूट लिया । दूसरे दिन सौ से अधिक लोगों ने आश्रम की टीन की छत पर सफेद पाउडर छिड़कर आग लगा दिया । दूसरे दिन जब वे लोग आये थे उस समय पुलिस भी वहाँ

खड़ी थी। जुलूस को आते देख पुलिस वहाँ से चती गई। बाद ने सुरक्षा के तिए पुलिस और प्रशासन से सम्पर्क किया गया तो पुलिस ने उनको ही उनकी हैमिट्र की याद दिलायी। उसी रात चालीस-पैंतालीस सशस्त्र लोगों ने देहन गाँव के निवासी ग्रामवासियों पर हमला किया। उन लोगों ने पहले झज्जर कल्पनांडी स्ट्रीट में 'काकटेल' फोड़कर हिन्दुओं को डराया। जब सभी डरकर घर-द्वार छोड़ द्या गए तब घर का दरवाजा-धिइकी लोड़कर तूटपाट शुरू की। घर की देंदों-देंदुड़ों की झूटें-झूटों को चूर-चूर कर दिया। पार्वती उच्च विद्यालय के मास्टर मदनदास मंदिर और मगधेश्वरी बाड़ी की सभी मूर्तियों को तोड़ दिया।

चन्दनाइश उपजिले में धाइराहाट हरिमंदिर की मूर्ति को टोड़ दिया, जल्लाद व्यरथ तोड़ दिया। बड़ाकल्याण यूनियन के पठानदण्डी गाँव में ननू मंदिर एवं दगड़लेलिंद मंदिर पर आक्रमण किया। बोयालखाती के चार सौ लोगों ने रुड़ के बारह बजे कधुरखिल यूनियन के मिलनमंदिर और हिमांशु चौधरी, परेश विश्वामित्र, शूलज हैंदरी, फणीन्द्र चौधरी, अनुकूल चौधरी के घरेतू मंदिरों की तोड़न्जोड़ की। दोहड़ नंद उन्नदिले के प्राचीन ऋषिधाम आश्रम को ढहा दिया गया। प्रत्येक घर के बता दिया, किताब-कापियों में आग लगा दी।

सीताकुण्ड के जगन्नाथ आश्रम में 31 अक्टूबर की रात दुर्दन्त कहरायियों ने ताठी, कटार लेकर हमला किया। सन् 1208 में स्थापित श्री क्रीकनंद मंदिर ने धुसकर काती की मूर्ति का सिर तोड़ दिया गया और उनमा दोंदों का दुकुट द सोने के अतंकार लूट ले गये। एक हिन्दू गाँव है चरशात। पहली नदन्तर व्ये रुद्र दस बजे दो-तीन सौ आदमी जुलूस में आये और पूरे गाँव को तूट। वे ते जा सकते दे वह तो लिया ही, जो नहीं ले जा सके उसे जता दिया। जगह-जगह पर राडों के द्वेर, जते हुए घर और अधजते निर्वाक् वृक्षों की करारें हैं। वे जाते-जरुर दृढ़दृढ़ी दे गये कि 10 तारीख के अन्दर सभी यहाँ से न गये तो ताशों का द्वेर तमा देने। गूद-बछरियों, जो गाँव से नहीं निकल रही थीं, उन्हें काट दिया गया। धान के फ़ूल दे खग लगा दी। करीब चार हजार हिन्दू क्षतिग्रस्त हुए, पचहतर फीसदी घर-द्वार जलकर राढ़ हो गये। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और अनगिनत गाय-बैंसें उग में लत गयी। अनेक लिंगों के साथ बलात्कार हुआ। पाँच करोड़ रुपये की सति हुई है। हठबद्धिया गाँव में रात के सवा नौ बजे करीब दो सौ लोगों ने ताठी, तत्वार, कटार, तोहे की छड़ों से तैस होकर जगराम मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर की प्रत्येक दूर्ति को चूर-चूर कर दिया। हमते की सूचना पाकर आसपास के तीन डरकर जल बचाने के तिए भाग गये। उस रात प्रत्येक परिवार ने जंगल में या धान के द्वेर में रुद्र काटी और उन लोगों ने उधर हर घर को लूटा। सातवाड़िया सार्वजनिक दुर्दाढ़ी का कोई दिल्ल नहीं मिला। छेजुरिया गाँव के मंदिर और घरों में भी जान लगा दी। मई किसान परिवार सर्वहारा हो गये हैं, शैतेन्द्र कुमार की पत्नी ने उन्हें इरी,

लगा ली। उसका सारा शरीर झुलस गया है। शिव मंदिर में जब भक्तगण प्रार्थना में लीन थे, उस समय कुछ लोग आकर धिनौनी गालियाँ देने लगे। मूर्तियाँ और सिंहासनों को तोड़कर उन पर पेशाब करके चले गये।

सुरंजन की आँखों की दृष्टि धुँधली होती जा रही थी। मानो उनकी पेशाब सुरंजन के शरीर पर पड़ रही है। उसने वह पुस्तक फेंक दी।

हरिपद डॉक्टर ने सिखा दिया है कि हाथ-पाँव में ताकत लाने के लिए किस तरह से इक्सरसाइज करना होगा। माया और किरणमयी दोनों मिलकर सुबह-शाम उसी तरह से सुधामय के हाथ और पैर का इक्सरसाइज करती हैं। समय-समय पर दवा पिला रही हैं माया का वह चंचल स्वभाव अचानक बिल्कुल गम्भीर हो गया है। उसने अपने पिता को जीवंत पुरुष के रूप में देखा है और अब वही निढाल पड़े हैं। 'माया-माया' कहकर जब अस्पष्ट स्वर में पुकारते हैं तो माया की छाती फटने लगती है। असहाय गूँगी दो आँखें क्या कुछ कहना चाहती हैं। उसके पिता उसे मनुष्य बनने की कहते थे—शुद्ध मनुष्य। खुद भी ईमानदार और साहसी व्यक्ति थे। किरणमयी वीच-वीच में कहती थी, लड़की बड़ी हो रही है शादी कर देते हैं। सुधामय यह सुनकर अड़ जाते थे। कहते, 'पढ़ाई-लिखाई करेगी, नौकरी-चाकरी करेगी, उसके बाद यदि उसके मन ने चाहा तो शादी करेगी।' किरणमयी लम्बी सांस छोड़कर कहती, 'तुम कहो तो उसे कलकत्ता में उसके मामा के घर छोड़ देती हूँ। अंजलि, नीलिमा, आभा, शिवानी वगैरह माया की हमउप्र सारी लड़कियाँ कलकत्ता पढ़ने चली गई हैं।' सुधामय कहते—'इससे क्या। क्या यहाँ पढ़ने-लिखने का नियम नहीं है। स्कूल-कॉलेज उठ गये हैं ?'

'लड़की सयानी हो रही है मुझे रात-रात भर नींद नहीं आती। उस दिन कॉलेज जाते हुए लड़कों ने विजया को घेरा नहीं था ?'

'वह तो मुसलमान लड़की को भी घेरते हैं। क्या मुसलमाल लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं होता ? उनका अपहरण नहीं होता ?'

'होता है। किर भी'' !'

किरणमयी समझाती थी कि सुधामय उसकी बातों का समर्थन नहीं करेंगे। वाप की जमीन नहीं तो क्या हुआ, कदमों के नीचे देश की माटी तो है। यही उनको सांत्वना है। माया की कभी कलकत्ता जाने की इच्छा नहीं रही। वह एक बार कलकत्ता मौसी के घर घूमने गई थी। अच्छा नहीं लगा। मौसी वहने थोड़े नकचढ़े स्वभाव की हैं। उसे अपनी अड़ेवाजी, बातचीत किसी में भी शामिल नहीं करतीं। सारा दिन अकेते बैठकर वह घर के ही बारे में सोचती रहती थी। दुर्गा पूजा की छुट्टी में गई थी। लेकिन छुट्टी खत्म होने से पहले ही मौसा जी से देश लौटने की जिद करने लगी।

मौसी ने कहा, 'दीदी ने तो तुम्हें दस दिनों लिए भेजा है !'

'धर के लिए मन रो रहा है ।' कहते हुए माया की आँखों में जौसू जा गये थे । कलकत्ता की पूजा में इतना हो-हल्ता, बहल-बहल रहती है फिर भी माया को अच्छा नहीं लगा । सारा शहर जगमगा रहा था, फिर भी वह बड़ा अकेला महसूस कर रही थी । दस दिनों के बदले वह सात ही दिनों में देश लौट आयी ! किरणमयी की इच्छा थी कि माया का अगर मन लग गया तो उसे वहाँ रख देगी ।

सुधामय के सिरहाने के पास बैठी माया जहाँगीर के बारे में सोचती है । पाठ्य के घर फौन पर दो बार उससे बातें भी कीं । जहाँगीर के स्वर में पहले की तरह वह आकुतता नहीं थी । उसके चाचा अमेरिका में रहते हैं । उसको वहीं जाने के लिए लिखा है । वह चले जाने की कोशिश कर रहा है । यह सुनकर माया करीब-करीब आर्तनाद कर उठती है, 'तुम चले जाओगे ?'

'अरे बाह ! अमेरिका जैसी जगह में जाने का आफर मिल रहा है और भही जाऊँगा ?'

'क्या फिर लौटोगे ?'

'फिलहाल तो 'ऑड जॉब' करना होगा । फिर एक समय 'सिटिजनशिप' मिल जायेगा ।'

'देश नहीं लौटोगे ?'

'देश लौटकर क्या करेंगा । इस गंदे देश में आदमी रह सकता है ?'

'कब तक जाओगे, कुछ सोचा है ?'

'अगले महीने ! चाचा जल्दवाजी कर रहे हैं । उनका सोचना है कि मैं यहाँ राजनीति के साथ जुङकर बर्वाद हो रहा हूँ ।'

'ओह !'

जहाँगीर ने एक बार भी नहीं पूछा कि उसके चले जाने पर माया का क्या होगा ? माया उसके साथ जायेगी या देश में रहकर उसका इन्तजार करेगी ! अमेरिका का स्वप्न ! उसके चार वर्ष के प्रेम, रेस्तारों में क्रिसेंटलेक के किनारे टी० एस० सी० में बैठकर शादी की बातें करना सब कुछ एक ही झटके में भुला दिया ? समृद्धि और चमक में इतना मोह होता है कि रक्त-मांस की एक लड़की माया को क्षणभर में भुलाकर जहाँगीर चला जाना चाहता है । सुधामय के सिरहाने के पास बैठकर माया को रह-रहकर जहाँगीर की याद आती है । वह उसे भूलना चाहती है तेकिन नहीं भूल सकती । वह जहाँगीर और सुधामय, दोनों के दुखों को एक ही साथ ढो रही थी । किरणमयी का कष्ट पता नहीं चल रहा था । वह रह-रहकर आधी रात में रो पड़ती थी । क्यों रोती है, किसतिए रोती है कुछ भी नहीं कहती । दिन भर चुपचाप करती रहती है । खाना पकाना, पति का मत-मूत्र साफ करना सब चुपचाप कर रहती ।

किरणमयी सिन्दूर नहीं लगाती है। न ही सुहाग की लोहा, शंखा की चूड़ियाँ पहनती है। सुधामय ने 1971 में उतार देने के लिए कहा था। 1975 के बाद किरणमयी ने खुद ही खोल दिया था। 1975 के बाद सुधामय ने खुद भी धोती पहनना छोड़ दिया था। सादा 'लंकलौंथ' खरीद कर उस दिन तास खत्तीफा की दुकान में पाजामा सिलने को दे आये। घर लौटकर किरणमयी से कहा था, देखो तो किरण, मेरा शरीर धोड़ा गरम-गरम लग रहा है न ! बुखार-बुखार-सा लग रहा है।

किरणमयी ने कुछ नहीं कहा था क्योंकि वह जानती थी कि सुधामय का जब भी मन उदास होता है, बुखार-बुखार-सा लगता है।

माया हैरान होती है कि सुरंजन इस समय भी परिवार से कटा-कटा रहता है। वह दिन भर कमरे में चुपचाप पड़ा रहता है। खायेगा भी या नहीं, कुछ नहीं कहता। उसके पिता जिन्दा हैं या मर गये, उसे पूछना नहीं चाहिए ? उसके कमरे में उसके दोस्त आ रहे हैं, अड़ेवाजी कर रहे हैं। बाहर से कमरे में ताता लगाकर चला जाता है। कंब जा रहा है, कब लौटेगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्या उसका कोई फर्ज नहीं बनता? उससे तो कोई रूपथा-पैसा नहीं माँग रहा है, लड़का होने के नाते पूछताछ करने, डॉक्टर बुलाने, दवा खरीदने और उनके पास आकर बैठने से उनका मानसिक बत धोड़ा बढ़ ही सकता है। कम-से-कम सुधामय को तो अपने बेटे से यह चाहने का हक है कि वह आकर उनका बायां हाथ स्पर्श करे। दाहिना हाथ लुंजपुंज है तो क्या हुआ, बायें हाथ में तो अब भी अनुभूति है !

हरिपद डॉक्टर की दवा से सुधामय अब जरा स्वस्थ हो रहे हैं। अस्पष्ट जुबान धोड़ी-धोड़ी स्पष्ट हो रही है लेकिन हाथ-पाँव में चेतना नहीं लौटी है। डॉक्टर ने कहा है, नियमित व्यायाम करने से जल्दी ठीक हो जायेंगे। माया का तो और कोई काम नहीं। दृश्यों करने भी नहीं जाना पड़ रहा है। मिनती नाम की एक लड़की पढ़ती थी, उसकी माँ ने कह दिया है कि अब और पढ़ाना नहीं होगा, क्योंकि दे तोग इंडिया जा रहे हैं।

'इंडिया क्यों ?' माया ने पूछा था।

उसकी माँ के होंठों पर दुःख भरी मुस्कराहट आयी थी, उसने कुछ कहा नहीं।

मिनती भिखारुनिसा स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन जब माया मिनती से गणित करवा रही थी तब उसने देखा कि मिनती पेसिल हिला रही है और कह रही है, 'अलहमदुलिल्लाहिर रहमानी का रहीम' और 'रहमानी का रहीम।'

माया ने हैरान होकर पूछा था, 'तुम यह सब क्या कह रही हो ?'

मिनती ने तुरन्त जवाब दिया था, 'हमारी एसेम्बली में 'सूरा' पढ़ा जाता है।'

'अच्छा ? भिखारुनिसा की एसेम्बली में 'सूरा' पढ़ा जाता है ?'

'दो सूरा पढ़ा जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय संगीत होता है।'

'जब सूरा पढ़ा जाता है, तब तुम क्या करती हो ?'

‘मैं भी पढ़ती हूँ। रिर पर चुन्नी डालकर।’

‘तुम्हारे स्कूल में हिन्दू, बौद्ध, क्रिश्वयनों के लिए कोई प्रार्थना नहीं है?’
‘नहीं।’

माया के मन में अजीव-सा भाव उठता है। देश के एक बड़े स्कूल की एसेम्बली में मुसलमान-धर्म का पातन होता है और उस स्कूल की हिन्दू लड़कियों को भी चुपचाप उस धर्म-पातन में भाग लेना पड़ता है। यह अवश्य ही एक तरह का अनाद्यार है।

माया का एक और दृश्यान भी था। वह लड़की पारुत की ही रिश्तेदार है। सुमिया भी एक दिन बोली, ‘दीदी आपसे अब और नहीं पढ़ूँगी।’

‘क्यों?’

‘अब्बा ने कहा है कि मुसलमान टीचर रखेंगे।’

‘अच्छा।’

उसके दोनों दृश्यान चले गये हैं, घर में कोई इस बात को नहीं जानता। सुरंजन घर से पैसे ले रहा है, माया को भी यदि हाथ पसारना पड़ा तो किरणमयी कैसे संभाल पायेगी! घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है कि वह फिर से उन्हें दुखी नहीं करना चाहती।

किरणमयी भी अचनाक एकदम चुप हो गई है। चुपचाप दात-भात पकाती है। सुधामय के लिए फल का रस, सूप तैयार करना पड़ता है। इतना फल कौन ला देगा! सुरंजन दिन भर सोया हुआ है, कोई आदमी इतना सोया रह सकता है! भैया को लेकर माया के मन में थोड़ा रुठने का भाव भी है। सात तारीख को उसने इतना कहा, भैया, चलो! घर छोड़कर हमलोग कहाँ चले चलते हैं। उसने उसकी एक नहीं सुनी। क्या अब भी विषपदा टली है? परिवार के सभी सदस्यों की उदासीनता देखकर वह भी उदासीन हो गई है। वह भी सोचना चाह रही है कि जो होता है, हो, मेरा क्या। सुरंजन ही नहीं सोचेगा तो माया अकेती क्या करेगी। उसकी तो ऐसी कोई सहेती नहीं है जिसके घर पर सभी जाकर ठहर सकें। पारुत के घर पर उसे ही हिचकिचाहट हो रही थी। यूँ तो पारुत उसकी घनिष्ठ सहेतियों में एक है, वह दिन-रात उसके घर पर अहुआ मारती रही है। कभी किसी ने नहीं पूछा कि वह क्यों आयी है। लेकिन उस दिन, उसका इतना परिवित घर, फिर भी उन लोगों ने अपरिचित निगाहों से उसे देखा। वह हमेशा उसके घर आती-जाती रही है फिर भी हर निगाह में सवाल था, वह क्यों आयी है? पारुत हमेशा कहती आयी है कि ऐसे समय में उसका अपने घर में रहना निरापद नहीं है।

सुरक्षित-असुरक्षित की बात रिफ माया को लेकर ही उठती है, पारुत को लेकर तो नहीं उठती। क्या पारुत को कभी अपना घर छोड़कर माया के घर आश्रय लेना पड़ेगा? माया कुण्ठित होती है, फिर भी जीने की तात्सा में वह पारुत के

अनचाहे अतिथि की तरह फड़ी रही। पारुल ने उसकी कम मेहमाननवाजी नहीं की। फिर भी उसके रिश्तेदार जब धूमने आये तो उनमें से कई ने पूछा, 'तुम्हारा नाम क्या है ?'

'माया !'

'पूरा नाम क्या है ?'

पारुल माया को पूरा नाम बताने से पहले ही टोकते हुए बोल पड़ी, 'इसका नाम जाकिया सुलताना है !'

माया अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। बाद में रिश्तेदारों के चले जाने पर पारुल बोली, 'तुम्हारा नाम इसलिए झूठ बोलना पड़ा क्योंकि वे लोग थोड़ा दूसरे टाइप के हैं, मुंशी टाइप के। चारों तरफ कहते फिरेंगे कि हम लोग हिन्दुओं को पनाह दे रहे हैं !'

'ओह !'

माया समझ गयी। लेकिन उसके मन को बहुत ठेस लगी। हिन्दू को पनाह देना क्या गलत है ? और एक सवाल ने उसकी रातों की नींद छीन ली है—हिन्दू को क्यों पनाह लेनी पड़ती है ? माया इण्टर में स्टार लेकर पास हुई और पारुल साधारण द्वितीय श्रेणी में। फिर भी उसे हमेशा महसूस होता है कि पारुल उस पर दया करती है।

'बाबा, उंगलियों को मुझी बाँधने जैसा कीजिए तो। हाथ को जरा उठाने की कोशिश कीजिए !'

अच्छे वच्चे की तरह सुधामय माया की बात मानते हैं। माया को लगता है कि सुधामय की उंगलियों में धीरे-धीरे शक्ति आ रही है।

'भैया क्या खाना नहीं खायेगा ?'

'पता नहीं, देखा तो सो रहा है !' किरणमयी ने भावहीन ढंग से कहा।

किरणमयी खुद भी नहीं खाती है। माया का खाना लगा देती है। बंद कमरा है। अन्धेरा-अन्धेरा-सा लग रहा है। माया को नींद भी आ रही है। जुलूस जा रहा है, 'हिन्दू यदि जीना चाहो, इस देश को छोड़कर चले जाओ !' सुधामय ने भी इस नारे को सुना, माया के हाथ में सुधामय का हाथ था, उनका हाथ काँप उठा, उसने अनुभव किया।

सुरंजन का पेट भूख के मारे ऐंठ रहा था। पहले तो वह खाये या न खाये मेज पर उसका खाना ढंका रहता था। आज वह किसी से भूखे होने की बात नहीं कहेगा। पक्के ऊँगन में नत के पास जाकर ऊँखों में पानी का छीटा मार आया। फिर तार

पर टंगे तौतियों से भूँह पौछा। कमरे में जाकर शर्ट बदतकर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वह तय नहीं कर पा रहा है कि कहाँ जायेगा? हैदर के घर? लेकिन हैदर तो इस वक्त घर पर नहीं होगा। तो क्या बेलात, या कमाल के घर जायेगा? उनके घर जाने पर यदि वे सोचें कि विपत्ति में पड़कर उनके घर आश्रय या अनुकरण के लिए आया है तो? नहीं, सुरजन वहाँ नहीं जायेगा। वह सारे शहर में अकेला घूमता रहेगा। यह शहर तो उसका अपना ही है। कभी वह मध्यमनसिंह छोड़कर आना नहीं चाहता था, 'आनन्दमोहन' में काफी यार-दोस्त थे। उन्हें छोड़कर अचानक ज़िन्हीं शहर में भला वह क्यों आना चाहता! लेकिन किसी एक गहरी रात में मुथामर या रईसउद्दीन साहब के पास वह घर बैच आये। उसके दूसरे दिन भी सुरजन वहाँ नहीं था कि उसको जन्म देने वाला कामिनी फूत की महक से भाग यह दृश्य तालाब में झिलमिलाती यह 'दत्त बाड़ी' अब और उसकी नहीं रही। सुरजन वहाँ सना कि सात टिनों के अन्दर तन्दे यह घर स्थानी कर देना है तो वह दृश्य दृश्य

परवीन का गोरा चेहरा क्षण भर में सुरमान से तात हो गया था। सुरंजन जानता था कि उसे छोड़ देने के लिए परवीन पर उसके परिवार की ओर से दबाव डाला जा रहा है। उसे जानने की बहुत इच्छा होती है कि हैदर उस वक्त जिस पक्ष में था। हैदर परवीन का भाई है और सुरंजन का दोत्त भी। वह हमेशा उनके रिश्ते को तेकर चुप रहने की कोशिश करता था। उसका मौन रहना उस समय सुरंजन को बित्कुत पसन्द नहीं था। उसे कोई एक पक्ष तो तेना ही चाहिए। हैदर के साथ उस समय वह काफी देर तक अडेबाजी भी करता था। तेकिन उन दोनों के बीच परवीन को तेकर कोई बात नहीं होती थी। चूंकि हैदर बात नहीं छेड़ता था इसलिए सुरंजन भी कुछ नहीं कहता था।

एक दिन परवीन की शादी हो गई, एक मुसत्तमान व्यवसायी के साथ। चूंकि सुरंजन मुसत्तमान बनने के लिए तैयार नहीं हुआ इसलिए परवीन ने भी उसके साथ पहाड़ पर जाने का स्वप्न छोड़ दिया। क्या स्वप्न को आसानी से पूजा को मूर्ति की तरह पूजा समाप्त होने पर पानी में दहा दिया जा सकता है। जैसे परवीन ने दहा दिया था? सुरंजन का धर्म ही परवीन के परिवार में मुख्य अङ्गचन बनकर सामने आया था।

आज सुबह हैदर कह रहा था, शायद परवीन अपने पति को तंताक दे देगी।

दो वर्ष के अन्दर ही डायरोर्स? सुरंजन कहना चाहकर भी नहीं कह सका। वह तो परवीन को भूत ही गया था, फिर भी डायरोर्स की छवर सुनकर छाती के अन्दर कुछ धधक उठा। 'परवीन' नाम को उसने खूब जतन से छाती के अन्दर स्थित संदूक में नेष्टोलीन देकर रखा था। शायद! कितने दिनों से उसने परवीन को नहीं देखा। उसके वक्ष में दर्द की एक तहर दौड़ गई। वह जान-बूझकर रला क चेहरा बाद करने की कोशिश कर रहा है। रला मित्र। वह तड़को बहुत अच्छी है। सुरंजन के साथ उसकी जोड़ी अच्छी जमेगी। परवीन तलाक तेगी तो इससे सुरंजन को क्या! मुसत्तमान के साथ शादी हुई थी, परिवार की पसन्द से हुई थी। जाति-धर्म मिताकर ही क्या शादी को स्थायी किया जा सकता है? फिर वापस क्यों आना पड़ता है? उसे तेकर उसका पति पहाड़ पर नहीं चढ़ा? स्वप्न पूरा नहीं किया? वह तो देरोजगार हिन्दू तड़का है, उड़ता रहता है, धूमता रहता है। क्या वह शादी के लिए उचित पात्र है? सुरंजन एक रिक्षा तेकर टिकादुती के मोड़ पर पहुँचता है। छाती में रखे सन्दूक में से तितचट्ठे की तरह दार-बार परवीन का चेहरा उठतकर बाहर आ जा रहा है। परवीन उसे चूमती थी, वह परवीन से लिपटकर कहता, तुम एक चिड़िया हो, गौरैया!

परवीन हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाती और कहती, तुम एक बन्दर हो।

अच्छा क्या सचमुच वह एक बन्दर है? बन्दर नहीं होता तो क्या पाँच वर्षों में जो था वही रहता। उम्र बीत गयी तेकिन उसे कुछ भी नहीं मिता। किसी ने भी

परवीन की तरह नहीं कहा, 'तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो।' परवीन ने जिस दिन यह बात कही थी, उसने परवीन से कहा था, 'किसी से शर्त लगायी है क्या ?'

'भतलव ?'

'यह बात मुझसे कह सकती हो या नहीं, इस पर किसी के साथ शर्त लगायी है ?'
'कभी नहीं !'

'तो क्या दिल से कह रही हो ?'

'मैं जो कहती हूँ दिल से ही कहती हूँ !'

उस अटल लड़की के घर पर शादी की बात उठी और दूटने लगे, उइ गये अद्भुत-अद्भुत स्वप्न और जो मन चाहेगा, वह करने की इच्छा। उसकी जिस दिन जबरदस्ती शादी की गई, परवीन ने तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं उस घर के बन्दर से शादी करूँगी। उसके घर से दो मकान बाद ही हैदर का घर है, उसकी शादी में माया गई थी। किरणमयी और सुरंजन नहीं गये।

उसने रिक्षे को चमेली बाग की तरफ जाने को कहा। शाम हो रही थी। भूद्य से उसकी हालत खराब है। पेट में दर्द हो रहा है। छाती में जलन याती बीमारी तो उसे है ही। खट्टी डकार आ रही है। सुधामय ऐसे में एन्टासीड खाने को कहते हैं। होठों को सफेद कर देने वाला टेबलेट उसे अच्छा नहीं लगता। इसके अतावा पाकेट में दवा लेकर निकलने की बात उसे याद भी नहीं रहती। पुलक के घर जाकर कुछ खाना होगा। पुलक घर पर ही मिल गया। वह पाँच दिनों से घर में बैदी है। दरवाजे में ताता लगाकर घर में बैठा हुआ है। घर में घुसते ही सुरंजन ने कहा, 'कुछ खाने को दो ! शायद घर पर आज खाना-याना कुछ नहीं पका !'

'क्यों, खाना क्यों नहीं पका ?'

'डॉक्टर सुधामय दत्त को स्ट्रोक हुआ है। उनकी बेटी और पली फिलहाल उन्हें लेकर व्यस्त हैं। किसी जमाने के धनाद्य सुकुमार दत्त के बेटे सुधामय दत्त अब खुद की विकित्ता के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं।'

'दरअसल तुम्हें कुछ करना चाहिए था, नौकरी-चाकरी !'

'मुसलमानों के देश में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। और इन मूर्छों के अंडर नौकरी कैसे करूँगा, बोतो !'

पुलक विस्मत हुआ। सुरंजन के और नजदीक आकर बोला, 'तुम मुसलमानों को गाती दे रहे हो सुरंजन ?'

'डरते क्यों हो ? गाती तो तुम्हारे सामने दे रहा हूँ, उनके सामने तो नहीं दे रहा। क्या उनके सामने गाती देना सम्भव है ? मेरे घड़ में क्या सिर रहेगा ?'

सुरंजन ने दौत पीसते हुए सोफे का हैडल कस कर भीचा। पुलक भी हतप्रभ होकर बैठा रहा। नीता भात-दाल-सब्जी गरम करके टेबुल पर ले आयी। सहानभुगिरु स्थर में पूछा, 'सुरंजन दा, दिन-भर कुछ नहीं खाये ?'

सुरंजन फीकेपन के साथ मुस्कराया। बोला, 'मेरा और खाना ! मेरे खाने की किसे परवाह है, बोलो !'

'शादी-व्याह कर लीजिए !'

'शादी ?' सुरंजन के गते में चावल अटका जा रहा था, 'मुझसे कौन शादी करेगा ?'

'उस परवीन के कारण आपका मन शादी से उच्छट गया, यह तो ठीक नहीं है !'

'नहीं, नहीं ! उस कारण क्यों होगा ? दरअसल, शादी करनी होगी, मैं इतने दिनों तक भूल ही गया था !'

इतने दुखों के बीच भी नीला और सुरंजन हँसते हैं।

सुरंजन को खाने में उतनी रुचि नहीं है। फिर भी वह भूख मिटाने के लिए खाता है।

'पुलक, तुम मुझे कुछ रूपये उधार दे सकोगे ?' खाते-खाते ही उसने पूछा।

'कितना रूपया ?'

'जितना दे सको ! घर पर कोई मुझसे नहीं बता रहा है रूपये-पैसे की जरूरत है या नहीं ! लेकिन मुझे मालूम है, माँ का हाथ खाली हो गया है !'

'वह तो मैं दे दूँगा ! लेकिन देश की खबर जानते हो ? भोला, चट्टग्राम, सिलहट की ? काक्स बाजार, पिरोजपुर की ?'

'यहीं तो कहोगे न, सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया है, हिन्दुओं के घरों को लूटा जा रहा है, जला दे रहे हैं, पुरुषों को पीट रहे हैं, स्त्रियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ हो तो बोलो !'

'यह सब तुम्हें स्वाभाविक लग रहा है ?'

'विल्कुल स्वाभाविक है। कथा आशा करते हो तुम इस देश से ? पीठ बिछाये बैठे रहोगे और उनके मुक्का-धूंसा मारने पर गुस्सा करोगे, यह तो ठीक नहीं है !'

खाने की मेज पर सुरंजन और पुलक आमने-सामने बैठे हैं। कुछ देर ऊपर रहने के बाद पुलक ने कहा, 'सिलहट में चैतन्यदेव के घर को जला दिया गया है। पुरानी लाइरेरी को भी नहीं बख्शा। सिलहट से मेरे भैया आये हैं कालीघाट कालीवाड़ी, शिववाड़ी, जगन्नाथ अखाड़ा, चाली बंदर, भैरववाड़ी, चाती बंद शमशान, जतरपुर महाप्रभु अखाड़ा, मीरा बाजार, रामकृष्ण पिशन, मीरा बाजार बलराम का अखाड़ा, निर्मलवाला छात्रावास, बन्दर बाजार, ब्रह्म मंदिर, जिन्दा बाजार, जगन्नाथ का अखाड़ा, गोविन्द जी का अखाड़ा, लामा बाजार नरसिंह का अखाड़ा, नया सड़क अखाड़ा, देवपुर अखाड़ा, टीलागढ़ अखाड़ा, वियानी बाजार, कालीवाड़ी, छाका, दक्षिण महाप्रभुवाड़ी, गोटाटिकर शिववाड़ी, महालक्ष्मीवाड़ी, महापीठ, फेंचूरगंज, सरकारखाना, दुर्गावाड़ी, विश्वनाथ का साजीवाड़ा, बैरागी बाजार अखाड़ा, चन्द्रग्राम शिव मंदिर, आकिलपुर अखाड़ा, कम्पनीगंज, जीवनपुर कालीवाड़ी, बालागंज योगीपुर कालीवाड़ी,

जाकीगंज, आमलखी काती मंदिर, बारहट अखाड़ा, गाजीपुर अखाड़ा, बीरब्री अखाड़ा, को भी तोड़कर, आग लगा दी और पूरी तरह भस्मीभूत कर डाला। वेणुभूषण दास, सुनील कुमार दास और कानुभूषण दास उस आग में जल गये।

‘अच्छा ?’

‘इतने काण्ड हो रहे हैं सुरंजन, मेरी तो सपझ में नहीं आता कि हम तीर इस देश में रहेंगे कैसे ? चद्यग्राम में तो ‘जमात’ और ‘बी० एन० पी०’ ने मिलकर घर-द्वार व मंदिरों को जला दिया है। वे तोग हिन्दुओं का लोटा-बर्तन, यहाँ तक कि तालाब से मछलियाँ भी से जा रहे हैं। हिन्दुओं को सात-आठ दिन से अन्न का एक दाना नसीब नहीं हुआ। सीताकुण्ड के खाजुरिया गाँव में कानूविहारी नाथ और उसके बेटे अर्जुन विहारी नाथ की छाती से पिस्तील सटाकर जमात शिविर के लोगों ने कहा, ‘बीस हजार रुपये दो, बरना घर में रहने नहीं देंगे।’ वे तोग घर छोड़कर चले गये हैं। मीर सराय कातेज के प्रोफेसर की लड़की उत्पत्ता भौमिक को बृहस्पतिवार की जाधी रात उठा ले गये, और वापस किया अंतिम पहर में। अच्छा, बोतो तो इन सबका विरोध हम नहीं करेंगे ?’

‘विरोध करने से क्या होगा, जानते हो ? डी० एल० राय की कविता याद है न, मैं यदि तुम्हारी पीठ पर मारूँ लात गुस्से से, तुम्हारी तो स्पर्धा बड़ी है जो पीठ में होता दर्द जोर से !’

सुरंजन सोफे से पीठ सटाता है। औंछें बंद कर लेता है।

‘भोता में तो कई हजार घरों को लूटा गया है, कई हजार घर जलकर राख हो गये। आज सुबह बारह घण्टे के लिए कर्ष्यू में ढील दी गयी थी। तीन सौ लोगों ने सावल-कुल्हाड़ी लेकर लक्ष्मीनारायण अखाड़े पर तीसरी बार हमता किया। पुतिरा चुपचाप छाड़ी देखती रही। बुरहानउद्दीन में डेढ़ हजार से भी अधिक घर राख हो गये। दो हजार घरों को नुकसान पहुँचा है, ताजमुद्दीन में दो हजार दो सौ घर-द्वार पूरी तरह ध्वस्त हो गये, दो हजार आधा छांडहर हो गये हैं। भोता जिले में दो सौ साठ मंदिरों को धूल में मिला दिया गया।’

सुरंजन हँसा कर बोता, ‘तुम तो एक ही साँस में रिपोर्टर की तरह बोत गये। इन घटनाओं से तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है न ?’

पुतक ने हैरतमरी निगाह से सुरंजन को देखा। फिर बोता, ‘तुम्हें कष्ट नहीं होता?’

सुरंजन अदृहास कर उठा, उसकी हँसी से सारा घर कौप उठा। बोता, ‘एक बूँद भी नहीं। कष्ट क्यों होगा ?’

पुतक थोड़ा विन्तित हुआ। कहा, ‘दरअसल उधर मेरे काफी रिश्तेदार हैं न इसलिए मुझे उनकी फिल है।’

‘मुसलमान का काम मुसलमान कर रहे हैं, घरों में आग लगायी,

मुसलमानों का घर जलाना क्या हिन्दुओं को शोभा देता है? पुलक, तुम्हें मैं किसी भी तरह की सान्त्वना नहीं दे पा रहा हूँ। आई एम सॉरी, पुलक!

पुलक ने अंदर से दो हजार रुपये लाकर सुरंजन को दिये। रुपये जेब में रखकर सुरंजन ने पूछा, 'अलक का क्या हालचाल है, उसे खेल में शामिल किया है पड़ोसियों ने?'

'नहीं, दिन भर वह घर में दुखी होकर बैठा रहता है। करने को कुछ नहीं है। वह खिड़की से देख रहा है, उसके दोस्त मैदान से खेल में खेल रहे हैं। वह अकेला घर में छटपटा रहा है।'

'मुग्नो पुलक, जिन्हें हम असाम्प्रदायिक समझते हैं, अपनां समझते हैं, दोस्त मानते हैं, वे लोग वास्तव में अन्दर-ही-अन्दर साम्प्रदायिक हैं। इस देश के मुसलमानों के साथ इस तरह से उठता-बैठता रहा हूँ हम लोग बेमतलब ही 'अस्सलामवालेकुम' कहते हैं, 'खुदा हाफिज़' कहते हैं, 'जल' को 'पानी' कहते हैं, 'स्नान' को 'गोसल' कहते हैं। जिनके रमजान के महीने में हम लोग बाहर चाय-सिगरेट तक नहीं पीते, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर भी होटल-रेस्तराँ में दिन में खा नहीं सकते, फिर भी असलियत में वे हमारे कहाँ तक हैं? आखिर किसके लिए हमारा यह त्याग, कहो? पूजा में हमें कितने दिनों की छुट्टी भिलती है? और उधर दोनों ईद में सरकारी अस्पतालों में हिन्दुओं से गर्दन पकड़कर काम कराया जाता है। आठवाँ संशोधन होने पर अवामी लीग कुछ दिनों तक चिल्लाई, वस। हसीना खुद ही तो अब पल्लू से सिर ढँकती है। हज करके आने के बाद तो बाल न दिखाई दें, ऐसा धूंधट किया था। सबका चरित्र एक है पुलक, सबका। अब हम सबको या तो आत्महत्या करनी होगी या फिर देश छोड़ना होगा।'

पुलक दीवार से पीठ टेक कर खड़ा था। सुरंजन दरवाजे की तरफ बढ़ा। किरणमयी ने एक बार मयमनसिंह के रईसउद्दीन के पास जाने के लिए कहा था, इतने कम रुपये में मकान खरीदा था, यदि इस समय कुछ सहायता ही कर दें। सुरंजन किसी से रुपया उधार नहीं लेता। परन्तुन की दुकान में बकाया हो जाता है तो महीने के अंत में जाकर उसे दे देता है। पुलक से वह इतनी सहजता से पैसे माँग सका है। कभी पुलक को उसने काफी दिया है, शायद इसीलिए। यह भी हो सकता है कि पुलक हिन्दू लड़का है। वह जितना अल्पसंख्यकों के दुःख को समझ सकता है उतना और कोई नहीं समझ सकता। दूसरों से माँगने पर भी दे तो देंगे लेकिन शयद भन से नहीं सुरंजन ने तय किया है कि इस बार वह किसी मुसलमान के आगे हाथ नहीं पसारेगा। घर में उसे कोई किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं सौंप रहा है। सोच रहे होंगे देश भक्त बेटा है, देश-प्रेम में दिन-रात एक किया, इसे बेमतलब तंग करने से क्या लाभ। इन रुपयों को ले जाकर वह किरणमयी के हाथों में देगा। पता नहीं वह किस तरह से परिवार का पतवार संभाले हुए है। किसी से उसे कोई शिकायत नहीं है। इस निकम्भे

बेटे से भी नहीं। इतनी दरिद्रता झेसी है लेकिन कभी कड़वी नहीं हुई।

पुलक के घर से निकलकर वह तेजी से टिकाडुली की तरफ चलने लगा। अचानक उसे लगा, आदमी के जिन्दा रहने से क्या फायदा। यह जो सुधामय कराहते हुए जिन्दा हैं, दूसरे लोग पाखाना-पेशाब करवा रहे हैं, छिला-पिला रहे हैं, क्या फायदा उनको इस तरह से जिन्दा रहने से? सुरंजन भी क्यों जिन्दा है? एक बार तो सोचा, पैसा तो जेव में ही है, कुछ 'एम्पुल पेथिडीन' खरीदकर नस में 'पुस' करने से कैसा रहेगा। मर जाने की कल्पना का वह मजा लेने लगता है। मान तिया जाए, वह भरकर विस्तर पर पड़ा है। घर में किसी को पता नहीं चलेगा, सोचेगे लड़का सोया हुआ है, उसे तांग करना ठीक नहीं होगा। फिर एक माया बुताने आयेगी, भैया उठो भिताजी के लिए हमारे लिए कोई व्यवस्था करो। भैया कोई जवाब नहीं देगा। वह ऐसा सोचते हुए आ ही रहा था कि विजय नगर के मोड़ पर जुलूस दिखाई दिया—साम्राज्यिक सद्भावना का जुलूस। 'हिन्दू-मुसलमान भाई-भाई' का नारा। सुरंजन के होटों पर व्याग्य भरी मुस्कराहट दौड़ गई।

घर जाने से पहले वह गौतम के घर गया। गौतम सोया हुआ था। वह पहले से ठीक है। वह बहुत ही सीधा-सादा लड़का है, मेडिकल में पढ़ता है, राजनीति नहीं करता। मुहल्ले में कोई दुश्मन नहीं है, और उसे ही मार खानी पड़ी। बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गयी, इस अपराध में।

'गौतम की माँ बगल में ही बैठी हुई थी। कोई न सुन पाये, ऐसी सावधानी बरतते हुए बोली, 'वेटा, हम तोग तो चले जा रहे हैं।'

'चले जा रहे हैं?' सुरंजन चौक गया।

'हाँ, घर बैठने का इन्तजाम कर रहे हैं।'

वे लोग कहाँ जा रहे हैं, सुरंजन को यह जानने की इच्छा नहीं होती है। वह पूछता भी नहीं है। क्या वे लोग देश छोड़कर चले जायेंगे? वहाँ बैठे रहने पर यह भयंकर खबर सुरंजन को गुननी पड़ेगी, इसलिए वह अचानक कुर्सी छोड़कर छड़ा हो जाता है। कहता है, चलूँ। गौतम की माँ ने कहा, 'बैठो वेटा, जाने से पहले पता नहीं फिर भिल पाऊँ या नहीं। बैठो दो बातें कर लैँ।' उनके गते में रुलाई जमी हुई थी।

'नहीं मौसी जी, घर पर काम है, जाता हूँ। दूसरे दिन आऊँगा।'

सुरंजन दुबारा न गौतम की तरफ देखता है और न ही उसकी माँ की तरफ। औंखें झुकाये चला जाता है। वह एक लम्बे निःश्वास को छिपा लेना चाहता है, लेकिन नहीं छिपा पाता। विरुपाक्ष, सुरंजन की पार्टी का लड़का है। नया-नया शामिल हुआ है। बहुत मेधावी लड़का है। सुरंजन तब तक विस्तर से नहीं उठा था, विरुपाक्ष उन्हें आया।

'दस बज रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं?'

'सोया कहाँ हूँ, लैटा हूँ बस। जब कुछ भी करने को नहीं रहता, तब शे-

रहना पड़ता है। हमारा तो मस्जिद तोड़ने का साहस नहीं है। इसीलिए सोया ही रहना पड़ेगा।

‘ठीक ही कहा है आपने! वे लोग सौ-सौ मंदिर तोड़ रहे हैं और हम लोग यदि किसी मस्जिद पर एक पत्थर भी फेंकें तो क्या होगा! चार सौ साल पुरानी रमना कालीबाड़ी को पाकिस्तानियों ने धूल में मिला दिया, किसी भी सरकार ने तो नहीं कहा कि उसे फिर से बनवा देंगे।

‘हसीना वार-वार वावरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की वात कह रही है। वांग्लादेश के हिन्दुओं को क्षतिपूर्ति देने की वात तो उसने कही है तेकिन टूटे हुए मंदिरों के पुनर्निर्माण की वात एक बार भी नहीं कही। वांग्लादेश के हिन्दू बाढ़ के पानी में वहकर नहीं आये हैं। वे इस देश के नागरिक हैं। उनके जीने का अधिकार, अपने जीवन, सम्पत्ति, उपासना-स्थल की रक्षा करने का अधिकार किसी से कम नहीं है।’

‘उन्होंने क्या सिर्फ वावरी मस्जिद के मामते को लेकर लूटपाट, तोड़फोड़ की है? 1992 के 21 मार्च की सुबह वागेरहाट के विशारीहाटा गाँव से कलिन्दनाथ हालदार की लड़की पुत्रुल रानी का अपहरण उसी इलाके के भोखलेसुर रहमान और चांद मियाँ ने मिलकर किया। पटुआखाली की बगा यूनियन यू० पी० चेयरमैन यूनुस मियाँ और यू० पी० सदस्य नवी अली मिर्धा के अत्याचार से गाँव के मणि और कनाई लाल का परिवार देश छोड़ने के लिए वाध्य हुआ। राजनगर गाँव के वीरेन की जमीन कब्जा करने के लिए वीरेन को पकड़कर ले गये, आज तक वीरेन की कोई खबर नहीं मिली। सुधीर की जमीन-जायदाद पर कब्जा करने के लिए भी इतना अत्याचार किया कि उन लोगों को भी देश छोड़ना पड़ा। सावूपुर गाँव के चंदन शील की चेयरमैन खुद पकड़कर ले गया। आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। वामनकाठी गाँव के दिनेश से जवरदस्ती सादे स्टाप्प पेपर पर दस्तखत करवा लिया है। बगा गाँव के चित्तरंजन चक्रवर्ती के खेत का धान काट ले गये हैं। चित्तवावू द्वारा मुकदमा किये जाने पर मुकदमा उठा लेने के लिए दबाव डाला गया। यहाँ तक कि मार डालने की धमकी भी दी गयी।’

सुरंजन सिंगरेट सुलगाता है। विरुपाक्ष की वातों में वह भाग लेना नहीं चाहता। फिर भी उसने पाया कि वह थोड़ा-थोड़ा उसमें भाग ले ही रहा है। उसने सिंगरेट हाँठों में दबाकर कहा—एक अप्रैल को स्वप्नचन्द्र घोष की नयी ‘जलखावार’ दुकान में सात-आठ व्यक्ति घुस गये और पिस्तौल दिखाकर दस हजार रुपये चंदा मांगा। चंदा मांगने वालों का जुल्म दिन-व-दिन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद ‘सिंदिदक बाजार’ के मानिक लाल धुवी की सम्पत्ति के आधे हिस्से पर उस इलाके का शहायुद्दीन सिराज; परवेज, सलाउद्दीन आदि ने जवरदस्ती कब्जा कर लिया है। अब वे लोग मानिक लाल की पूरी सम्पत्ति हड्डपना चाह रहे हैं।

सुरंजन कुछ देर तक चुप रहकर लम्बी सॉस छोड़कर बोला, ‘धान काट लेना,

लड़कियों को पकड़कर ले जाना, बतात्कार करना, जमीन कच्चा करना, मार डालने की प्रथम की देना, पीट कर घर सुइवा देना, देश सुइवा देना, इस सबके लिए इधर-उधर का उदाहरण देने से क्या होगा। यह सब तो सारे देश में ही हो रहा है। हम तो यह कितने ही अत्याचारों की खबर रख पा रहे हैं, देश त्यागने वालों की ही कितनी सूचना हमारे पास है। बोलो ?'

विरुपाक्ष ने कहा, 'नोवाखाली के सेनबाग में कृष्णलाल दास की पली स्वर्णवाला दास का अपहरण अबुल कलाम मुंशी, अबुल कासिम सहित कई लोगों ने किया और बतात्कार करके बेहोशी हातत में घर के बगलवाले घान के द्वेष में छोड़ गये।'

सुरंजन विस्तर से उठकर भल की ओर गया। हाथ-मुँह धोकर किरणमयी से 'दो कप चाय के लिए कहा। कल रात उसने किरणमयी के हाय में दो हजार रुपये दिये हैं। इसलिए लड़का बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, यह बात वह नहीं कहेगी। दूसरे दिनों की अपेक्षा आज किरणमयी थोड़ी 'फ्रेश' लग रही है। शायद आर्थिक विन्ता दूर हुई है, इसलिए। विरुपाक्ष मुँह तटकाये कुर्सी पर बैठा था। सुरंजन तौटकर आया और बोला, वियर अप-चियर अप !'

विरुपाक्ष फ़ीकी हँसी हँसता है। सुरंजन भी आज काफी ताजगी महसूस कर रहा है। वह सुधामय के कमरे में एक बार हो जाने की सोच रहा है। इसी बीच चाय आ गयी। माया दो कप चाय ले आयी है।

'क्यों ऐ, इतने दिनों में ही तू काफी सूख गयी, क्या पारुत के घर ठीक से खाना-पीना नहीं हुआ ?' माया कोई जवाब दिये बिना ही चती गई। सुरंजन के इस मजाक को उसने कोई अहमियत नहीं दी। सुधामय अस्वस्थ है। इस वक्त ऐसा हँसी-मजाक करना शायद सुरंजन के लिए उचित नहीं है। माया की चुप्पी उसे कुछ चिन्तित करती है।

इस चिन्ता से विरुपाक्ष उसे हटा लाता है। वह चाय पीते-पीते कहता है, 'सुरंजन दा, आप तो धर्म नहीं मानते हैं, पूजा नहीं करते, गाय का मौस खाते हैं, मुसलमानों से कहिए आप सचमुच के हिन्दू नहीं हैं, आधा मुसलमान हैं।'

'मैं सचमुच का इनसान हूँ, उनको आपत्ति तो इसी बात पर है। उग्र कट्टरपंथी हिन्दू और मुसलमानों में कोई विरोध नहीं है। यहाँ के जमात नेता के साथ भारत के भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती नहीं देख रहे हो ? दो देशों में दो कट्टरपंथी दत क्षमता में आना चाह रहे हैं। भारत के दंगा के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी है कांग्रेस, यह बात तो निजाम ने सुद आयतुल मुकर्रम की सभा में कही है।'

'भारत के दंगे में एक हजार लोगों की मृत्यु हुई है। विश्व हिन्दू परिषद, आर० एस० एस०, बजरंग, जमात इस्लामी सेवक संघ आदि को प्रतिबंधित कर दिया है। इधर सिलहट में हड़ताल हो रही है। पिरोजपुर में 144 धारा, भोला में का

और दुकड़े-दुकड़े में शान्ति जुलूस तो निकल ही रहा है। जुलूस में नारा लगाया जा रहा है: 'निजामी-आडवाणी भाई-भाई, एक रस्सी में फौंसी चाई (चाहता हूँ)'। आज साम्प्रदायिकता के विरुद्ध सर्वदलीय शान्ति सभा है। सुना है, ब्रिटेन के मंदिर में भी हमला हुआ है। तुफैल अहमद ने भोला से घूमकर आने के बाद कहा है, भोला में बी० डी० आर० भेजना चाहिए। उन इलाकों की परिस्थिति खराब है।'

'क्यों, सब जलकर राख हो जायेगा तो बी० डी० आर० जाकर वहाँ क्या करेगी? राख के ढेर को इकट्ठा करेगी। कहाँ था तुफैल छह तारीख की रात को? उसी रात में उसने क्यों प्रोटेक्शन का इन्तजाम नहीं किया?'

सुरंजन उत्तेजित हो गया। बोला, 'अवामी लीग को तुम इतना शरीफ मत समझो!'

'यह भी तो हो सकता है कि इस सरकार को दोषी ठहराने के लिए अवामी लीग ने दंगा रोकने की कोशिश नहीं की?'

'मालूम नहीं हो सकता है। सभी को तो वोट की जरूरत है। इस देश में वोट की राजनीति चलती है, यहाँ पर आदर्श-वादर्श कोई नहीं देखता। छल-बल-कौशल से वोट लेने से मतलब है। अवामी लीग ने तो सोचा है कि हिन्दुओं का वोट उसे ही मिलेगा। 'रिजर्व बैंक' या क्या कहते हैं, कहीं-कहीं पर तो उसे भी उन लोगों ने लूटा है।'

'कहीं-कहीं ऐसा भी हुआ है कि जिन इलाकों से अवामी लीग चुनाव में जीतती है, उनमें बी० एन० पी० के लोगों ने ही हिन्दुओं के घरों को लूटा है, मंदिरों को तोड़ा है और जला दिया है। यह भी कहा कि जिनको वोट देते हो, वे लोग अभी कहाँ हैं? इसी तरह बी० एन० पी० जहाँ जीतती है, वहाँ पर अवामी लीग द्वारा ऐसा किया गया। भोला में बी० एन० पी० के लोगों ने किया है। इधर महेशखाली, उधर मानिकगंज में अवामी लीग के लोगों ने किया है।'

'राजनीति का मामला तो है ही। लेकिन कट्टरपंथियों को साथ लिये बिना कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सुना है आज सभी अखबारों में एक ही सम्पादकीय निकला है? उसमें भी क्या साम्प्रदायिक सद्भाव की अपील की गई है?'

'क्या आप अखबार नहीं पढ़ते?'

'इच्छा नहीं होती।'

इस वक्त माया कमरे में आयी। टेबल पर एक लिफाफा रखा। बोली, 'माँ ने दिया है, कहा है, जरूरत नहीं है।'

माँ ने क्या दिया है, पूछने से पहले ही माया चली गयी। सुरंजन ने लिफाफा छोलकर देखा। उसमें कल रात के दो हजार रुपये हैं। सुरंजन का चेहरा अपमान से लाल हो गया। क्या यह किरणमयी का अहंकार है? या फिर उसने सोचा कि वेरोजगार लड़का है, कहीं से चोरी-डकैती करके लाया होगा? अभिमान और लज्जा से सुरंजन को फिर कुछ बात करने की इच्छा नहीं हुई। विरुपाक्ष के साथ भी नहीं!

किरणमयी के पिता ब्राह्मणवाड़ी के जाने-भाने व्यक्ति थे। बहुत बड़े वकील। उनका नाम या अखिल चन्द्र बसु। सोलह साल की लड़की की डाक्टर से शादी करके पूरे परिवार को लेकर कलकत्ता चले गये थे। उन्होंने सोचा था कि बेटी और दामाद भी किसी समय कलकत्ता चले आयेंगे। किरणमयी ने भी सोचा था कि एक-एक कर जब पिता, माँ, ताज, चाचा, बुआ, मामा-मौसी, करीब-करीब सभी चले गये तो वह भी शायद चली जायेगी। लेकिन वह एक अद्भुत परिवार में आ पड़ी है, सास-ससुर के साथ मात्र छह वर्षों तक रही है। इन छह वर्षों में उसने अपनी आँखों के सामने रिश्तेदार, पड़ोसियों, जान-पहचान के लोगों को बौरिया-विस्तर बौधते देखा है। फिर भी इस परिवार ने कभी भूलकर भी देश छोड़ने की बात नहीं सोची। किरणमयी छिप-छिपकर रोती रहती थी। इण्डिया से पिता का पत्र आता था, 'बेटी किरण, क्या तुम लोगों ने न आने का फैसला कर लिया है? सुधामय से और एक बार सोचने के लिए कहो। देश छोड़कर आना तो हम भी नहीं चाहते थे। लेकिन आने के लिए वाघ्य हुए। यहाँ आकर बहुत अच्छा हूँ, ऐसी बात नहीं। देश के लिए मन बहुत रोता है। फिर भी वास्तविकता को तो मानना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए सोचता हूँ। —तुम्हारा पिता।' इन विद्वियों को किरणमयी बार-बार पढ़ती थी, जाँसू पौछती थी, और रात में सुधामय से कहती थी, 'तुम्हारे रिश्तेदारों में काफी लोग अब यहाँ नहीं हैं। मेरे भी सारे रिश्तेदार चले गये हैं। यहाँ रहकर बीमारी में, असमय में मुँह में एक दृढ़ पानी डालने को कोई नहीं भिलेगा।' सुधामय विदूप मरी हँसते हुए कहते, 'तुम पानी की इतनी कंगाल हो। तुम्हें पूरा ब्रह्मपुत्र दे दूँगा। कितना पानी पी सकती हो देखूँगा। क्या रिश्तेदारों में ब्रह्मपुत्र रो अधिक पानी है?' देश छोड़कर जाने के उनके प्रस्ताव को न समझ, न सास, न पति, यहाँ तक कि अपनी कोख के जाये बेटे सुरंजन ने भी नहीं माना। लाचार होकर किरणमयी को इस परिवार के संस्कारों की मानकर चतना पड़ा। इसके दौरान किरणमयी ने पाया कि इस परिवार के सुख-दुःख, सम्पन्नता-विपन्नता के साथ खुद को उसने सुधामय से ज्यादा जोड़ लिया है।

किरणमयी ने अपने हाथ के दोनों कंगाल हरिपद डाक्टर की पली को बेच दिये। घर के किसी व्यक्ति को यह जानने नहीं दिया है। इन बातों को कहने में रखा ही क्या है। सोना-चाँदी इतनी मूल्यवान वस्तु तो नहीं है जिसे आवश्यकता पड़ने पर बेचा न जा सके। सुधामय का स्वस्थ होना इस वक्त ज्यादा अहमियत रखता है। इस व्यक्ति के प्रति कब से इतना प्यार जन्मा है, किरणमयी समझ ही नहीं पाती। उस इकहत्तर के बाद से तो सुधामय को वह अंतरंग रूप से नहीं पा सकी। बीच-बीच में सुधामय कहते हैं, 'किरण शायद मैंने तुम्हे बहुत ठगा है, है न?'

किरणमयी समझती है, सुधामय 'किस तरह' के ठगने की बात करते हैं। वह चुप रहती है। क्या कुछ वह कहेगी, यानी कहेगी कि नहीं, मैं कब टभी गई? वह कह नहीं सकती। उसे कहने को कुछ नहीं मिलता। सुधामय तम्बी सौस छोड़कर कहते,

और दुकड़े-दुकड़े में शान्ति जुलूस तो निकल ही रहा है। जुलूस में नारा लगाया जा रहा है: 'निजामी-आडवाणी भाई-भाई, एक रस्सी में फौंसी चाई (चाहता हूँ)'। आज साम्प्रदायिकता के विरुद्ध सर्वदलीय शान्ति सभा है। सुना है, ब्रिटेन के मंदिर में भी हमला हुआ है। तुफैल अहमद ने भोला से घूमकर आने के बाद कहा है, भोला में बी० डी० आर० भेजना चाहिए। उन इलाकों की परिस्थिति खराब है।'

'क्यों, सब जलकर राख हो जायेगा तो बी० डी० आर० जाकर वहाँ क्या करेगी ? राख के ढेर को इकट्ठा करेगी। कहाँ था तुफैल छह तारीख की रात को ? उसी रात में उसने क्यों प्रोटेक्शन का इन्तजाम नहीं किया ?'

सुरंजन उत्तेजित हो गया। बोला, 'अवामी लीग को तुम इतना शरीफ मत समझो!'

'यह भी तो हो सकता है कि इस सरकार को दोषी ठहराने के लिए अवामी लीग ने दंगा रोकने की कोशिश नहीं की ?'

'मालूम नहीं हो सकता है। सभी को तो वोट की जरूरत है। इस देश में वोट की राजनीति चलती है, यहाँ पर आदर्श-वादर्श कोई नहीं देखता। छल-वल-कौशल से वोट लेने से मतलब है। अवामी लीग ने तो सोचा है कि हिन्दुओं का वोट उसे ही मिलेगा। 'रिजर्व वैंक' या क्या कहते हैं, कहाँ-कहीं पर तो उसे भी उन लोगों ने लूटा है।'

'कहाँ-कहाँ ऐसा भी हुआ है कि जिन इलाके से अवामी लीग चुनाव में जीतती है, उसमें बी० एन० पी० के लोगों ने ही हिन्दुओं के घरों को लूटा है, मंदिरों को तोड़ा है और जला दिया है। यह भी कहा कि जिनको वोट देते हो, वे लोग अभी कहाँ हैं ? इसी तरह बी० एन० पी० जहाँ जीतती है, वहाँ पर अवामी लीग द्वारा ऐसा किया गया। भोला में बी० एन० पी० के लोगों ने किया है। इधर महेशखाली, उधर मानिकगंज में अवामी लीग के लोगों ने किया है।'

'राजनीति का मामला तो है ही। लेकिन कट्टरपंथियों को साथ लिये विना कहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सुना है आज सभी अखबारों में एक ही सम्पादकीय निकलता है ? उसमें भी क्या साम्प्रदायिक सद्भाव की अपील की गई है ?'

'क्या आप अखबार नहीं पढ़ते ?'

'इच्छा नहीं होती।'

इस वक्त माया कमरे में आयी। टेबल पर एक लिफाफा रखा। बोली, 'माँ ने दिया है, कहा है, जरूरत नहीं है।'

माँ ने क्या दिया है,, पूछने से पहले ही माया चली गयी। सुरंजन ने लिफाफा खोलकर देखा। उसमें कल रात के दो हजार रुपये हैं। सुरंजन का चेहरा अपमान से लाल हो गया। क्या यह किरणमयी का अहंकार है ? या फिर उसने सोचा कि वेरोजगार लड़का है, कहाँ से चोरी-डकैती करके लाया होगा ? अभिमान और लज्जा से सुरंजन को फिर कुछ बात करने की इच्छा नहीं हुई। विरुपाक्ष के साथ भी नहीं !

किरणमयी के पिता ब्राह्मणवाड़ी के जाने-माने व्यक्ति थे। बहुत बड़े वकील। उनका नाम था अखिल चन्द्र वसु। सोलह साल की तड़की की डाक्टर से शादी करके पूरे परिवार को सेकर कलकत्ता चले गये थे। उन्होंने सोचा था कि बेटी और दामाद भी किसी समय कलकत्ता चले आयेगे। किरणमयी ने भी सोचा था कि एक-एक कर जब पिता, माँ, ताऊ, चाचा, बुआ, मामा-मीसी, करीब-करीब सभी चले गये तो वह भी शायद चली जायेगी। लेकिन वह एक अद्भुत परिवार में आ पड़ी है, सास-सासुर के साथ मात्र छह वर्षों तक रही है। इन छह वर्षों में उसने अपनी आँखों के सामने रिश्तेदार, पड़ोसियों, जान-पहचान के तोगों को बोरिया-विस्तर बाँधते देखा है। फिर भी इस परिवार ने कभी भूलकर भी देश छोड़ने की बात नहीं सोची। किरणमयी छिप-छिपकर रोती रहती थी। इण्डिया से पिता का पत्र आता था, 'बेटी किरण, क्या तुम तोगों ने न आने का फैसला कर लिया है? सुधामय से और एक बार सोचने के लिए कहो। देश छोड़कर आना तो हम भी नहीं चाहते थे। लेकिन आने के लिए बाध्य हुए। यहाँ आकर बहुत अच्छा हूँ, ऐसी बात नहीं। देश के लिए मन बहुत रोता है। फिर भी वास्तविकता को तो मानना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए सोचता हूँ। —तुम्हारा पिता।' इन चिठ्ठियों को किरणमयी बार-बार पढ़ती थी, आँसू पोछती थी, और रात में सुधामय से कहती थी, 'तुम्हारे रिश्तेदारों में काफी लोग अब यहाँ नहीं हैं। मेरे भी सारे रिश्तेदार चले गये हैं। यहाँ रहकर बीमारी में, असमय में मुँह में एक बूँद पानी डालने को कोई नहीं मिलेगा।' सुधामय विद्रूप भरी हँसते हुए कहते, 'तुम पानी की इतनी कंगाल हो। तुम्हें पूरा ब्रह्मपुत्र दे दूँगा। कितना पानी पी सकती हो देखूँगा। क्या रिश्तेदारों में ब्रह्मपुत्र से अधिक पानी है?' देश छोड़कर जाने के उनके प्रस्ताव को न ससुर, न सास, न पति, यहाँ तक कि अपनी कोख के जाये बेटे सुरंजन ने भी नहीं माना। लाचार होकर किरणमयी को इस परिवार के संस्कारों को मानकर चलना पड़ा। इसके दौरान किरणमयी ने पाया कि इस परिवार के सुख-दुःख, सम्पन्नता-विपन्नता के साथ खुद को उसने सुधामय से ज्यादा जोड़ लिया है।

किरणमयी ने अपने हाथ के दोनों कंगन हरिपद डाक्टर की पली को बेच दिये। घर के किसी व्यक्ति को यह जानने नहीं दिया है। इन बातों को कहने में रखा ही क्या है। सोना-चौंदी इतनी मूल्यवान वस्तु तो नहीं है जिसे आवश्यकता पड़ने पर बेचा न जा सके। सुधामय का स्वस्थ होना इस वक्त ज्यादा अहमियत रखता है। इस व्यक्ति के प्रति कब से इतना प्यार जन्मा है, किरणमयी समझ ही नहीं पाती। उस इकहत्तर के बाद से तो सुधामय को वह अंतर्ग रूप से नहीं पा सकी। बीच-बीच में सुधामय कहते हैं, 'किरण शायद मैंने तुम्हें बहुत ठगा है, है न ?'

किरणमयी समझती है, सुधामय 'किस तरह' के ठगने की बात करते हैं। वह चुप रहती है। क्या कुछ वह कहेगी, यानी कहेगी कि नहीं, मैं कब टगी गई? वह कह नहीं सकती। उसे कहने को कुछ नहीं मिलता। सुधामय तभी सौस छोड़कर कहते, 'क्या

तुम मुझे छोड़कर चली जायेगी किरण ? मुझे बहुत डर लगता है !

किरणमयी कभी सुधामय को छोड़कर जाने की वात सोच नहीं सकती । क्या सुधामय के साथ उसका बस वही एक ही रिश्ता मुख्य है ? और सब तुच्छ है ? तुच्छ हो जायेगा पैंतीस वर्ष एक साथ बिताया हुआ जीवन ? इतनी आसानी से म्लान हो सकता है लम्बे आनन्द-वेदना का जीवनयापन ? किरणमयी सोचती है, नहीं, मनुष्य का एक ही जीवन है । यह जीवन बार-बार नहीं मिलता । जीवन में कुछ दुःसहवास मान ही लिया तो क्या हुआ ! इकहत्तर से सुधामय यौन-जीवन में अक्षम पुरुष हैं । इस वात से वे किरणमणी के सामने बहुत लम्जित हैं । अक्सर गहरी रात में वे फुस-फुसाकर उसे जगा कर कहते, 'क्या तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है किरण ?'

'कैसी तकलीफ ?' किरणमयी समझकर भी न समझने का नाटक करती ।

सुधामय को कहने में हिचकिचाहट होती थी । वे अक्षमता की वेदना से तकिये में मुँह दवा लेते थे । और किरणमयी दीवार की तरफ मुँह फेरकर नींद न आने वाली रात काटती । बीच-बीच में सुधामय कहते, 'यदि तुम चाहो तो नया घर बसा सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूँगा ।'

किरणमयी के शरीर में कोई तृष्णा नहीं थी, यह वात नहीं थी ! सुधामय के दोस्त जब आते थे, उनके सामने बैठकर बातें करते थे, और उनकी छाया किरणमयी की गोद में पड़ती थी, तो किरणमयी प्रायः अपनी गोद की तरफ तिरछी नजर से देखती । हठात् उसकी इच्छा होती कि उसकी गोद की छाया यदि सच हो जाती, यदि छाया का वह व्यक्ति एक बार उसकी गोद में सिर रखता ! शरीर की वह प्यास बहुत दिनों तक उसे नहीं सता पायी । संथम-संयम में ही बीत गयी । क्या उम्र भी रुकी रहती है ! इक्कीस वर्ष देखते-ही-देखते बीत गये । इस बीच किरणमयी ने यह भी सोचा कि सुधामय को छोड़कर जिस व्यक्ति के पास जायेगी, वह भी यदि ऐसा ही अक्षम पुरुष हुआ तो ! या फिर अक्षम न होकर भी सुधामय की तरह इतना हृदयवान न हुआ तो !

रह-रहकर किरणमयी सोचती है कि शायद सुधामय उससे बहुत प्यार करते हैं । उसे साथ लिये बिना खाना नहीं खाते । मछली का बड़ा 'पीस' खुद न खाकर किरणमयी की धाली में रख देते हैं । घर पर नौकर-चाकर न रहने पर कहते हैं, 'वर्तन-वर्तन माँजना हो तो बोलो, मैं अच्छा वर्तन माँज लेता हूँ ।'

शाम को यदि किरणमयी उदास बैठी रहती तो सुधामय कहते, 'किरण, तुम्हारे बाल उलझ गये हैं, आओ, मैं सुतझा दूँ । आज शाम को 'रमना भवन' में जाकर अपने लिए दो अच्छी साड़ियाँ खरीद लेना । तुम्हारे पास घर में पहनने लायक कपड़े नहीं हैं । किरण, मेरे पास यदि रुपये रहते तो तुम्हारे लिए एक बड़ा मकान बनवा देता । तुम उस घर के ऊँगन में खाली पैर धूमतीं और पूरे घर के आस-पास फल-फूल के पेड़-पौधे लगातीं । मौसमी सब्जी लगातीं, फूल उगातीं । सेम की लता में सेम, लौकी के पौधे में तौकी, खिड़की के पास रातरानी । दरअसल तुम ब्रह्मपत्नी के मकान में ही

जैंचती थी। लेकिन मेरी समस्या क्या है, जानती हो? मैं रुपये कमाने की ताइन में गया ही नहीं। अगर चाहता तो रुपये न कमा पाता, ऐसी बात नहीं। मेरा मकान, मेरी सम्पदा को देखकर तुम्हारे पिता ने मुझ से तुम्हारी शादी की थी। वह घर अब नहीं रहा, न ही सम्पदा रही। काफी हद तक 'हँड टु माउथ' जैसी स्थिति है। इस बात को लेकर मुझे कोई दुःख नहीं। शायद तुम्हें कष्ट होता है, किरण!

किरणमयी समझती थी कि यह सरल, सीधा, निरीह व्यक्ति उसे बेहद प्यार करता है। किसी अच्छे इन्सान को प्यार करके यदि जीवन में छोटी-मोटी चीजों का त्याग करना पड़े, या फिर छोटा-मोटा ही क्यों, कोई बड़ा त्याग भी करना पड़े तो इसमें हानि ही क्या है? किरणमयी अट्राईस वर्ष की उम्र से एक अतृप्ति शरीर के अन्दर पाल रही है। लेकिन मन में जो प्यार का एक समुद्र उफन रहा है, उसका पानी उसके शरीर की इस बीमारी को, ध्यान-वेदना को बार-बार धो डालता है।

सुरंजन ने रुपये दिये हैं। शायद कहीं से उधार लिया है। वह कमा नहीं सकता, इसलिए सम्भवतः एक हीन मानसिकता ढो रहा है। लेकिन अब भी किरणमयी की पीठ दीवार से सटी नहीं है। अब भी कुछ दिनों तक परिवार को खींचने लायक दैसे उसके पास हैं। सुधामय ने अपने पास कभी एक पैसा तक नहीं रखा। अपनी कमाई का पूरा पैसा किरणमयी के हाथ पर रख देते थे। इसके अलावा सोना-गहना भी अब तक कुछ बचा है उसके पास। वह माया के हाथों सुरंजन को वह रुपया लौटाती है। किरणमयी समझ नहीं पायी थी कि रुपये वापस करने से उसे दुःख होगा। अचानक कमरे में घुसकर सुरंजन ने कहा, 'सोच रही हो कि चौरी-डकैती करके रुपये लाया हूँ? या फिर बेरोजगार लड़के से पैसे लेने में तकतीफ होती है? मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मेरी भी तो इच्छा होती है कुछ करने की। क्या तुम लोगों को यह नहीं समझना चाहिए था?'

किरणमयी चुपचाप बैठी रही। सुरंजन की एक-एक बात उसकी छाती में चुम रही थी।

सुरंजन, रला के घर की घंटी बजाता है। रला ही दरवाजा छोलती है। उसे देखते वह हैरान नहीं होती। मानो सुरंजन आने ही वाला था। वह सीधे उसे सोने वाले घर में ले जाती है, मानो उसके साथ कितने दिनों का रिश्ता है। रला ने बंगाली ढंग साड़ी पहनी हुई है। उसके माथे पर सिन्दूर की एक ताल बिन्दिया होने से वह अच्छा लगता। इसके साथ यदि मौंग मेरे सिन्दूर की एक पतली तर्कार ईंट है तो सुरंजन को ढकोसते पसंद नहीं, लेकिन शख की चूड़ियाँ, सिन्दूर, ईंट के बड़े आदि बंगाली परम्परा उसे आकृष्ट करती है।

उसके घर में पूजा-पाठ की बिल्कुल मनाही थी। तेकिन एक साध मिलकर पूजा देखने जाना, आरती के समय शौकिया नाच, पूजा-भण्डप में गाने के साध धुन मिलाकर गाना, नारियल के दो-चार लड्ढ खाना, इन चीजों पर कभी जापति नहीं थी।

रला उसे वैठाकर चाय बनाने गई है। 'कैसे हैं' के अलावा उसने एक भी शब्द नहीं बोला है। सुरंजन ने भी कुछ नहीं कहा। उसे कहने के तिए बातें ही नहीं मिलतीं। वह प्यार करने आया है। आयरन किया हुआ शर्ट पहने बहुत दिनों बांद 'सेव' करके नहाकर बदन पर सुगंधित पाउडर छिड़कर आया है। बूढ़े माँ-बाप, बड़े भाई और रला, इन्हीं लोगों को मिलाकर यह परिवार है। भाई की पली और बेटे-बेटी भी हैं। उनके बच्चे इधर-उधर धूम रहे हैं। यह नया आदमी कौन है, यहाँ क्या चाहता है आदि-आदि सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिलता, इसलिए वे दरवाजे से बहुत दूर भी नहीं जाते। सुरंजन सात वर्ष की एक लड़की को बुलाकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वह जल्दी से जवाब देती है—मृतिका।

'वाह, बहुत सुन्दर नाम है तो! रला तुम्हारी क्या लगती है?'

'बुआ'

'अच्छा।'

'तुम शायद बुआ के दफ्तर में नौकरी करते हो?'

'नहीं, मैं कोई नौकरी-बौकरी नहीं करता। धूमता रहता हूँ।'

'धूमता रहता हूँ' शब्द मृतिका को बहुत पसंद आया। वह और कुछ कहे, इतने में रला अन्दर आती है। हाथ में ट्रे है, ट्रे में चाय-बिस्कुट, नमकीन, दो तरह की मिठाई थी।

'क्या बात है, हिन्दुओं के घर में तो आजकल खाना-वाना मिलना सम्भव नहीं। वे तोग तो घर से बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं। और आप तो यहाँ पर पूरी दुकान खोलकर बैठी हैं। तो सिलहट से कब आयीं?'

'सिलहट नहीं। मैं हीवरगंज, सुनामगंज, मौलवी बाजार गई थी। मेरी आँखों के सामने हीवरगंज माधवपुर बाजार के तीन मंदिरों को तोड़ा गया।'

'किन लोगों ने तोड़ा?'

'टोपी, दाढ़ी वाले मुल्ता तोग थे। इसके बाद बाजार के काती मंदिर को तोड़ा गया। तपनदास गुहा मेरे रिश्तेदार हैं, पेशे से डाक्टर हैं, उनका चेम्बर भी लूटकर तोड़ दिया गया। ८ तारीख को सुनामगंज में दो मंदिर तोड़ दिये गये। ९ तारीख को चार मंदिर और पचास दुकानों को तोड़कर तूटा गया। फिर जता दिया गया। ब्राह्मण बाजार की सात दुकानों को तूटा गया।'

'अवश्य ही हिन्दू दुकानों को!'

रला हँसकर बोती, 'यह भी कोई कहने की बात है।'

चाय-नमकीन बढ़ाते हुए रला बोती, 'कहिए तो, क्या इस देश में रहना और मुमकिन

होगा ?'

'क्यों नहीं ? क्या यह देश मुसलमानों के बाप की जागीर है ?'

रला हँसती है। उसकी हँसी में उदासीनता की झलक है। कहती है, 'सुनते हैं, भौता में लोग अँगूठे का निशान लगाकर जमीन-ज्यादाद बेचकर चले जा रहे हैं। किसी को धोड़ा-बहुत पैसा मिल रहा है, किसी को कुछ भी नहीं।'

'भौता से कौन लोग जा रहे हैं ? हिन्दू ही तो ?'

'जाहिर है !'

'तो फिर इसका उल्लेख क्यों नहीं कर रही हो ?' सुरंजन नमकीन छाते-छाते बोला।

'हिन्दू' शब्द का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी सुरंजन की इच्छा है कि जो जा रहे हैं, वे हिन्दू हैं, जिनको तूटा जा रहा है, वे भौता या हवीबगंज के लोग नहीं, सिर्फ, हिन्दू हैं, यह बात रला को समझाये।

रला क्या समझती है, पता नहीं। वह गम्भीर दृष्टि से सुरंजन को देखती है। वह सोचकर आया था कि किसी तरह का पर्दा किये बिना आज वह रला को कहेगा, 'आप मुझे बहुत अच्छी तरही हैं, अगर शादी करना चाहती हैं तो कहिए, कर तेता हूँ।'

रला पानी लाने के लिए उठती है। उसकी साझी का आँचल सुरंजन के बायें हाथ से छूते हुए चला गया। उसकी बाँह में वह स्पर्श लगा रहा। अच्छा, रला अगर चाहे तो उसकी पली बन ही सकती है। अपने आवारा जीवन को एक परिवार में बांधना चाहिए सिर्फ इसीलिए वह शादी करना नहीं चाहता। सारा दिन लेटे-स्टेटे वह रला की उंगलियों से छेत पायेगा, छेलते-छेलते बघपन की बातें करेगा फिर ऐसा होगा कि दोनों के बीच अनजानी कोई बात नहीं रहेगी, कोई दीवार नहीं। असल में वह उसकी पली नहीं, दोस्त बनेगी।

रंला की गहरी दो आँखें क्या चाहती हैं ? सुरंजन हँडबड़ा जाता है। कह दैठता है, 'देखने आया था कि अक्षत हैं या नहीं ?'

'अक्षत ? 'अक्षत' के दो अर्थ होते हैं, नारी के लिए एक और पुरुष के लिए दूसरा। क्या देखने आये थे ?'

'दोनों ही !'

रला हँसकर सिर झुका लेती है। उसके हँसने पर शायद भौती नहीं विष्वारते, सेकिन अच्छी लगती है। सुरंजन उसके चेहरे से नजर नहीं हटाना चाहता। क्या उसकी उम्र ज्यादा हो गयी है ? इस उम्र के लड़के बहुत बूढ़े-बूढ़े शादी के लिए विलक्षण बेजोड़ लगते हैं क्या ? सोचते हुए सुरंजन ने ध्यान दिया कि रला उसे देख रही है। उसकी दृष्टि में भौह का नशा है।

'आपका वह शादी न करने दन फैसला अब तक कायम है ?' रल

पूछती है।

कुछ समय लेने के बाद सुरंजन कहता है, 'जीवन नदी की तरह है, जानती हैं न ? नदी कहीं रुक सकती है ? फैसला भी उसी तरह हमेशा अटल नहीं होता । बदलता रहता है !'

'सुनते हैं, वाहर हिन्दुओं पर साम्प्रदायिक आक्रमण हो रहा है और इस चरम परिस्थिति में ।' रत्ना हँसते-हँसते बोली, 'वच गये !'

सुरंजन ने नहीं पूछा कि 'वच गये' का अर्थ क्या है । वह समझ गया । रत्ना उसे एक स्वच्छ आनंद दे रही है । उसका मन हुआ कि वह रत्ना की पन्नती-पतली ऊँगलियाँ छूकर कहें, चलिए, आज साल-वन में धूमने चलें । हरी धास पर सारी रात लेटे रहें । चाँद हमें पहरा देगा । चाँद से हम उसकी चाँदनी छिपाने के लिए नहीं कहेंगे । सुरंजन सीढ़ी के पास जाकर सोचता है कि दरवाजा पकड़कर खड़ी रत्ना से वह कहेगा, 'अपने अटल फैसले को बदलकर, चलिए दोनों मिलकर कुछ करते हैं ।'

लेकिन सुरंजन कह नहीं सका । रत्ना दो सीढ़ियाँ उतरकर बोली, 'फिर आइएगा । आपके आने से लगा कि बगल में खड़ा होकर सहारा देनेवाला कोई एक तो है । एकदम अकेली नहीं हो गई ।'

सुरंजन स्पष्ट समझ रहा था कि परवीन के लिए उसके मन में जैसा होता था, वह चंचल गोरेराया उसे जिस तरह सुख में बहाकर ले जाती थी, उसी प्रकार के सुख की अनुभूति उसे अब भी हो रही है ।

सुरंजन सुबह चाय के कप के साथ अखबार भी उठाता है । आज उसका मन बहुत अच्छा है, रात में नींद भी अच्छी आई । वह अखबार पर आँखें फेरने के बाद माया को बुलाता है ।

'क्यों रे, तुझे हुआ क्या है ! इतना मन मारकर क्यों रहती हो ?'

'मुझे क्या होगा ! तुम ही तो चुप हो गये हो । एकवार भी पिताजी के पास जाकर नहीं बैठते ।'

'मुझसे वह सब देखा नहीं जाता । अच्छा, माँ ने रुपये क्यों नहीं रखे ? उनके पास बहुत रुपया है ?'

'माँ ने गहना बेचा है ।'

'यह काम उसने बहुत अच्छा किया । मैं तो गहना-बहना विल्कुल पसंद नहीं करता ।'

'पसंद नहीं करते हो ? परवीन आपा के लिए तो मोती जड़ी ऊँगूठी खरीद दिये थे !'

'वह कच्ची उम्र थी, मन रंगीन था, उतनी दुष्टि नहीं थी, इसलिए !'

'अब बहुत पक गये हो ?' माया हँसकर बोती।

माया के होंठों पर सुरंजन ने बहुत दिनों बाद मुस्कराहट देखी। उसकी हँसी को थोड़ी देर और स्थायी रखने के लिए उसने अखबार के पहले पन्ने पर छपी छबर दिखायी। बोता, 'देख रही हो ! इस शहर में शान्ति जुलूस निकल रहा है। हम लोग धर्म-वर्ण निरपेक्ष बांग्लादेश में हैं। साम्प्रदायिकता के खिलाफ डटकर छड़े हो जाओ, सर्वदत्तीय शान्ति जुलूस की ओजस्वी घोषणा। किसी भी कीमत पर अशांति पैदा करनेवालों और लुटेरों के विरोध का आह्वान। भारत में हिंसा रुक गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की मस्जिद की जमीन-बेदछली को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। नरसिंह राव ने कहा है, बाबरी मस्जिद ढूटने के लिए केन्द्र नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तरदायी है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र में अब भी सेना तैनात है। साम्प्रदायिक कट्टरपथियों के विरुद्ध वामपथियों की जेहाद की घोषणा। आज पहले पौङ्क पर सी० पी० बी० की सभा है। अवामी लीग ने कहा है, साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए शांति विरोड़ का गठन करना होगा। नगर समन्वय कमेटी ने कहा है, दंगा करने के जुर्म में निजामी कादिर मुल्ताओं को गिरफ्तार कीजिए। 'निर्मूल कमेटी' की भी आज सभा है। टेगी में सर्वदत्तीय शान्ति जुलूस है। सांस्कृतिक गठबंधन का नारा, 'साम्प्रदायिक दगावाजों का सामना करेगा अब बांग्लादेश।' पन्द्रह विशिष्ट नागरिकों का वयान है—साम्प्रदायिक सद्भाव सबका नागरिक अधिकार है। कर्नल अकबर ने कहा है, फाँसीवादी शक्ति जमात को निपिछ करना होगा। बरिशल में 'साम्प्रदायिक सद्भावना समन्वय परिधिद' का गठन। ढाका यूनिवर्सिटी की शिक्षक समिति ने कहा है कि साम्प्रदायिक सद्भाव खत्म होने से विजय के इस महीने की पदित्रता नष्ट होगी। धामराई में मंदिर तोड़ने के जुर्म में चार सौ व्यक्ति गिरफ्तार। ज्योति वसु का दुखपूर्ण वयान है कि भारत अब मुँह दिखाने योग्य नहीं रहा।'

'सिर्फ अच्छी-अच्छी छबरों को पढ़ गये ?' माया विस्तर पर पातथी मारकर बैठ जाती है। अखबार छीचकर वह बोती, 'और बाकी छबरें ? भोला में दस हजार परिवार बेघर। चट्टग्राम में सात सौ घर भस्मीभूत। किशोरगंज में मंदिरों की तोड़फोड़। पिरोजपुर में 144 धारा तागू। सीता कुण्ड मीर सराय में सात सौ परों में आग लगा दी गई।

'आज कोई दुरी छबर सुनना नहीं चाहता। आज मेरा मन अच्छा है।'

'क्यों परवीन आपा डायेवोर्स ले रही है इसलिए ? कत आयी थी, कह रही थी उसका पति उसे रोज रात में पीटता है।'

'अब क्यों ? मुसलमान से शादी करके, सुना है, आपा को शान्ति है ? अरे नहीं रे, परवीन नहीं। मेरा मन तो कहीं और रमा है। इस बार मुसलमान नहीं, त शादी से पहले रुआसें स्वर में वह न कह पाये कि तुम धर्म नदत तो।' मार

लगती है। काफी दिनों बाद माया हँस रही है। सुरंजन अचानक गंभीर होकर कहता है, 'पिताजी की हालत अब कैसी है? जल्दी ही ठीक हो जायेंगे न?'

'पहले से अब ठीक हैं। अच्छी तरह से बात कर पा रहे हैं। सहारा देकर बाथरूम में ले जाती हूँ। हल्का खाना भी खा रहे हैं। अच्छा याद आया, कल शाम को बेलाल भाई आये थे, तुम्हें पूछ रहे थे। पिताजी को देख गये। वे कह गये कि तुम बाहर मत जाना। बाहर निकलना अभी ठीक नहीं है।'

'ओह !'

सुरंजन अचानक एक झटके में खड़ा हो जाता है। माया कहती है, 'क्या बात है? कहीं जा रहे हो, लगता है !'

'मैं घर पर बैठे रहनेवाला लड़का हूँ क्या ?'

'तुम्हारे बाहर जाने पर माँ बहुत चिन्तित रहती है। भैया तुम मत जाओ। मुझे भी बहुत डर लगता है।'

'पुलक को रुपये लौटाने हैं। तुम्हारे पास कुछ पैसा होगा? तुम तो कमाने वाली लड़की हो। दो न, अपने फण्ड में से सिगरेट खरीदने के लिए कुछ पैसा !'

'ऊँह, सिगरेट के लिए मैं पैसा नहीं दूँगी। तुम बहुत जल्दी मर जाओ, यह मैं नहीं चाहती !'

माया ने कहा जरूर, लेकिन अपने भैया के लिए एक सौ का नोट ले आयी। बचपन में यही माया एक बार रो-रोकर अपने कपड़े तक भिंगा चुकी है। उसे स्कूल की लड़कियाँ चिढ़ाती थीं—'हिन्दू-हिन्दू तुलसी पत्ता, हिन्दू खाता गाय का माथा।' माया घर लौटकर रो-रोकर सुरंजन से पूछी थी, 'क्या मैं हिन्दू हूँ? क्या मैं हिन्दू हूँ भैया ?'

'हाँ !' सुरंजन ने कहा था।

'मैं और हिन्दू नहीं रहूँगी। वे सब मुझे हिन्दू कहकर चिढ़ाती हैं।'

सुधामय सुनकर बोले थे, 'तुम हिन्दू हो, किसने कहा? तुम मनुष्य हो। मनुष्य से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं।' सुधामय के प्रति श्रद्धा से सुरंजन का सिर झुक जाता है। उसने इतने आदमी देखे हैं पर सुधामय की तरह आदर्शवादी, तर्क-बुद्धि सम्पन्न मनुष्य उसने बहुत कम देखे हैं। वह यदि किसी को ईश्वर मानेगा भी तो सुधामय को ही। इतने उदार, सहनशील, विवेकवादी मनुष्य इस जगत् में कितने हैं?

चौंसठ में सुधामय ने खुद नारा लगाया था, 'पूर्वी पाकिस्तान डंटकर खड़े होओ।' उस दिन का वह दंगा बढ़ नहीं पाया। शेख मुजीब ने आकर रोक दिया था। अयूब सरकार के विरुद्ध आन्दोलन बढ़ न पाये, इसी कारण सरकार ने खुद ही दंगा करवाया

या। सरकार विरोधी आन्दोलन के जुर्म में छात्र और राजनीतिक नेताओं के विळद्ध फौजदारी मामले दायर किये गये। सुधामय उस मामले के एक मुजरिम थे। सुधामय अतीत को लेकर सोचना नहीं चाहते थे। फिर भी अतीत उनके मन पर नग्न होकर खड़ा हो जाता है। 'देश-देश' करके देश का क्या हुआ? कितना कल्याण हुआ? पचहत्तर के बाद से यह देश साम्प्रदायिक कट्टरपंथियों की मुद्दी में चला जा रहा है। सब कुछ जानवृक्षकर भी लोग अचेतन स्थिर हैं। क्या ये जन्म से चेतनहीन हैं? इनके शरीर में क्या वह खून नहीं बह रहा है जो 1952 में बांग्ला राष्ट्रभाषा की धौंग को लेकर रास्ते में उत्तरा, 1969 में जन उत्थान का खून, 1971 में 30 लाख सोनों का खून? वह गर्भजीशी कहाँ? जिसकी उत्तेजना से अभिभूत होकर सुधामय आन्दोलन में कूद पड़ते थे? कहाँ हैं अब वे छौतते हुए रक्त वाले तड़के? क्यों वे अब सौंप की तरह शीतल हैं? क्यों धर्मनिरपेक्ष देश में साम्प्रदायिक कट्टरपंथी अपना हौटा गाड़े हुए हैं? क्या कोई नहीं समझ पा रहा है कि कितना भयंकर समय आ रहा है? सुधामय अपनी पूरी ताकत लगाकर विस्तर से उठना चाहते हैं। लेकिन नहीं उठ सकते। उनका चेहरा देदना, असमर्थता, आकोश से नीता पड़ जाता है।

अयूब खान का 'शत्रु सम्पत्ति कानून' अवामी तीग के कानून मंत्री ने फिर से संसद में बहाल कर दिया। उसका नाम अवश्य बदल दिया था। उन्होंने नाम रखा, अर्पित सम्पत्ति कानून। जो हिन्दू देश छोड़कर चले गये, उनकी सम्पत्ति 'शत्रु सम्पत्ति' होती थी। सुधामय के चाचा, मामा, ताज़ क्या देश के शत्रु थे? इस ढाका शहर में ताज़ व मामा के बड़े-बड़े मकान थे। सोनार गाँव, नरसिंदी, किशोरांज, फरीदपुर में भी मकान थे। इनमें से कोई कोंतेज बन गया, कोई पशु अस्तात, कोई परिवार कल्याण आफिस तो आयकर रजिस्ट्री आफिस। अनित काका के घर बचपन में सुधामय आते थे। रामकृष्ण रोड के विशाल मकान में दस घोड़े थे। अनित काका उन्हें घोड़े पर बैठते थे। वही सुधामय दत्त अभी टिकादुती के एक अंधेरे, सीतनवाते घर में दिन काट रहे हैं। लेकिन पास ही में उनके चाचा का घर है, जो अब सरकार के नाम पर है। 'अर्पित सम्पत्ति कानून' अगर बदलकर 'सम्पत्ति उत्तराधिकार कानून' बनता तो कई हिन्दुओं की दुर्दशा दूर हो जाती। सुधामय ने यह प्रस्ताव अनेक बड़े-बड़े लोगों के समक्ष रखा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे अपने अचल-अपाहिज जीवन में आजकल क्लांति अनुभव कर रहे हैं। जिन्दा रहने का कोई अर्थ दूँढ़ नहीं पाते। वे जानते हैं कि इस विस्तार पर निःशब्द पर जाने से भी किसी की कोई हानि नहीं होगी। वृत्तिक तगातार रात-रात जागने और सेवा करने के दायित्व से किरणमयी को छुटकारा मिल जायेगा।

1985 के पाक-भारत युद्ध की विशेष परिस्थिति में औपनिवेशिक पाकिस्तानी शासकों के साम्प्रदायिक विद्वेष के चलते 'शत्रु सम्पत्ति कानून' बना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बांग्लादेश को चालाकी से उत्ती कानून पर टिके रहते देश

सुधारमय हैरान हैं। एक स्वतंत्र देश के लिए, वंगाती जाति के लिए क्या यह एक कलंकपूर्ण घटना नहीं है ? इस कानून ने दो करोड़ नागरिकों के मौलिक, गणतांत्रिक और नागरिक अधिकारों को छीना है। शासन ने समान अधिकार और सामाजिक समानता की नीति के विरुद्ध इस कानून को बहाल रखकर दो करोड़ नागरिकों को उनके पुश्टैनी धरों से बेदखलकर असहाय, सर्वनाशी स्थिति की ओर भेल दिया है। इसी कारण हिन्दुओं में यदि गहरी असुरक्षा की भावना पैदा हो तो इसमें हिन्दुओं का क्या दोष ? समाज की मिट्टी के अन्दर तक सम्प्रदायिकता का बीज बोया जा रहा है, वांगलादेश के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान सुरक्षा और समान अधिकार की व्यवस्था होने के बावजूद सरकार 'अर्पित (शत्रु) सम्पत्ति कानून' को बहाल रखकर संविधान का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय स्वाधीनता और सार्वभौमिकता के प्रति धोर अनादर भाव दिखा रही है। लेकिन लोकतांत्रिक वांगलादेश के संविधान में मौलिक अधिकार की यह धारा कहती है :

(26) (1) इस अनुच्छेद के नियमों के मुताबिक सभी असामंजस्यपूर्ण कानून, जितना असामंजस्यपूर्ण है, इस संविधान-परिवर्तन में उन सारे कानूनों को उतना हटा दिया जायेगा।

(2) राष्ट्र इस अनुच्छेद के किसी नियम के साथ कोई कानून बनाये जाने पर वह इस अनुच्छेद के किसी नियम के साथ असामंजस्यपूर्ण कोई कानून नहीं बनायेगा। उसी प्रकार का कोई कानून बनाये जाने पर वह इस अनुच्छेद के किसी नियम के साथ जितना असामंजस्यपूर्ण है, उतने को हटा दिया जायेगा।

(27) सभी नागरिक, कानून की नियाह में समान हैं और कानून के समान हकदार हैं।

(28) (1) सिर्फ धर्म, सम्प्रदाय, जाति, नारी-पुरुष या जन्मस्थान के कारण किसी नागरिक के प्रति भेदभाव प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

(31) कानून का आश्रय-लाभ एवं कानून के अनुसार एवं सिर्फ कानून के अनुसार उसके व्यवहार का लाभ किसी भी स्थान पर अवस्थित प्रत्येक नागरिक के एवं सामयिक रूप से वांगलादेश में अवस्थित अन्य व्यक्तियों के अविच्छेद अधिकार एवं कानून के अनुसार व्यतीत ऐसी कोई व्यवस्था की जायेगी जिससे स्वाधीनता, देह, प्रतिष्ठा या सम्पत्ति की हानि नहीं होगी।

112 नंबर धारा में स्पष्ट उल्लिखित है, "All authoritics, executive and judicial, in the Republic shall act in aid of the Supreme Court."

'पाकिस्तानी प्रतिरक्षा कानून 35 की धाराएँ इस प्रकार थीं :

a. any State, or Sovereign of a State, at war with, or engaged in military operation against Pakistan,
or

constituted under this Act shall not take charge of any evacuate property.

1. if the sole owner or act the co-sharer owners of the property object to the management of such property by the committee on the ground that he or they has or have made other arrangements for the management and utilisation of the property and if the committee is satisfied that the arrangement so made proper and adequate, or
2. if an objection is filed and allowed under this section.

—इस कानून में यह भी कहा गया है कि the property shall be vested only on the applications of the evacees and it shall be vested with the right to dispose of property as he likes.

सन् 1957 में पाकिस्तान सरकार ने इस कानून में कुछ और संशोधन जारी किये : Pakistan (Administration of evacee Property) Act XII of 1957. इस कानून में कहा गया—Properties of the person who is resident in any place in the territories now comprising India or in any area Occupied by India and is unable to occupy Supervise or manage in person his property in then Pakistan or is being Occupied, Supervised or managed by a person.' इस कानून से भी हिन्दुओं को उतनी सुविधा नहीं मिली, जितनी सुविधा East Pakistan Disturbed Persons and Rehabilitation Ordinance 1964 में थी।

सन् 1965 के पाक-भारत युद्ध के कारण पाकिस्तान सरकार ने आपात स्थिति की घोषणा की। पाकिस्तान सरकार ने 1962 के अनुच्छेद सं० 1 और 2 के मुताबिक दिये गये जनता के मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया। 6 सितम्बर, 1965 में Defence of Pakistan Ordinance number XXIII के अनुसार Defence of Pakistan Rules 1965 जारी किया। Defence of Pakistan rules 1965 की 182वीं धारा में कहा गया है—'With a View to preventing the Payment of money to an enemy firm, and to provide for the administration and disposal by way of transfer or otherwise of enemy property and matters connected therewith or incidental thereto, the Central Government may appoint a Custodian of enemy property for Pakistan and one or more Deputy Custodian and Asslt. Custodians of enemy property for such local areas as may be prescribed and may, by order-vest of provide for and regulate the vesting in the prescribed custodian such enemy property as may be prescribed.' इसके आधार पर पाकिस्तान प्रतिरक्षा कानून एक विधि के तहत सारी सम्पत्ति कानूनी तौर पर सरकार की हुई। इस सम्पत्ति के असली मालिकों की युद्धकालीन स्थिति में गिरफ्तारी या उनके इधर-उधर

जाने पर प्रतिवंध के बहते उन सम्पत्तियों की रखवाती और सुव्यवस्था के नाम पर 'शत्रु-सम्पत्ति' के मालिकों के हित व अधिकार को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए तथा बाद में उन सम्पत्तियों के असली हकदार को वापस कर दिये जाने के बादे के साथ अस्थायी व्यवस्था के बतौर पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार ने Enemy property (Custody and Registration) Order 1965 जारी किया। बाद में Enemy Property (Land and Building) Administration & Disposal Order, 1966 के अन्तर्गत इन सम्पत्तियों के यूल्य और संतिष्ठति के लेन-देन के लिए अलग-अलग ढंग से संरक्षण रहित देख-रेख और उसकी व्यवस्था का दायित्व पाकिस्तान सरकार के एक नुमाईदा को सौंपा।

पाक-भारत युद्ध के समाप्त होने के बाद पहले के कानून को जारी रखने के बहाने Enemy Property (Continuance of Emergency Provision) Ordinance-1 की तरह 1966 जारी किया। बाग्लादेश के स्थाधीनता-युद्ध में भारत की विजया घनिष्ठ होने और दोनों देशों के बीच कोई सुद्धावस्था न रहने के बावजूद राष्ट्रपति के आदेश संख्या 29/1972 अर्थात् Vesning of property and assets Order को स्थायी करार देकर शत्रु संपत्ति या पाकिस्तान सरकार के कास्टोडियन के ऊपर जो कानूनी अधिकार था, उसे बांग्लादेश सरकार को कानूनी तौर पर दिया गया। दरअसल 1979 के पाकिस्तानी शासकों ने Enemy Property (Continuance of Emergency Provision) Ordinance को बहाल रखकर जनता की मानसिक मर्यादा, सामाजिक अधिकार और समानता की प्रतिष्ठा का जो वर्चन दिया था उसका उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की तरह ही स्वतंत्र बांग्लादेश भी शत्रु सम्पत्ति की देख-रेख अत्यन्त अनैतिक ढंग से जारी रखी गयी, जनता वै माँग की उपेक्षा करके 'शत्रु-सम्पत्ति कानून' (Continuance of emergency Provision) Repeal Act XLV of 1974 जारी करके बहिष्कृत करने के नए Vested & Non-Resident Property (Administration) Act XLVI की आड़ में पाकिस्तान के जमाने में सरकार के हाथ में अर्पित मर्दाने द्वांग बांग्लादेश के जो स्थायी निवासी नहीं हैं has ceased to be permanent या विदेशी नागरिकता ले ली है ऐसे व्यक्तियों की सम्पत्ति सरकार के बाध्यम से सभी सम्पत्ति की कार्रवाई और व्यवस्था के लिए इन दोनों का निर्धारण किया गया। इस समिति को उसके ही प्रयत्न में या इन दोनों या सरकार के निर्देश से पोषित सम्पत्ति का दायित्व संभाला इन दोनों अन्तर्गत सिर्फ पाकिस्तान सरकार के समय 'शत्रु सम्पत्ति' के बाद दोनों की सूची बनाई गई थी, वही नहीं बल्कि पाकिस्तान मर्दाने द्वांग देखरेख कर्ता जिन सम्पत्तियों को अपने अधीन नहीं रखते। इन दोनों कोशिश की गई है, लेकिन कानून के तारूफ़ में नहीं हैं।

की रक्षा कर रही है।

पुराने ढाका के गली-कूँचों में घूमते-घूमते असुरंजन ने देखा कि सही-सलामत हिन्दू दुकानें ब्रंद हैं। वे दुकान खोलेंगे ही किस भरोसे पर। फिर भी नव्वे के बाद, बानवे के बाद खुली धीं। शायद हिन्दुओं के बदन का चमड़ा गैंडे के चमड़े जैसा है। तभी तो लोग जले हुए, दूटे हुए धरों को फिर बनाते हैं। टूटी हुई दुकान फिर से जुड़ती है। धर-द्वार दुकान-पाट तो मान लीजिए चूना-सीमेंट से जुड़ जायेगा। लेकिन टूटा हुआ मन क्या फिर से जुड़ेगा?

नव्वे में पटुवाटुली के ब्रह्म समाज, शांखारी बाजार के श्रीधर विग्रह मंदिर, नया बाजार के प्राचीन मठ, कायतेटुली के साँप मंदिर को लूटकर तोड़-फोड़ की गई और आग लगा दी। पटुवाटोला की प्रसिद्ध दुकान एम० भट्टाचार्य एण्ड कम्पनी, हाटैल राज, ढाकेश्वरी ज्वैलर्स, एवरग्रीन ज्वैलर्स, न्यू घोष ज्वैलर्स, अल्पना ज्वैलर्स, कश्मीरी विरियानी हाउस, स्पश्ची ज्वैलर्स, मिताली ज्वैलर्स, शांखारी बाजार का सोमा स्टार, अनन्या लाण्डी, कृष्णा हेयर इंसेर, टायर-ट्यूब रिपेयरिंग, साहा कैण्टीन, मदरघाट का भासमान होटल, 'उजाला' पंथ निवास आदि को लूटकर जला दिया। नया बाजार में शूनिसिपैलिटी की स्वीपर कालोनी को लूटकर आग लगा दी गयी। ढाका जिला अदालत की स्वीपर वस्ती को पूरा जला दिया गया। केरानीगंज का चुनकुटिया पूर्वपाड़ा हरिसभा मंदिर, काली मंदिर, भीर वाग का दुर्गा मंदिर, चन्द्रानिकार का मंदिर, पश्चिम पाड़ा का काली मंदिर, शमशान घाट, तेघटिया पूबनदीप रामकनाई मन्दिर, कालिन्दी वाड़ीशुर, बाजार दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, मनसा मंदिर आदि पर हमला हुआ, लूट-पाट हुई और मूर्तियों को तोड़ा गया। शुभट्टा खेजुरवाग के पैरीमोहन मिश्र का लड़का रवि मिश्र के मकान समेत पचास किराये के घरों में आग लगा दी गई। तेघरिया के भवतोष घोष, परितोष घोष कालिन्दी के मन्दाइल हिन्दूवाड़ा में और बनगाँव ऋषिपाड़ा में तीन सौ घरों को लूटकर तोड़-फोड़ करके आग लगा दी गई। इनमें से कुछ तो सुरंजन ने देखा है और कुछ सुना है।

सुरंजन किधर जायेगा, ठीक से समझ नहीं पाया। इस ढाका शहर में उसका अपना कौन है? किसके पास जाकर थोड़ी देर के लिए बैठेगा, वातें करेगा? आज माया ने उसे 'नहीं दौँगी' कहकर भी सौ रुपये का नोट दिया है। उसके शर्ट की पॉकेट में वह नोट पड़ा हुआ है। खर्च करने का मन हुआ। एक-दो बार सोचा कि एक पैकेट 'वांगला फाइव' खरीदे लेकिन खरीदने पर ही रुपया खत्म हो जायेगा। रुपये का मोह उसने कभी नहीं किया। सुधामय उसे शर्ट-पैंट के लिए पैसे देते थे, उस पैसे को वह यार-दोस्तों में खर्च कर देता था। कोई भागकर शादी करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, सुरंजन उसकी शादी का खर्चा दे देता था। एक बार तो अपना परीक्षा-शुल्क तक रहमत नाम के एक लड़के को दे दिया था। उस लड़के की माँ अस्पताल में धी, ट्वा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वस, क्या था तुरंत

सुरंजन ने अपनी परीक्षा की फौस का पैसा उसे दे दिया। क्या आभी एक बार वह रला के पास जाये ? रला मित्र ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शादी के बाद वह रला का टाइटिल न बदले ? लड़कियाँ क्यों शादी के बाद अपनी टाइटिल बदल देती हैं ? शादी से पहले पिता की पूँछ पकड़कर जिन्दा रहती हैं और शादी के बाद पति की, सब बकवास है। सुरंजन की भी इच्छा हुई कि वह अपने नाम के पीछे लगा 'दत्त' टाइटिल को हटा दे। मनुष्य का यह धर्म-जाति का भेद ही मनुष्य का विनाश कर रहा है। बंगाली चाहे वह 'हिन्दू' हो या 'मुसलमान' उसका नाम 'बंगाली' ही रखा जाए। कई उसने सोचा है माया का नाम 'नीलाजना माया' होने से अच्छा होता। और उसका नाम ही सकता था... क्या हो सकता था 'निविड़ सुरंजन' ? 'सुरंजना सुधा' ? 'निखिल सुरंजन' ? इस तरह का कुछ होने से धर्म की कातिख लगानी नहीं पड़ेगी। बंगाली मुसलमानों में भी अरबी नाम रखने का उत्साह दिखाई देता है। अत्यंत प्रगतिशील आदमी भी जो 'बंगाली संस्कृति' की बातें करते हुए नहीं थकता, वह भी जब अपने बच्चे का नाम रखता है तो फैसल रहमान, तौहिदुल इस्लाम, फैयाज चौधरी जैसा कुछ रखता है, क्यों जी ? बंगाली मनुष्य का अरबी नाम क्यों होगा ? सुरंजन अपनी बेटी का नाम रखेगा 'स्रोतस्विनी प्यार' अथवा 'अगाध नीलिमा'। 'अगाध नीलिमा' ही ठीक रहेगा, क्योंकि यह माया के 'नीलाजना' नाम से अच्छा मेल खाता है, अच्छा, यह नाम माया की लड़की का ही रख देंगा।

सुरंजन धलता रहा। यह इधर-उधर भटकता रहा। जब वह घर से निकला था, तब उसे लग रहा था कि उसे बहुत काम है। तेकिन बाहर निकलने पर उसे कहीं जाने की जगह नहीं मिली। मानो सभी व्यस्त हैं, सभी अपने-अपने काम पर जा रहे हैं। सिर्फ उसे ही कोई काम नहीं, उसे ही कोई जल्दी नहीं। वह इस आतंक के शहर में बैठकर किसी के साथ दो बातें करना चाहता है।

बंगाल में दुलाल के घर जायेगा क्या ? या फिर आजिमपुर में महादेव के घर ? इस्पाहानी कालोनी में काजल देवनाथ के घर भी जाया जा सकता है। कहीं जाने की बात आते ही उसे सिर्फ हिन्दू नाम क्यों याद आ रहे हैं ? कल बेलात आया था, वह बेलात के घर भी तो जा सकता है, हैदर उस दिन उसके घर से लौट गया, वह तो हैदर के घर जाकर अद्भुतवाजी कर सकता है। इन लोगों के घर जाने से वही एक घिनगारी उठेगी, बादरी मस्तिष्क। भारत में क्या हो रहा है, कितने लोगों की मौत हुई है, बी० जे० पी० नेताओं ने क्या कहा, किस-किस शहर में सेना तैनात की गयी, कौन-कौन लोग गिरफ्तार हुए, किन लोगों पर रोक लगायी गयी, भविष्य में क्या होगा आदि आदि। इन बातों की चर्चा अब और अच्छी नहीं लगती। उस देश के बी० जे० पी० जैसी है इस देश में जमाती साम्प्रदायिकता की प्रतिष्ठा। बरता दोनों देशों से यदि धर्म की राजनीति पर रोक लगा दी जाती। यहों धर्म इस तरह पत्थर की तरह जमा हआ है कि इससे तृतीय विश्व के क्षुधातुर, निरीह, उत्तीर्णित-शोषित-ग्रस्तों

को शायद मुकित नहीं मिल सकती। कार्ल मार्क्स की यह बात उसे बहुत प्रिय है, भीड़ के दीच फुसफुसाकर कहता है, 'धार्मिक क्लेश ही वास्तविक क्लेश की अभिव्यक्ति है और वास्तविक क्लेश के विरुद्ध प्रतिवाद भी। धर्म है उत्पीड़ित प्राणी की दीर्घ श्वास, हृदयहीन जगत का हृदय। ठीक उसी प्रकार जैसे वह है आत्माहीन परिवेश की आत्मा। धर्म है जनना के लिए अफीम।'

चलते-चलते वारी, नवाबपुर नया बाजार, ताँती बाजार, कोर्ट एरिया, रजनी वसाक लेन, गेंडरिया, वेगम बाजार धूम-धूमकर दोपहर बिताकर अंततः सुरंजन काजल के घर गया। वे घर पर ही थे। आजकल सारे हिन्दू घर-घर ही मिल जाते हैं। या तो घर के बाहर कहीं छिपे रहते हैं या फिर घर में ही दुबककर बैठे रहते हैं। काजल को घर-घर जाकर वह मन ही मन कहता है, अइडा मारने वाले सुरंजन के लिए अच्छा ही हुआ। काजल के घर पर और भी कई लड़के मिल गये। सुभाष सिंह, तापस पाल, दिलीप दे, निर्मल चटर्जी, अंजन मजूमदार, यतीन चक्रवर्ती, साईदुर रहमान, कबीर चौधरी।

'क्या बात है? काफी हिन्दुओं का जमघट है।'

सुरंजन की बातों पर कोई नहीं हँसा, बल्कि वह खुद ही हँस पड़ा।

'क्या बात है, तुम सब इतने उदास क्यों हो? हिन्दुओं को मारा जा रहा है इसलिए?' सुरंजन ने पूछा।

'सुभाष ने कहा, 'उदास न होने का भी कोई कारण है?'

काजल देवनाथ 'हिन्दू, बौद्ध, किशिचयन ऐक्य परिषद' में है। सुरंजन ने कभी इस परिषद का समर्थन नहीं किया। उसे लगा था कि यह भी एक साम्प्रदायिक दल है। इस दल का समर्थन करने पर धर्म के आधार पर राजनीति पर रोक लगाने का दावा उतना नहीं रह जाता। इस बात पर काजल ने कहा, 'चालीस वर्षों तक प्रत्याशा प्रतीक्षा में रहने के बाद निराश होकर अंततः आत्मरक्षा स्वनिर्भरता के कारण इस परिषद का गठन किया है।

'खालिदा ने क्या एक बार भी स्वीकारा है कि देश में साम्प्रदायिक हमला हुआ है? वे तो एक बार भी इलाकों को देखने नहीं गयीं।' महफिल के एक व्यक्ति द्वारा यह बात कहे जाने पर काजल ने कहा अवामी लीग ने ही क्या किया? विवरण दिया है। ऐसा विवरण 'जमाते-इस्लामी' ने भी पहले दिया है। पिछले चुनाव में अवामी लीग जब सत्ता में आयी तो संविधान में 'विसमिल्लाह नहीं रहेगा', कहकर एक तरह की अफवाह उड़ी थी। अब जब उन्हें सत्ता नहीं मिली, तब सोचा, आठवें एमेंडमेंट के विरुद्ध बातें करने पर लोकप्रियता घट जायेगी। अवामी लीग क्या चुनाव में जीतना चाहती है? या फिर नीतियों पर अटल रहना चाहती है? यदि अटल है तो फिर इस बिल के विरुद्ध कुछ क्यों नहीं कहा, किया?

'सोचा होगा, पहले सत्ता में तो चली आँऊँ, फिर जो परिवर्तन करने की जरूरत

होगी, किया जायेगा।' साईदुर रहमान ने अवाभी लींग के पक्ष में तर्क छाड़ा किया।

'किसी का भरोसा नहीं। सभी सत्ता में जाकर इस्लाम का गुण गायेंगे और भारत का विरोध करेंगे। इस देश में भारत का विरोध और इस्लाम, लोगों को जल्दी आकर्षित करता है।' काजल फिर सिर हिलाकर कहता है।

अचानक सुर्जन उनकी चर्चा में न जाकर अपना पुराना सवाल दोहराता है, 'काजल भैया, इस साम्प्रदायिक परिषद का गठन न करके असाम्प्रदायिक लोगों का एक दल बनाने से अच्छा नहीं होता? क्या मैं जान सकता हूँ कि इस परिषद में साईदुर रहमान क्यों नहीं हैं?'

यतीन चक्रवर्ती अपनी भारी-भरकम आवाज में बोते, 'साईदुर रहमान को शामिल न कर पाना हमारी असफलता नहीं है। असमर्थता उन लोगों की है, जिन्होंने राष्ट्रधर्म का निर्माण किया है। इतने दिनों तक तो हमें इस तरह की परिषद बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब क्यों पड़ रही है? बांग्ला देश का निर्माण यूँ ही नहीं हो गया। हिन्दू, बौद्ध, किशिचयन, मुसलमान सभी का इसमें समान त्याग है। लेकिन किसी एक धर्म को राष्ट्रधर्म घोषित करने का अर्थ होता है, दूसरे धर्म के व्यक्तियों के मन में अलगाववाद का जन्म देना। स्वदेश के प्रति प्यार किसी-से-किसी का कम नहीं है, लेकिन जो लोग देखते हैं कि इस्लाम उनका धर्म न होने के कारण राष्ट्र की नजरों में उनका पैतृक धर्म द्वितीय या तृतीय श्रेणी के धर्म के रूप में गिना जाता है, और धार्मिक साम्प्रदायिक कारण से वे द्वितीय या तृतीय श्रेणी के नागरिक में परिणत हो गये हैं, तब उनको जवर्दस्त ठेस लगती है। इस कारण यदि उनके अन्दर राष्ट्रीयतावाद के बदले साम्प्रदायिकता की चेतना प्रबल होती है, तो उन्हें दोष कैसे दिया जा सकता है?'

चूंकि सवाल सुर्जन से किया गया था, इसलिए सुर्जन धीमी आवाज में बोते, 'लेकिन आधुनिक राष्ट्र में इस तरह का साम्प्रदायिक आधार पर गठित एक संगठन के रहने का कोई तुक नहीं।'

यतीन चक्रवर्ती तुरंत ही देर न करते हुए बोते, 'लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यकों को इस तरह का संगठन बनाने के लिए कौन बाध्य कर रहा है? जो राष्ट्रीय धर्म के प्रवक्ता हैं, क्या वे नहीं? एक विशेष सम्प्रदाय के 'रितीजन' को राष्ट्रधर्म बनाने से वह राष्ट्र तो सांस्कृतिक राष्ट्र नहीं रह जाता। जिस राष्ट्र का कोई राष्ट्र धर्म हो, वह राष्ट्र किसी भी समय धार्मिक राष्ट्र घोषित हो सकता है। यह राष्ट्र तीव्र गति से साम्प्रदायिक राष्ट्र हो रहा है, यह राष्ट्रीय एकता की बातें करना हास्यास्पद है। 'आठवाँ एमेडमेंट' दरअसल बंगालियों को ठेंगा दिखाना है—अल्पसंख्यक लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वे भुक्तमोगी हैं।'

'क्या आपको लगता है कि राष्ट्र धर्म इस्लाम होना, या धार्मिक राष्ट्र घोषित होना मुसलमानों के लिए हितकर होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता।'

‘अवश्य ही नहीं होगा। इस बात को वे लोग आज भले ही नहीं समझ पायें, एक दिन समझेंगे।’

अंजन ने कहा, ‘अवामी लीग इस बक्त अच्छी भूमिका निभा सकती थी।’ सुरंजन ने कहा, ‘हाँ, अवामी लीग के बिल में भी आठवें संशोधन के बहिष्कार का प्रस्ताव नहीं है। कोई भी आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि गणतंत्र की अपरिहार्य शर्त है धर्म निरपेक्षता। मेरी तो समझ में नहीं आता कि जिस देश की जनसंख्या का 86 प्रतिशत मुसलमान है, उस देश में इस्लाम को राष्ट्र धर्म बनाने की क्या जरूरत है। बांग्लादेश के मुसलमान तो यूँ ही धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए राष्ट्र धर्म की घोषणा करने की क्या जरूरत।’ यतीन बाबू हिलडुलकर बैठते हुए बोले, ‘सिद्धान्त के मामले में कोई समझौता नहीं होता। उसके विरुद्ध कुप्रचार हो रहा है, ऐसा कहकर अवामी लीग ऐक तरह का समझौता कर रही है।’

काफी देर तक सुभाष चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। इस बार उसने कहा, ‘हम लोग जमाती और बी० एन० पी० की आलोचना न करके व्यर्थ ही अवामी लीग के पीछे पड़े हैं। क्या वे लोग अवामी लीग से अच्छा काम कर रहे हैं। काजल ने उसे रोककर कहा, ‘दरअसल जो लोग पहचानते हुए शत्रु होते हैं, उनके विषय में कहने को कुछ नहीं रहता। लेकिन जिस पर भरोसा करते हैं, उसको पतित होते देख मन को ज्यादा चोट पहुँचती है।’

कवीर चौधरी अचानक बीच में बोले, ‘धर्म निरपेक्षता के बारे में लोगों ने जो इतना कुछ कहा, ‘धर्म निरपेक्षता का मतलब सभी धर्म के प्रति एक ही तरह का विचार रखना। यहाँ पक्षपात नाम की कोई चीज नहीं। ‘सेकुलरिज्म’ शब्द का मतलब है इस जगत से संबंधित सीधे लफ्जों में राष्ट्र के साथ धर्म का कोई संबंध न होगा।

काजल देवनाथ उत्तेजित होकर बोले, ‘देश-विभाजन के समय मुस्लिम सम्प्रदायवादी जीतकर पाकिस्तान बनवा लिये। लेकिन भारत में हिन्दू सम्प्रदायवाद हार गये। और हार गये इसीलिए भारत एक आधुनिक, गणतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो पाया। भारतीय मुसलमानों के लिए इस देश के हिन्दुओं को ‘जिम्मी’ घोषित किया गया था, सिर्फ हिन्दुओं को भगाने के बहाने। इसका मुख्य उद्देश्य था हिन्दुओं की सम्पत्ति पर कब्जा करना। पाकिस्तान के समय की तरह फिर जब इस्लामी व्यवस्था की बात सुनाई पड़ती है तो हिन्दू डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र न करने पर हिन्दुओं को बचाना असम्भव है। हमारी और भी माँग है और वह है ‘शत्रु सम्पत्ति कानून को बहिष्कृत करना होगा। प्रशासन में कोई हिन्दू नहीं है। पाकिस्तान के जमाने से सचिव पद पर किसी हिन्दू की नियुक्ति नहीं हो रही है। अर्पित हिन्दुओं की संख्या बहुत कम है जो हैं भी उनकी पदोन्नति नहीं होती। जल सेना या वायु सेना में भी कोई हिन्दू है यह मुझे नहीं लगता।’

निर्भत ने कहा, ‘काजल या, हिन्दुओं में कोई विगेडियर या मेजर जनरल नहीं

है। 70 कर्नलों में 1,450 लेफिटनेंट कर्नल में 8,1000 मेजर में 40, तेरह कैप्टनों में 8,900 सैकिण्ड लेफिटनेंट में 3; 80,000 सिपाहियों में 500 हिन्दू हैं। 40,000 वी० डी० आर० में हिन्दू मात्र 300 हैं। सचिव पद पर कोई हिन्दू नहीं है।

‘क्यों कह रहे हो, बौद्ध फ्रिशियन भी तो नहीं हैं। अतिरिक्त सचिव पद पर भी तो नहीं हैं। संयुक्त सचिव हैं 134 में सिर्फ एक।

काजल ने फिर शुरू किया, ‘क्या फारेन सर्विस में एक भी अल्पसंख्यक है। मुझे तो तगता है, नहीं है।’

सुभाष भोड़े पर बैठा था। अचानक छड़ा हो गया। बोला, ‘नहीं काजल दा, नहीं है।’

कमरे में कारपेट बिछा हुआ था, सुरजन कारपेट पर एक कुशन में पीठ टिकाये बैठ गया। उसे उनकी बातचीत अच्छी तग रही थी।

कवीर चौधरी ने कहा, ‘पाकिस्तान के समय से अब तक बाग्लादेश में अवामी लीग के शासन काल में एक मात्र हिन्दू मनोरजन घर को कुछ दिनों के लिए जापान में बाग्लादेश का राजदूत बनाकर भेजा गया था।’

‘उच्च शिक्षा के लिए, विदेशों में प्रशिक्षण दिये जाने के मामते में भी हिन्दुओं से परहेज किया जाता है। कोई लाभदायक व्यवसाय अब हिन्दुओं के हाथ में नहीं है। बिजनेस करने के लिए मुसलमान साझेदार के न रहने पर हमेशा लाइसेंस भी नहीं मिल पाता। इसके अलावा शिल्प क्रांति संस्थाओं से इडस्ट्री के लिए क्रांति भी नहीं मिल पाता।’ अंजन ने कहा, ‘हाँ, मैंने खुद गारमेंट तैयार करने के लिए लाइसेंस निकालने में कितना जूता धिसवाया है।’

सुभाष बोला, ‘एक बात पर ध्यान दिये हैं, रेडियो, टेलीविजन में कुरान की बाणी सुनाकर कार्यक्रम शुरू करते हैं। कुरान को ‘पवित्र ग्रन्थ’ कहा जाता है। लेकिन गीता या त्रिपिटक से पाठ करते समय ‘पवित्र’ नहीं कहा जाता।’

सुरंजन ने कहा, ‘दरअसल कोई धर्म ग्रंथ पवित्र नहीं है। सब बदमाशी ही है। सबको फेंक देना चाहिए। माँग कर सकते हैं कि रेडियो टी० वी० पर धर्म का प्रचार बंद करना होगा।’

महफिल धोड़ी-सी ठंडी पड़ गयी। सुरंजन को चाय पीने की तलब होती है। संभवतः इस घर में चाय का कोई इतजाम नहीं है। उसे मन हुआ कि कात्तीन पर लैट जाए। लैटे-न्सेटे सबके अन्दर जो कष्ट की अनुभूति हो रही है, उसको महसूस करे।

काजल देवनाथ धर्म-पाठ के छत्र होने की बात कहते रहे कि सी भी हर कार्यक्रम में, हर सभा-समिति में कुरान का पाठ किया जा रहा है। गीता से हर कोई नहीं किया जाता? पूरे वर्ष सरकारी हिन्दू कर्मचारियों के लिए मात्र कुछ ही सुदृढ़ी की व्यवस्था है। उनको ऐच्छिक छुदृढ़ी लेने का अधिकार नहीं है। प्रतिष्ठान में मस्जिद निर्माण करने की गोष्ठी की गई है। लेकिन

की बात तो कभी नहीं कहते। प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करके मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, पुरानी मस्जिदों का निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन क्या मंदिर, गिरजा, पैगोडा के लिए एक पैसा भी खर्च किया जाता है?

सुरंजन लेटे-लेटे सिर उठाकर कहता है, 'ऐडियो, टी० वी० पर गीता से पाठ किये जाने पर आप खुश होंगे? मंदिरों का निर्माण होने पर क्या बहुत कल्याण होगा? 21वीं शताब्दी आने को है, हम आज भी समाज, राष्ट्र में धर्म का प्रवेश चाह रहे हैं। इससे अच्छा होगा यदि आप लोग कहें कि राष्ट्रनीति, समाजनीति, शिक्षा नीति आदि धार्मिक धुसरपैठ से मुक्त रहें। संविधान में धर्मनिरपेक्षता चाहते हैं, इसका मतलब तो यह नहीं कि कुरान पढ़ने पर गीता भी पढ़ना होगा। हमें चाहना यह होगा कि समस्त राष्ट्रीय कार्य कलापों में धार्मिक प्रवेश रुके। स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी में कोई धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक प्रार्थना, पाठ्य पुस्तकों में किसी धार्मिक नेता की जीवनी को प्रतिबंधित करना होगा। धार्मिक कार्यकलापों में राजनीतिक नेताओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करना होगा। यदि कोई नेता धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेता है या आयोजन में सहायता करता है तो उसे दल से बहिष्कृत किया जायेगा। सरकारी प्रचार माध्यमों से धार्मिक प्रचार को निषिद्ध करना होगा। किसी भी आवेदन पत्र में प्रार्थी का धर्म क्या है, नहीं पूछा जायेगा।'

सुरंजन की बातें सुनकर काजल देवनाथ हँसने लगे। बोले, 'तुम भावना में कुछ ज्यादा बहे जा रहे हो। एक सेकुलर देश में तुम्हारी भावनाएँ चल सकती हैं, इस देश में नहीं चलेंगी।'

सुभाष कुछ बोलने के लिए छटपटा रहा था, मौका पाते ही बोला, आज बांग्लादेश छात्र-युवा एकता परिषद की ओर से प्रेस क्लब के सामने मीटिंग किया गृह मंत्री को ज्ञापन दिया। जिसमें क्षतिग्रस्त मंदिरों का पुनर्निर्माण, क्षतेग्रस्त घरों की क्षतिपूर्ति राशि, असहायों को मदद व पुनर्वास और दोषी व्यक्तियों को सजा देने व साम्प्रदायिक राजनीति पर रोक लगाने की माँग है।'

सुरंजन कुशन पर सिर रखकर लेटा हुआ था। उठकर बोला, 'तुम्हारी एक भी माँग सरकार नहीं मानेगी।'

कबीर चौधरी ने कहा, 'हाँ क्यों मानेंगे? वह तो पूरा-पूरा दरबारी है। सुना है, यह आदमी इकहत्तर में कानपुर विज पर छड़ा रहकर पाकिस्तानी कैम्प का पहरा देता था।'

सईदुर रहमान ने कहा, 'उस जैसे दरबारी ही तो अब सत्ता में हैं। शेख मुजीब ने इन लोगों को क्षमा किया, जियाउर रहमान ने सत्ता में बैठाया। इरशाद ने इन्हें और भी शक्तिशाली बनाया। और खालिदा जिया सीधे इन दरबारियों के जरिये गद्दी पर बैठी है।'

'काक्स बाजार की खबरें मिलीं, सेवा खोला का मंदिर तोड़ दिया गया है। एक

चितामंदिर था, उसे भी तोड़ दिया। जलाताबाद के ईदगांव बाजार का केन्द्रीय काती मंदिर, हिन्दूपाड़ा का सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, महुआपाड़ा का मनसा मंदिर, हरि मंदिर और मछुआपाड़ा के कलबघर को जमातियों ने आग लगाकर राख कर दिया। इस्लामाबाद के हिन्दूपाड़ा का सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, बोवातखाती का दुर्गा मंदिर, अद्वैत चिन्ताहरि मठ, मठाध्यक्ष का घर, साथ में और पाँच पारिवारिक मंदिरों को पूरा जला दिया। बोयाखाली का हरि मंदिर लूट लिया। चौफरदंडी में जाठ मंदिर, उह घर, दो दुकानें जलाकर राख कर दिया। हिन्दू मुहल्ले के 165 परिवारों का सब कुछ लूट लिया। बाजार की पाँच हिन्दू दुकानों को लूट लिया। वे जहाँ भी हिन्दुओं को देख रहे हैं, मार रहे हैं। हिन्दुओं के घान के घण्डार में किरासन डालकर आग लगा दे रहे हैं। उखिया की भैरववाड़ी पूरी-की-पूरी छत्म कर दी। टेकनाफेर, कातीबाड़ी, पुरोहित का घर-द्वार जलाकर राख कर दिया। सारंग के मंदिर को भी तोड़कर आग लगा दी। महेशखाली में तीन मंदिर और ग्यारह घरों को जला दिया। चार मीता स्कूलों को भी जला दिया। कालर माँ बाजार के काती मंदिर और हरि मंदिर को भी तोड़-फोड़कर जला दिया। कुतुब दिया में बढ़घोप बाजार के काती मंदिर व नटमंदिर समेत कुल छह मंदिरों में आग लगा दी गई। बाजार के चार कर्मकारों की दुकानों को लूटा है। 'अती अकवर डेइल' में 51 मछुआरों के परिवारों का सारा सामान जला डाला। कुतुब दिया में आग लगाई गई। इसमें तीन बच्चों की मौत हो गई। रामुर ईदगढ़ में सार्वजनिक काती मंदिर और मछुआ पाड़ा का हरि मंदिर तोड़कर जला दिया गया। 'फतेखांकुल' में काफी घरों को जलाकर भस्म कर दिया.....'

तापस पाल को रोकते हुए सुरंजन ने कहा, 'धूतेरे की! रखो तो अपनी जलाने-वलाने की खबर। उससे अच्छा है एक गाना गाओ।'

'गाना?' महफिल के सभी हैरान हुए। ऐसे वक्त में भी गाना गाया जाता है क्या? क्या यह दिन दूसरे दिनों की तरह है? सारे देश में हिन्दुओं के घर-द्वार मंदिर दुकान लूटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, जलाया जा रहा है। और सुरंजन को गाना सुनने की इच्छा हो रही है।

अचानक गाने का प्रसंग छोड़ते हुए सुरंजन कहता है, 'बहुत भूख लगी है काजत दा। भात खिलायेंगे?'

'इस वक्त भात।' उनमें से एक-दो हैरान हुए।

सुरंजन को भर पेट भात खाने की इच्छा हो रही है, एक थाली भात, मछती व साथ। मिनमिनाती हुई मक्खियाँ धूम रही हैं। वह बायें हाथ से मक्खियों को भर दें। और दाहिने हाथ से छाना छायेगा। उसने अपने ब्राह्मणपाली के मकान में ईर्झ रमरतिया को इस तरह से खाते हुए देखा था। रमरतिया राजबाड़ी स्कूल ल इर्झ था। एक दिन स्कूल में माया का पेट गडबड़ा गया था, वह छोटी-सी बच्चे ल इर्झ समझती थी कि उसे दौड़कर बाथरूम जाना चाहिए। वह अपना हड्डे ल इर्झ

पीला करके मैदान में खड़ी रो रही थी। हेडमिस्ट्रेस ने तब रमरतिया को बुलाकर माया को उसके साथ भेज दिया था। किरणमयी ने उस दिन रमरतिया को भात खाने को दिया था। इतनी तृप्ति से भात जैसी चीज को खाया जा सकता है, रमरतिया को खाते हुए न देखने पर सुरंजन जान ही नहीं सकता था। और आज वह कमरे भर लोगों के सामने भात खाना चाह रहा है, क्या वह पागल हो गया है। शायद पागल नहीं हुआ है, अगर पागल हो जाता तो क्या छाती फाड़कर ऐसी रुलाई आती। कमरे में लोग गंभीर खर्च कर रहे हैं और ऐसे समय यदि वह जोर से रो पड़े तो? कितना बुरा होगा न! दिन भर वह धूप में धूमता रहा है। पुलक के घर जाने की बात थी। रुपये लौटाना होगा। माया का दिया हुआ नोट अब तक खर्च नहीं हुआ। रात में एक बार पुलक के घर जाना होगा। उसे भूख भी लगी है और नींद भी आ रही है।

सुरंजन उनींदी में सुनता है, कोई कह रहा है कि नरसिंदी के लोहरकौदा गाँव की वासना रानी चौधरी को गाँव के लोगों ने उसके घर से निकाल दिया है। वासना के बेटे को छुरा दिखाकर स्टैम्प लगे सादे कागज पर दस्तखत करवा लिया है। जाने से पहले वे लोग यह धमकी दे गये कि इस बात का किसी से जिक्र करने पर वे वासना देवी और उसके दोनों बेटों को मार डालेंगे। क्या वासना का चेहरा किरणमयी की तरह है? किरणमयी की तरह नरम, निरीह, भलामानुस? मदारीपुर के रमजानपुर गाँव में सविता रानी और पुष्पारानी का यूनुस सरदार के आदमियों ने बलात्कार किया। खुलना जिले के इयुरिया की अर्चना रानी विश्वास और भगवती विश्वास नामक दो बहनों को बाजार से लौटते वक्त वैन से जबरदस्ती खींचकर वालिद अली के घर ले जाकर बलात्कार किया गया। कौन लोग करते हैं यह सब? कौन लोग? क्या तो नाम है उनका; मधु, शौकत, अमीनुर। चट्टग्राम में पटिया के परिमलदास के लड़के उत्तम दास की बादशाह मियाँ, नूर इस्लाम, नूर हुसैन ने रात के तीन बजे घर में धूसकर हत्या कर दी। उत्तम के घरवालों ने मुकदमा किया था, फलस्वरूप उनको अब जमीन जायदाद सं बेदखल करने का षड्यंत्र चल रहा है। सिलहट के बड़लेखा विधालय की छात्रा सविता रानी दे रात में पढ़ रही थी, ऐसे वक्त निजामुद्दीन ने गुंडे साथ लेकर उसका अपहरण किया। आज तक सविता की कोई खबर नहीं मिली। बगुड़ा के मृगेन्द्र चन्द्र दत्त की लड़की शेफालीरानी दत्त का अपहरण करके जबरदस्ती उसका धर्म बदल दिया गया। इस भामते में प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। जैसोर जिले के शुड़ा और वागडांगा गाँव में हथियार लेकर चारों तरफ से धेर कर हिन्दुओं के घरों को लूटा गया। हिन्दुओं की मनचाही पिटाई की गई। ग्यारह लड़कियों को रात भर 'रेप' किया गया। फिर? फिर, शायद किसी ने जानना चाहा। जो जानना चाह रहा है क्या उसकी आँखें डर के मारे विस्फारित हो रही हैं, या फिर धृणा से कुछ और? सुरंजन की आँखें बंद हैं, उसे नींद आ रही है। उसमें यह देखने का धैर्य नहीं है कि उसे सुनने के लिए कौन कितना निजामु है कि नोवाखाली के घोषवाग इलाके

की हाविक्री दाता रह, पर्हे मोहनवालों के घर और चदन लड़के के घर दूसरे के भट्ठे हैं। जहाँपुर के जमुत हातिन ननु, जमुत रर, रद्दू सेवी डारे ने एह दिन साविक्री देदी के घर जाऊ, साविक्री देदी ने लड़कों को इन्हीं के लिए उन्होंने बनाने वेदकर जो अद्याह छ्यार रुपये रुदा था, चाहू दिल्ली लौर भिरे। लौ तोगों ने उनकी बाकी जमीन खपने नान तिढकर उन्हें भरउ दहे जाने और रिंज जान से मार डातने की धमकी दी। जाते-जाते वे बुद्धत हैं इन्होंने दै छोड़ ते गये। यदि साविक्री भारत नहीं गयी तो क्या होगा? सेवा व्यापार, नृजन बरेट। झेरपुर में सौपमारी गाँव के 360 घाता परिवार लूटटर्टीटे हैं जब्दादर है दैर छोड़कर चते गये। किशोरमंज में कटियादी के चारुदन्द दे राजार हुएटे देहन दे सरकार यतीन्द्र मोहन दे सरकार, दिनेशचन्द दे राजार के काने उन्हें जताए दस्तावेज के जरिये उस इलाके के मुसलमानों ने हादिया है। नृजन हिंदू दुर्देश के रंजन रुज भर के परिवार को जाली दस्तावेज बनाऊ रह दे तिकाहने ही डोरेस की जा रही है। रंजन की दो बहनें मातती और रमेश के राजारस्ती मुसलमान बनाऊ उनसे निकाह कर लिया। लेकिन शादी के हुआ दैर जरना घर भी बहा लिये हैं। सुरंजन को नीद आ भी रही है और नहीं भी। दहुनना नहीं चाहता फिर भी उसके कानों में किसी की आवाज आ रही है। जली भास्तर, जमुत बार, और शहीद सरदार ने बंदूक और स्टेनगन लेकर कमांडो स्ट्राइट में नारायण गंज के चतोरकुल के छह हिन्दू परिवारों का घर-द्वार सूट और लोड-फोड़ की। वे सोग सुषाष मंडल, संतोष निताई, क्षेत्रमोहन का सब कुछ छीनहर उनके पार से बैधा कर दिया।

किसी एक ने सुरंजन को पुकारा, 'उठो-उठो सुरंजन, छा तो, मात तगा दिया हो।'

शायद काजल दा ही बुला रहे हैं। माया इसी तरह पुकारती है, 'मैया आओ, छाना लगा दिया है, छा तो।' रात को वह माया के दिये नोट को तुइवायेगा। कुछ नीद की गोती लेगा। उसे लगा, वह कितने दिनों से नहीं सोया। रात होते ही उटपत्त लाटते हैं, सारे बिस्तर में खटभल भरे हैं। बचपन में सुरंजन देखता था, फिरमधी शृण-पढ़ी से ठोंक-ठोंककर खटभल मारती थी। माया से कहकर आज रात में ही कमरे के सी खटभलों को मार डातना होगा। वे सारी रात उसे काटते रहते हैं। सुरंजन का पाया स्त्र गुन्ह होने लगता है। उल्टी आती है। उनमें से किसी ने कहा, 'उगुका घर एजबाड़ी में है। संभवतः यह लापस की आवाज है, 'हमारे यहाँ तीस मरियों और उनके आसपास के मकानों में आग लगा दी गई।' तुरंत एक आवाज शाम के नामे में उन बहड़ायी, 'नोवाखाती की खबरें बताता हूँ, मुनो, मुदलपुरं गाँव में छात ..

और अधरचाँद आश्रम को लूटकर आग लगा दिया। भगनान्द गाँव में तीन घरों में लूटपाट करके आग लगा दिया। गंगापुर गाँव के तीन घरों को जलाकर राख कर दिया। रागरगाँव, दीलतपुर गाँव, धोपवाग, माइजदी, सोनारपुर काली मंदिर, विनोदपुर, अखाड़ा, चौमुहनी काली मंदिर, दुर्गापुर गाँव, कुतुबपुर, गोपालपुर, सुलतानपुर का अछण्ड आश्रम, छयानी बाजार के कई मंदिरों को तोड़ डाला। बाबूपुर तेतुइया, मेहंदीपुर, राजगंज बाजार, टेंगिरपाड़ा, काजिर हाट, रसूलपुर, जर्मीदार हाट, चौमुहनी, पीड़ावाड़ी, भवभद्री गाँव के दस मंदिरों व अठारह घरों को जला दिया। कम्पनी गंज के बड़राजपुर गाँव में उन्नीस घरों को लूटा गया और लड़कियों को लेकर अनकही घटनाएँ घटीं। रामदी गाँव में आज विष्वव भीमिक को कटार से काट दिया गया।

काश ! सुरंजन रुई से अपने दोनों कान बंद कर सकता। चारों तरफ बावरी मसिजद का प्रसंग, चारों तरफ तोड़-फोड़ और आग की वातें। काश ! सुरंजन को कोई एकांत जगह मिल पाती। इस वक्त मयमनसिंह का चले जाना अच्छा होता। इस तरह की तोड़-फोड़ वहाँ कम होती है। सारा दिन वह अगर ब्रह्मपुत्र में नहा सकता तो शायद उसके शरीर की जलन थोड़ी कम होती। वह झटके से उठकर खड़ा हो जाता है। कमरे के काफी लोग इतनी देर में चले गये हैं। सुरंजन भी जाने के लिए पैर बढ़ाता है। काजल दा ने कहा, 'टेवल पर खाना है, खा लो। असमय में सो गये। तबीयत खराब है ?'

सुरंजन ने अँगझाई लेकर कहा, 'नहीं, काजल दा, नहीं खाऊँगा। मन नहीं हो रहा। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है।'

'इसका कोई मतलब है ?'

'मतलब शायद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, बताइए न। कभी भूख लगती है तो कभी चली जाती है। खट्टी डकार आती है, आती में जलन होती है। नींद आती है लेकिन जब सोने जाता हूँ तो नींद नहीं आती।'

यतीन घकवर्ती सुरंजन के कंधे पर लाठ रखकर बोले, 'तुम दूट गये हो, सुरंजन! एमारे इस तरह से छाश होने से चलेगा? धीरज रखो। जिन्दा तो रहना ही होगा।'

सुरंजन रिर शुकाये खड़ा था। यतीन दा की वातें सुधामय की तरह लग रही थीं। अस्यस्थ पिता के माथे के पास वह कितने दिनों से नहीं बैठा था। आज और ज्यादा देर तक वह बाहर नहीं रहेगा। काजल दा के घर आने पर ऐसा ही होता है। कई तरह के लोग आते हैं। जमकर अङ्केवाजी चलती है, राजनीति, समाज नीति के विषय में गंभीर वातें आधी रात तक चलती रहती हैं। उसमें से सुरंजन कुछ सुनता है, कुछ नहीं सुनता।

टेवल पर रखा खाना छोड़कर वह चला जाता है। वहुत दिनों से उसने घर पर खाना नहीं खाया, आज खायेगा। आज भाया, किरणमयी, सुधामय के साथ वह खाना खाने वैठेगा। उसके और परिवार धालों के बीच काफी दूरी आ गयी है। दूरी पैदा

करने का कारण भी वह खुद ही है, जब और वह अपने सामने कोई दीवार नहीं रखेगा। जिस तरह आज सुबह उसका मन बहुत प्रसन्न था, वह हमेशा उसी तरह मन प्रसन्न रखेगा, सबके साथ हँसेगा, बातें करेगा, बचपन से उन दिनों की तरह, जब वे सब धूप में बैठकर पीठ खाया करते थे। तब लगता ही नहीं था कि कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र, कौन किसी का भाई या बहन, मानो सभी दोस्त हैं, बहुत नजदीकी दोस्त ! वह आज और किसी के घर नहीं जायेगा, न पुलक के घर, न रत्ना के घर। सीधे टिकादुली जाकर दाल-भात जो भी होगा, खाकर सबके साथ काफी रात तक बातें करता रहेगा। उसके बाद सोयेगा।

काजल उसे नीचे के गेट तक छोड़ने आये। बहुत आत्मीयता से बोले, 'तुम्हारा इस तरह बाहर निकलना ठीक नहीं। हम लोग इस चहारदीवारी के अन्दर जितना भी धूम फिर रहे हैं, इसके बाहर नहीं। यहाँ पर जो भी आये हैं उनमें कोई दूर से नहीं आया। और तुम हो कि अकेले शहर में धूम रहे हो। कब क्या घटना घट जाये, कहा नहीं जा सकता।'

सुरंजन कुछ न कहकर सीधे सामने की तरफ चलने लगा। जेब में पैसे हैं, आराम से रिक्शों में जाया जा सकता है। लेकिन माया के रूपये से सुरंजन को मोह हो गया है, उसे खर्च करने का मन नहीं हो रहा। उसने सारा दिन सिगरेट नहीं पीया। रूपये का मोह दिन को पीछे रखते हुए गहरी रात तक आ पहुँचा है। जब उसे सिगरेट की तलब होती है। एक दुकान पर रुककर वह एक पैकेट 'बांग्ला फाइव' खरीदता है। वह अपने आपको शाहजादा समझता है। चलते-चलते काकराइल के मोड़ पर आकर रिक्शा लेता है। मानो आजकल सारा शहर बहुत जल्द ही सो जाता है। अस्वस्य जादमी जिस प्रकार जल्दी सो जाता है। शहर भी उसी प्रकार जल्दी सो जाता है। इस शहर का रोग क्या है ? सोचते-सोचते उसे याद आया, उसके एक दोस्त को शरीर के पीछे एक फोड़ा हुआ था, वह दिन-रात चीखता था, लेकिन दवा से डरता था। इंजेक्शन देखकर तो वह बिल्कुल काँपता ही था। क्या शहर के पीछे भी इसी तरह का एक फोड़ा हुआ है। सुरंजन को बैसा ही लगता है।

'अच्छा माया, सुरंजन को हुआ क्या है ? इस बक्त वह कहाँ धूम रहा होगा, बोलो तो?' सुधामय ने पूछा।

'पुलक दा के घर जायेगे, बोल रहा था। वहाँ अइडा मार रहा होगा।'

'इसका मतलब यह थोड़े हैं कि शाम के पहले घर नहीं लौटेगा ?'

'क्या पता, समझ नहीं पा रही हूँ, तौटना तो चाहिए।'

'क्या वह एक बार भी नहीं सोचता है कि घर पर लोग चिनित होने अब

लौटना चाहिए ।

माया सुधामय को रोक देती है—

‘आप चुप हो जाइये । आपको बात करने से तकलीफ हो रही है । और आपका बात करना उचित भी नहीं है । चुपचाप सो जाइये । अभी थोड़ा-सा खा लीजिये । इसके बाद यदि कोई किताब पढ़कर सुनाना हो तो सुना दूँगी । ठीक 10 बजे नींद की गोली खाकर सो जाइएगा । इस बीच मैया जरूर लौट आयेगा, आप चिन्ता मत कीजिए ।’

तुम मुझे जल्दी से ठीक कर देना चाहती हो माया । मैं कुछ दिन और विस्तर पर पड़ा रहता । अच्छा हो जाने पर खतरा है ।

‘वह कैसे ?’ विस्तर पर बैठकर उनके लिए खाना ठीक करते हुए माया ने पूछा ।

सुधामय हँसकर बोले, ‘तुम मुँह में निवाला डाल दे रही हो, किरणमयी हाथ-पाँव में मालिश कर दे रही है । सिर दबा दे रही है । क्या मुझे ठीक हो जाने पर इतनी सेवा भिल पायेगी । तब तो रोगी देखो, बाजार जाओ, माया के साथ दोनों वक्त झगड़ा करो ।’ सुधामय हँस पड़े । माया अपलक दृष्टि से सुधामय को देखती रही । वह बीमारी के बाद आज पहली बार सुधामय को हँसते देख रही हैं ।

वे किरणमयी से कह रहे हैं, आज सब खिड़कियाँ खोल दो तो किरण । घर में इतना अँधेरा रहने से अच्छा नहीं लगता । आज थोड़ी हवा आने दो । शीत की हवा का स्वाद ही नहीं मिला । क्या सिर्फ वसंत की हवा में ही सुख है । युवावस्था में कड़ाके की सर्दी में दीवारों पर पोस्टर चिपकाया करता था । बदन पर एक पतला कुर्ता भर रहता था । मणि सिंह के साथ दुर्गापुर के पहाड़ों में धूमा हूँ । उस समय आंदोलन चोटी पर था । किरणमयी, क्या तुम ‘हाजं विद्रोह’ के बारे में कुछ जानती हो ?’

किरणमयी का मन भी आज प्रसन्न है । बोली, ‘आपने शादी के बाद कितनी बार कहा है कि नेत्रकोना के एक अपरिचित घर में मणिसिंह के साथ आपने कितनी रातें विताई हैं ।’

‘अच्छा किरण, क्या सुरंजन गरम कपड़े पहन कर गया है ।’

माया ठीक उसी ढंग से उनके उल्टा कहती है, जरे नहीं, आपकी ही तरह पतला एक शर्ट पहनकर गया है । ऊपर से वह तो ‘ए’ कालेज का क्रांतिकारी है । उसके बदन में प्रकृति की हवा नहीं लगती । वह तो युग की हवा सँभालने में व्यस्त है ।’

किरणमयी के स्वर में गुस्सा था, ‘सारा-सारा दिन कहाँ रहता है, क्या खाता है, खाता भी है या नहीं, भगवान ही जानते हैं । उसकी उच्छ्रंखलता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ।

उसी समय दरवाजे पर धीरे-धीरे दस्तक होती है । सुरंजन आ गया क्या ? सुधामय के सिरहाने किरणमयी बैठी हुई थी, दरवाजे की तरफ उठकर गई । सुरंजन ठीक इसी तरह आवाज करता है । ज्यादा रात हो जाने पर वह अपने कमरे में ही सीधे घुसता है । कभी-कभी अपने कमरे के दरवाजे में ताला लगाकर जाता है । ताला न

लगाने पर भी वह बाहर से अंदर की सिटकिनी छोलना जानता है। ज्यादा रुद्धि की नहीं हुई है इसलिए सुरेजन ही होगा। माया सुधामय के लिए गीते भात में दाल छाल रही थी। ताकि वह नरम हो जाए और सुधामय को खाने में तकलीफ न हो। क्रमी दिनों से उन्हें गीता द्याना चिलाया जा रहा है। डाक्टर 'सेफी सल्लिङ' छाना छाने के कह गये हैं। आज उनके लिए 'सिंगी मछली' का झोल बनाया गया है। माया जब दह भात में घोड़ा-सा झोल मिला रही थी, तभी उसे दरवाजे की 'खट-खट' आवाज सुनई पड़ी। किरणमयी दरवाजे के पास पहुंचकर पूछती है, 'कौन?' सुधामय कान तक लगाये हुए थे कि उधर से क्या जवाब आ रहा है।

किरणमयी के दरवाजा छोलते ही अचानक सात युवक घड़ाम से अंदर घुसे उन्हें से चार के हाथों में मोटी-मोटी लाठियाँ थीं, बाकी के हाथों में क्या है, देखने से पहले ही वे किरणमयी को लौधते हुए अंदर घुसे। उनकी उफ्र इक्कीस-बाईस की होगी। दो के माथे पर टोपी थी, पाजामा-कुर्ता पहने हुए थे। बाकी तीन पैट-शर्ट में थे। वे अंदर घुसकर किसी से कुछ बोलें विना टेवल, कुर्सी, कोच की जातमारी, टेंटीविजन, रेडियो, बर्टन, किताब, कापी, ड्रेसिंग टेवल, कपड़ा-सत्ता, पैडेस्टल फैन, जो कुछ भी सामने मिला, उन्मादी की तरह तोड़ने लगे। सुधामय ने उठकर बैठना चाहा लेकिन नहीं उठ सके। माया 'पिताजी' कहकर चीख पड़ी। किरणमयी दरवाजा पकड़कर स्तव्य छाड़ी थी। कितना बीमत्स दृश्य था। एक ने कमर से कटार निकालकर कहा, 'साता, बाबरी मस्तिश तोड़ा है। सोचते हो, तुम्हें जिन्दा छोड़ूँगा?"

पर का एक भी सामान साबुत नहीं छोड़ूँगा। सब झनझनाकर टूटने लगा। क्षणमर में सब कुछ तहस-नहस हो गया। कोई कुछ समझ पाये, इससे पहले माया भी जड़, स्तव्य छाड़ी थी। अचानक वह चिल्ला पड़ी, जब उनमें से एक ने उसका हाय पकड़कर छीचा। किरणमयी भी अपने धैर्य का बाँध तोड़ती हुई आर्तनाद कर उठी। सुधामय सिर्फ कराह रहे थे। उनके मुँह से कोई शब्द नहीं निकल पाया। अपनी आँखों के सामने उन्होंने देखा कि माया को वे लौग खीच रहे हैं। माया पलंग की पाटी पकड़कर उनसे छूटने की कोशिश कर रही है। किरणमयी दौड़कर अपने दोनों हाथों से माया को पकड़ती है। उन दोनों की शक्ति, दोनों के आर्तनाद को चीरकर वे माया को खीचकर ले गये। किरणमयी उनके पीछे-पीछे दौड़ी। चिल्लाकर कहती रही, 'बेटा, उसे छोड़ दो! मेरी माया को छोड़ दो!"

रास्ते पर दो बेबी टैक्सी छाड़ी थीं, माया के हाय में तब तक सुधामय के लिए तैयार किये जा रहे खाने का गीता दाग था। उसका दुपट्टा खुतकर जमीन पर मिर गया है। वह 'आरे माँ, आरे माँ' कहती चिल्ला रही थी। पीछे मुड़कर आकुत नयनों से किरणमयी को देख रही है। किरणमयी अपनी समूची ताकत लगाकर भी माया के छुड़ा नहीं पाती। उनकी चमकती कटार की परवाह न करते हुए भी उन दोनों के टैक्सी कर हटाना चाहती है। लेकिन असफल रही। माया तीव्र बेबी टैक्सी के दौड़े-नौड़े टैक्सी के दौड़े-नौड़े

दौड़ती रही। जो भी राह चलते मिला, कहती, 'मेरी बेटी को पकड़कर ले जा रहे हैं, जरा देखिए न, देखिए न, भैया!' चौक की दुकान पर किरणमयी रुकती है। बाल खुले हुए, नंगे पाँव, किरणमयी मोती मियाँ से बोली, 'जरा देखिएगा भैया, अभी-अभी कुछ लोग मेरी बेटी माया को उठा ले गये हैं, मेरी माया को!' सभी सहज ढंग से किरणमयी को देखते हैं। मानो कोई रास्ते की पगली है जो अनाप-शनाप बोल रही है। किरणमयी दौड़ती रही।

सुरंजन घर में घुसते हुए हैरान होता है, दरवाजा पूरा खुला हुआ है। सारा सामान विखरा पड़ा है, टेबल उल्टा पड़ा है, किताब-कापी जमीन पर बिखरी हुई है। विस्तर का गद्दा-चादर कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है। कपड़ों का ऐक दूटा पड़ा है। कपड़ा-लत्ता पूरे घर में विखरा है। उसकी साँस रुकने लगती है। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है। काँच के टुकड़े कुर्सी का दूटा हुआ था, फटी हुई किताबें, दवा की बोतलें, फर्श पर बिखरी हुई हैं। सुधामय फर्श पर औंधे मुँह पड़े हुए कराह रहे हैं। माया, किरणमयी कोई नहीं है। सुरंजन पूछने से डरता है कि घर में क्या हुआ। सुधामय नीचे क्यों पड़े हुए हैं? वे लोग कहाँ गयीं? पूछते हुए सुरंजन ने पाया कि उनका गला काँप रहा है। वह बुत की तरह खड़ा रहता है।

सुधामय धीरे से कराहते हुए बोले, 'माया को पकड़कर ले गये हैं।'

सुरंजन का सारा शरीर काँप उठा, 'पकड़कर ले गये, कौन ले गये? कहाँ? कब?'

सुधामय पड़े हुए हैं, न हिल पा रहे हैं, न किसी को पुकार पा रहे हैं। सुरंजन ने धीरे से सुधामय को उठाकर विस्तर पर लिटा दिया। वे तेज-तेज साँस ले रहे हैं, और तेजी से उनका पसीना छूट रहा है।

'माँ कहाँ है?' सुरंजन ने अस्पष्ट स्वर में पूछा।

सुधामय का चेहरा आशंका-हताशा से नीला पड़ गया है। उनका सारा शरीर काँप रहा है। 'प्रेसर' वढ़ने पर कुछ भी हो सकता है। वह अभी सुधामय को देखेगा या माया को ढूँढ़ने जायेगा कुछ तय नहीं कर पाता है। उसके हाथ-पाँव भी काँप रहे हैं, उसके सिर में मानों क्रोध रूपी जल उफन रहा है। उसकी आँखों के सामने एक झुंड खूंखार कुत्तों के बीच पड़ी एक छोटी-सी बिल्ली के चेहरे की तरह माया का चेहरा उभर आता है। सुरंजन तेजी से निकल जाता है। जाते-जाते सुधामय के निष्क्रिय हाथ को पकड़कर कहता है, 'माया को किसी भी तरह वापस ले आऊँगा पिताजी।'

सुरंजन हैदर के घर का दरवाजा जोर-जोर से खटखटाता है। इतनी जोर से कि हैदर खुद आकर दरवाजा खोलता है।

सुरंजन को देखकर चौंक उठता है। कहो, 'क्या वात है? तुम्हें क्या हुआ है?'

पहले तो सुरंजन कुछ कह नहीं पाता। उसके गले में ढेर सारा दर्द अटका हुआ है।

'माया को उठा ले गये हैं', कहते हुए सुरंजन का गता फैस रहा है। उसे और समझाने की जरूरत नहीं तुर्दि कि माया को कौन सोग उठा से गये।

'कब ले गये?'

सुरंजन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, कब से गये इसे जानने से ज्यादा जरूरी क्या यह नहीं है कि ते गये हैं? हैदर के माथे पर धिना की सकीरे उभारी हैं। पार्टी की बैठक थी, बैठक खतम कर वह अभी-अभी घर आया है। अब तक कपड़े भी नहीं बदले। सिर्फ शर्ट का बटन भर छोता है। सुरंजन बेचारगी भरी नजरों से हैदर को देख रहा है। बाढ़ में सब कुछ बह जाने के बाद इसान का धेहरा जैसा दिखता है, ठीक उसी प्रकार वह इस यक्ति दिख रहा है। सुरंजन दरवाजा पकड़कर छड़ा है। जिस हाथ से उसने दरवाजा पकड़ा है उसका वह हाथ कौप रहा है। हाथ का कौपना रोकने के लिए वह मुझी कस लेता है। हैदर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, 'तुम शांत होओ, घर में बैठो, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है।'

कंधे पर हाथ पड़ते ही सुरंजन सुबक पड़ता है। हैदर को दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, 'माया को ला दो हैदर, माया को ला दो।'

सुरंजन रोते-रोते झुकता है। झुकते-झुकते वह हैदर के पैर के पास सोट जाता है। हैदर हैरान होता है। इस्पात की तरह कठोर इस लड़के को उराने कभी रोते नहीं देखा। वह उसे उठाकर छड़ा करता है। हैदर तब तक रात का द्याना नहीं आया था, भूखा पेट। फिर भी, 'चलो' कहकर निकल पड़ा। 'हौंडा' के पीछे सुरंजन को बैठाकर टिकादुली का गली-कूदा छान मारा। सुरंजन पहचानता तक नहीं, ऐसे कफरों में पुराणा टिमटिमाती बत्ती जल रही है, ऐसी कुछ पान-बीड़ी की दुकानों में जाकर फुराफुराकर बात की। टिकादुली पार करके इंगितश रोड, नवाबपुर लक्ष्मीबाजार, लालमोहन राह स्ट्रीट, बकशी बाजार, लालबाग, सूचापुर, वाडघाट, सदरघाट, प्यारी दारा रोड, बाबू बाजार, उदूर रोड, चक बाजार—सभी जगह हौंडा दौड़ाया हैदर ने। संकरी गली के अंदर धूटने तक कीचड़-पानी से होकर एक-एक अंधेरी कोठी को छटहटा कर हैदर किरो छोज रहा था, सुरंजन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हैदर एक-एक जगह पर उतार रहा था और सुरंजन को लग रहा था कि शायद माया यहीं बित जायेगी। माया को शायद यहीं पर ये लोग हाथ-पाँव बाँधकर पीट रहे होंगे, क्या सिर्फ पीट रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं! सुरंजन कान तगाये रखता है कि कहीं से माया के रोने की आवाज सुनाई पड़ जाये।

लक्ष्मी बाजार के पास रोने की आवाज सुनकर सुरंजन हौंडा रोकने को कहता है। कहता है, 'सुनो तो, लगता है माया के रोने की आवाज है न?'

रोने की आवाज का वे अनुसरण करते हैं। लेकिन यहीं जाकर पक्की छत याते एक मकान से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है।

से एक-एक जगह की तलाश करता है। रात भी गहरी होती जा रही है। पर सुरंजन नहीं रुकता। हर गली में झुंड के झुंड आँखें लाल किये लड़के खड़े हैं। उन्हें देखकर सुरंजन को लगता है, शायद यही लोग लाये होंगे, यही लोग उसकी मायावी चेहरे वाली मासूम बहन को बंदी बनाकर रखे होंगे।

'हैदर, माया क्यों नहीं मिल रही है? अभी तक माया को क्यों नहीं ढूँढ़ पा रहे हो?'

'मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ।'

'किसी भी तरह माया आज रात के अन्दर मिलनी ही चाहिए।'

'ऐसा कोई भी गुंडा-मस्तान नहीं है जिसे मैं नहीं ढूँढ़ रहा हूँ। न मिलने पर क्या कर सकता हूँ, बोलो!'

सुरंजन एक के बाद एक सिगरेट सुलगाता है। माया के पैसे से खरीदी गयी सिगरेट।

'सुपर स्टार में चलो कुछ खा लेता हूँ, भूख लगी है।'

हैदर पराठा-मांस का आर्डर देता है। दो प्लेट। सुरंजन खाना चाहता है लेकिन पराठे का टुकड़ा उसके हाथ में ही रह जाता है। मुँह तक नहीं जाता। जितना समय बीत रहा है, उसकी छाती के अन्दर उतना ही हाहाकार हो रहा है। हैदर जल्दी-जल्दी खाता है। खाकर सिगरेट जलाता है। सुरंजन उसे जल्दी करने को कहता है, 'चलो चलते हैं, अब तक तो नहीं मिली।'

'और कहाँ खोजें, बोलो! किसी भी जगह को तो बाकी नहीं रखा है। अपनी आँखों से तो तुमने देख लिया।'

'ढाका एक छोटा शहर है। यहाँ पर माया को ढूँढ़ नहीं पायेंगे, यह भी कोई बात हुई? धाने में चलो।'

धाने में रपट लिखाने गया तो पुलिस के आदमी ने भावहीन चेहरे से रजिस्टर खींचकर नाम-धाम-पता सब लिखकर रख लिया। बस, धाने से निकलकर सुरंजन ने कहा, 'मुझे नहीं लगता, ये लोग कुछ करेंगे।'

'कर भी सकते हैं।'

'वारिक की ओर चलो चलते हैं। वहाँ तुम्हारी जान-पहचान का कोई है?'

'मैंने पार्टी के लड़कों को लगा दिया है। वे लोग भी ढूँढ़ेंगे। तुम चिंता मत करो।'

हैदर कंशिश कर रहा है, फिर भी चिन्ता रूपी तत्त्वाया उसके सारे बदन में काट रहा है। सारी रात हैदर का होंडा पुराने शहर का चक्कर काटता रहा। मस्तानों के दारु का अहा, जुए का अहा, स्पगलरों की अँधेरी कोठरियों को ढूँढ़ते-ढूँढ़ते अजान सुनाई पड़ने लगा। भैरवी राग में गाया गया अजान का स्वर सुरंजन को अच्छा लगता था। आज यह उसे बहुत बुरा लग रहा है। अजान हो रहा है, इसका मतलब है रात खत्म

होने को है। माया अब तक नहीं मिली ! टिकादुती में आकर हैदर होड़ा रोकता है। कहता है, 'सुरंजन, दिल छोटा मत करना। देखता हूँ, कल क्या किया जा सकता है !' अस्त-व्यस्त घर में बैठी किरणमयी दरवाजे की तरफ व्याकुल नजरों से देख रही है। सुरंजन माया को लेकर लौटेगा, यह सोचकर सुधामय भी अपने चेतनाहीन अंग के साथ निद्राहीन, उद्धिग्न समय बिता रहे हैं। उन लोगों ने देखा कि उनका बेटा खाती छाय वापस आया है। माया उसके साथ नहीं है। ब्लांट, व्यर्थ, नवमस्तक, उदास सुरंजन को देखकर उनकी जुबान बंद हो गई। तो क्या माया अब नहीं मिलेगी ? दोनों ही डरकर सहमे हुए हैं। घर का दरवाजा, खिड़की सब बंद हैं। किसी भी घर में रोशनदान नहीं है। घर के अंदर हवा अटकी हुई है। सीतन की महक आ रही है। वे

देर सारे सवाल हैं। सारे सवालों का तो एक ही जवाब है, माया नहीं मिली।

सुरंजन फर्श पर पैर फैलाकर बैठ जाता है। उसे डबकाई आ रही है। इतनी देर में शायद माया के साथ सामूहिक बलात्कार हो गया होगा। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि छह दर्दीय माया जिस प्रकार दो दिनों के बाद लौट आयी थी, इस बार भी लौट आए। सुरंजन ने दरवाजा खुला छोड़ दिया है, माया वापस आयेगी, माया लौट आये, वचपन की तरह उदासीन पैरों से वापस आ जाये। इस छोटे-से, घक्कत, सर्वहारा परिवार में वह लौट आये। हैदर ने वचन दिया है कि माया को और दूँढ़ेगा। वचन जब दिया है, तब सुरंजन क्या सपना देख सकता है कि माया लौटेगी ! माया को वे लोग क्यों उठा ले गये ? मागा हिन्दू है इसलिए ? और कितने बलात्कार, कितने खून, कितनी धन-संपदा के बदले हिन्दुओं को इस देश में जिन्दा रहना पड़ेगा ? कसुर्वे की तरह सिर गड़ाये ! कितने दिनों तक ? सुरंजन खुद से जवाब चाहता है। लैकिन नहीं मिलता।

किरणमयी घर के एक कोने में बैठी हुई थी, दीवार से पीछे सटाकर। किसी से नहीं, अपने आप कह रही थी, 'उन लोगों ने कहा, मौसीजी आप लोगों को देखने आये हैं, आप कैसे हैं। हम लोग इसी मुहल्ले के लड़के हैं। दरवाजा खोतिए न। उनकी उप्र कितनी होगी ? बीस-इक्कीस-बाईस, इसी तरह। मैं उनका मुकाबला कैसे करती ? मुहल्ले के घरों में कितनी गिड़गिड़ायी, सभी ने सिर्फ सुना 'च-च्च' कर सिर्फ दुःख जताया, पर किसी ने कोई भदद नहीं की। उनमें से एक का नाम राफीक है, टोपीवाले एक लड़के को पुकारते हुए सुना था। पाठ्य के घर पर जाकर छिपी हुई थी, वहाँ रहने पर वच जाती। क्या माया वापस नहीं आयेगी ? इससे तो अच्छा था, घर में आग लगा देते। मकान मालिक मुसलमान है न शायद इसीलिए नहीं जलापा। इससे तो अच्छा था पार डातते, मुझे ही भार डातते, बदले में मेरी मासूम लड़की को छोड़ जाते। मेरा जीवन तो खत्म हो ही चुका है लैकिन उसकी तो शुरूआत है।'

सुरंजन के सिर में तेजी से चक्कर जाता है। वह नल के पास जाकर हड्डाकर उल्टी करता है।

बरामदे पर धूप आकर पड़ी है। काले-सफेद रंगों की चितकबरी बिल्ती इधर-उधर धूम रही है। क्या वह मछती का कौटा ढूँढ़ रही है, या माया को ढूँढ़ रही है। माया उसे गोद में लिये धूमती रहती थी, अपनी रजाई के नीचे उसे सुताती थी, और यह भी चुपचाप उसकी रजाई में सोयी रहती थी। क्या यह जानती है कि माया नहीं है? माया अवश्य ही बहुत रो रही होगी। 'भैया-भैया' कहकर पुकार रही होगी। क्या वे तोग माया का हाथ-पाँव बाँध कर ले गये? क्या उसके मुँह में कपड़ा ढूँस दिया गया था? 'छह वर्ष' और 'इक्कीस वर्ष' एक नहीं होता। न ही इन दोनों उम्र की लड़की को उठाकर ले जाने का उद्देश्य ही एक होता है। सुरंजन सोच सकता है कि इक्कीस वर्षीय लड़की के साथ सात पुरुष क्या कर सकते हैं! उसका सारा शरीर क्षोभ-यंत्रणा से कड़ा हो उठता है। जिस प्रकार मरे हुए आदमी का शरीर तकड़ी की तरह कड़ा हो जाता है, काफी हद तक उसी तरह। क्या सुरंजन जिंदा है? जिन्दा तो है ही, परंतु माया नहीं है। माया नहीं है, इसीलिए माया के अपने भी जिन्दा नहीं रहेंगे? जिन्दगी का हिस्सा कोई किसी को नहीं दे सकता। मनुष्य की तरह त्वार्थी जीव दुनिया में दूसरा और नहीं है।

हैदर ने अवश्य ढूँढ़ा है। फिर भी सुरंजन को लगता है कि हैदर ने पूरा मन तगा कर नहीं ढूँढ़ा। सुरंजन ने मुसलमान से मुसलमान को ढूँढ़वाया है, जिस प्रकार कौटे से कौटा निकाला जाता है। असतियत में हैदर को मातृमृ है माया को कौन तोग उठा ते गये। जब वह 'सुपरस्टार' में गबायब खा रहा था, उस समय उसके चेहरे पर कोई दुश्मन्ता की रेखा नहीं थी। ब्रूलिल खाने के बाद तृप्ति की एक डकार ती थी, सिगार का कश खींचकर जब धुआँ छोड़ा, उस समय भी इतनी शिधितता थी कि उसे देखकर नहीं तग रहा था कि वह किसी को ढूँढ़ने निकला है, और उसे ढूँढ़ निकालना बहुत जरूरी है। उसे तो रात भर निशाचर की तरह शहर में धूमने का शौक भी है। तो क्या उसने अपना शौक पूरा किया? माया को ढूँढ़ निकालने की सचमुच उसकी कोई इच्छा नहीं थी? धोड़ी-वहुत इच्छा थी भी उसे तो उसने जैसे-तैसे दोस्ती निभाने के तिए अदा कर दिया। उसने धाने में भी बहुत जोर देकर नहीं कहा। पार्टी के लिन तड़कों को उसने कहा भी, उनसे पहले पार्टी की बातें कों, बाद में इसका जिक्र किया। मानो माया का मामता आवश्यक सूची के दूसरे नम्बर पर है। हिन्दू तोग देश के द्वितीय 'मेरी' के नागरिक हैं, क्या इसीलिए?

सुरंजन को विश्वास नहीं होता है कि माया बगत वाते कमरे में नहीं है, मानो

वह उस कमरे में जाते ही देखेगा कि माया सुधामय के दाहिने हाथ का व्यायाम करा रही है। मानो उस कमरे में जाते ही वह सावती लड़की आतुर होकर बोत पड़ेगी, 'भैया कुछ करो।' उस लड़की के तिए मैंने कुछ भी नहीं किया। भैया के पास तो माँग रहती ही है, घुमा ले जाओ, यह द्वीप दो, वह खीप दो। माया ने तो माँग ही था, सुरंजन ने ही उसकी माँग नहीं सुनी। वह तो सुद को तेकर ही दिन-रात व्यस्त रहता था। यार-दोस्त, पार्टी से ही उसे फुर्सत कहाँ थी! कौन माया, कौन किरणमयी, कौन सुधामय, उनके सुख-दुःख की बातें सुनने से उसे क्या लाभ! उसने इस देश को 'आदमी' बनाना चाहा था। क्या सुरंजन के स्वप्नों का देश आखिरकार 'आदमी' बन पाया?

नी बजते ही सुरंजन हैदर के घर पहुँचा। पास में ही उसका मकान है। हैदर तब तक सो रहा था। वह बाहर के कमरे में बैठकर उसका इंतजार करता रहा। इंतजार करते हुए उसे याद आया उन सात लड़कों में एक का नाम रफीक था, शायद इस लड़के को हैदर पहचानता है। दो घंटे बाद हैदर की नींद खुली। सुरंजन को बैठा देख उसने पूछा, 'तीटी ?'

'तीटने पर क्या तुम्हारे पास आता ?'

'हूँ!' हैदर की आवाज में निर्तिप्त भाव था। वह तुंगी पहने छाती बदन था। दोनों हाथों से बदन को छुजलाया। बोता, 'इस बार उतनी ठंड नहीं पड़ी है न? आज भी सभा नेत्री के घर पर मीटिंग थी। शायद जुतूस का प्रस्ताव आएगा। गुलाम आजम का भासता जब चरम सीमा पर था, तभी साता दंगा शुरू हो गया। असत में यह सब 'बी० एन० पी०' की चात है, समझे! इस भासते को घुमा देना भी उनकी ही चात है।'

'अच्छा हैदर, रफीक नाम के किसी लड़के को पहचानते हो? उनमें रफीक नाम का एक लड़का था।'

'किस मुहल्ले का ?'

'पता नहीं। उम्र इक्कीस-बाईस की होगी। इस मुहल्ले का भी हो सकता है।'

'इस तरह के किसी लड़के को तो नहीं पहचानता हूँ! फिर भी आदमी तगा कर पता करता हूँ।'

'चतों निकलते हैं। देर करना ठीक नहीं। माँ-पिताजी के घेहरे की तरफ देख नहीं पा रहा हूँ। पिताजी को दित का दौरा पड़ा है। इस टैंशन में कोई नड़ी दुर्घटना न घट जाए।'

'इस बक्त तुम्हारा मेरे साथ घूमना उचित नहीं !'

'क्यों, उचित क्यों नहीं है ?'

'समझ नहीं पा रहे, क्यों? समझने की कोशिश करो।'

सुरंजन खूब समझ रहा है, क्यों हैदर उसके साथ न रहने की बात कह रहा -

उसके साथ रहना उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि सुरंजन हिन्दू है। हिन्दू होकर मुसलमानों को गती देना ठीक नहीं लगता। चाहे मुसलमान चोर हो, बदमाश हो, या खूनी हो। मुसलमान के चंगुल से हिन्दू लड़की को छुड़ा लाना शायद ज्यादा धृष्टता दिखाना हो जाता है।

सुरंजन तौट आता है। कहाँ लौटेगा वह? घर? उस सन्नाटा भरे घर में उसकी तौटने की इच्छा नहीं होती। सुरंजन माया को वापस ले जायेगा, इस भरोसे चातक पक्षी की तरह तृष्णातुर होकर वे बैठे हुए हैं। माया को लिये बिना उसकी घर लौटने की इच्छा नहीं होती। हैदर ने माया को ढूँढ़वाने के लिए आदमी लंगाया है, उसे विश्वास करने का मन हो रहा है कि उसके लोग एक दिन माया को खोज निकालेंगे और संशय का दाना भी वैध रहा है कि माया नहीं है तो इससे उनका क्या?, उनको तो 'माया' के लिए कोई माया नहीं। हिन्दुओं के प्रति मुसलमानों की माया रहेगी ही क्यों? अगर उनको माया होती तो बगल वाले मुसलमान के घर तो लूट-मार नहीं होती, उनका तो घर तोड़ा नहीं जाता! तोड़ा जाता है तो सिर्फ सुरंजन का घर, जताया जाता है सिर्फ गोपाल हातदार का घर, काजलेन्दु का घर। सुरंजन घर नहीं तौटता। रास्ते में भटकता रहता है। सारा शहर धूमकर माया को ढूँढ़ता है। माया का क्या अपराध था जो उन लोगों ने उसका अपहरण किया? हिन्दू होने का अपराध इतना ज्यादा है? इतना ज्यादा कि उसका घर-बार तोड़ा जा सकता है, उसे मनचाहा पीटा जा सकता है। उसे पकड़कर ले जाया जा सकता है, उसका बतात्कार किया जा सकता है! सुरंजन इधर-उधर भटकता है, दौड़ता है। रास्ते में किसी भी इक्कीस-बाईस वर्ष के लड़के को देखकर उसे लगता है कि यही शायद माया को ले आया है, उसके भीतर संशय ने डेरा डाल लिया है। और वह बढ़ता ही गया।

इस्तामपुर की एक परचून दुकान में खड़ा होकर वह एक ठोंगा 'मूँझी' खरीदता है। दुकानदार उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखता है। शायद उस आदमी को भी मातृमूर्ति है कि उसकी वहन का अपहरण हुआ है। वह आड़े-तिरछे चलता रहा, नया बाजार के टूटे-फूटे मैदान में बैठा रहा। सुरंजन को किसी भी तरह चैन नहीं मिलता। किसी के भी घर पर जाने से वही वावरी मस्जिद का प्रसंग। उस दिन तो सलीम ने कह ही दिया कि तुम तोग हमारी मस्जिद तोड़ सकते हो तो हम तोगों के मंदिर तोड़ने से क्यों एतराज है? यह बात सलीम ने मजाक ही मजाक में कही थी, उसके मन में यह सवाल आया ही नहीं होगा, यह भी तो नहीं कहा जा सकता है।

माया यदि इसी दीच घर लौट आयी हो तो, लौट भी सकती है। बताल्कृत होकर भी वह लौट आए, फिर भी लौट तो आए। माया शायद लौट आयी हो, यह सोचते-सोचते सुरंजन घर वापस आया, देखा, दो प्राणी आँख, कान सजग रखकर निर्संद, स्थिर माया की प्रतीक्षा में हैं। माया नहीं लौटी है, इससे ज्यादा निष्ठुर, निर्मम

सूचना क्या हो सकती है। तकिये में सिर छिपाकर औंधे मुँह सुरंजन पड़ा रहता है। उस कमरे में से सुधामय के कराहने की आवाज आ रही है। रात की निस्तब्धता में जुगनू की तरह महीन स्वर में सुनाई पड़ रही किरणमयी के रोने की आवाज ने उसे सारी रात सोने नहीं दिया। इससे तो अच्छा होता अगर जहर मिल जाता तो तीनों उसे खाकर मर जाते। उनको इस तरह तिल-तिल करके न मरना होता! क्या जरूरत है जिन्दा रहने की! हिन्दू बनकर इस वाग्मादेश में जिन्दा रहने का कोई मतलब नहीं होता।

सुधामय अनुभान लगा रहे थे कि उन्हें 'सेरेब्रल थर्बसिस' या 'एमबतिस्म' जैसा कुछ हुआ होगा। यदि 'हैमरेज' हुआ होता तो तुरंत मर जाते। मर जाने से क्या बहुत बुरा होता? सुधामय भन ही भन एक भयानक 'हैमरेज' की आशा कर रहे हैं। वे तो अधमरे ही थे, उनके बदले में कम-से-कम माया तो बच सकती थी। उस लड़की में जीने की बेहद तत्त्वता थी। अकेते ही पाठ्य के घर चत्ती गयी थी। उसकी अस्वस्थता ही उसके अपहरण के लिए जिम्मेवार है। अपराधबोध की भावना सुधामय को कुरेदती रहती है। बार-बार उसकी आँखें धुंधती हो जा रही थीं। उन्होंने किरणमयी को स्पर्श करने के लिए एकबार अपना हाथ बढ़ाया नहीं, कोई भी नहीं। सुरंजन भी पास में नहीं है। माया तो है ही नहीं। उन्हें पानी पीने की इच्छा हो रही है—सूखकर काँटा हो गई है उनकी जीम, तालू और गला।

किरणमयी को उन्होंने कम दुःख नहीं दिया। किरणमयी को पूजा करने का शौक था। शादी के बाद ही सुधामय ने उससे कह दिया कि इस घर में पूजा-पाठ नहीं चलते ग़ा। किरणमयी अच्छा गाती थी, लोग कहते, 'बेहया, बेशरम लड़की। हिन्दू लड़कियों को ताज-शरम नहीं रहती' ये सारी व्याघ्रमरी बातें किरणमयी को परेशान करती थीं। अपने आपको संयत करते-करते किरणमयी ने करीब-करीब गाना ही छोड़ दिया। उसने जो गाना छोड़ दिया, उस वक्त सुधामय उसका कितना पक्ष ते पाये दे। शायद वे भी सोचते थे कि लोग जब बुरा कहते हैं तो क्या किया जा सकता है: इक्कीस वर्षों से वे किरणमयी को बगल में लेकर सो रहे हैं। सिर्फ़ सोये दूँ^१ किरणमयी के सतीत्व को पहरा देते रहे। उन्हें क्या जरूरत थी, अपनी पत्नी हे दूँ^२ का उपभोग करने की? यह भी तो एक तरह का परवर्सन ही है। साझे-नहीं दूँ^३ तरफ़ भी किरणमयी का आकर्षण नहीं था। कभी उसने नहीं कहा दि दूँ^४ चाहिए, या एक जोड़ी कान की बाती चाहिए। सुधामय ऊँसर कहते^५ क्या तुम अपने भन में कोई दर्द छुपाये रखती हो?'

किरणमयी कहती, 'नहीं तो! मेरे इस दरिदर दे ही देगा हूँ'

लिए मैं अलग से कोई खुशी नहीं चाहती।'

सुधामय को लड़की का शौक था। सुरंजन के जन्म से पहले किरणमयी के पेट में 'स्टेथिस्कोप' लगाकर कहते थे, 'मेरी लड़की की धड़कन सुनाई दे रही है, किरणमयी ! तुम सुनोगी ?'

सुधामय कहते थे, 'माँ-वाप को अंतिम उम्र में लड़कियाँ ही देखती हैं। लड़के तो वहूं को लेकर अलग हो जाते हैं। लड़कियाँ ही पति, अपना घर सब कुछ छोड़कर माँ-वाप की सेवा करती हैं। मैं तो अस्पताल में रहता हूँ, अक्सर देखता हूँ। अस्वस्थ माँ-वाप के सिरहान बेटियाँ ही बैठी रहती हैं, लड़का अतिथि की तरह आता है और देखकर चला जाता है। इससे ज्यादा नहीं।'

'स्टेथिस्कोप' की नाल किरणमयी के कान में लगाकर वे उन्हें भी अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुनाया करते थे। दुनियाभर के लोग बेटा चाहते हैं, और सुधामय चाहते थे बेटी। बचपन में सुरंजन को फ्राक पहनाकर सुधामय अपने साथ घुमाने से जाया करते थे। माया के जन्म के बाद सुधामय की वह आशा पूरी हुई। 'माया' नाम सुधामय ने ही रखा था। कहा था, 'यह मेरी माँ का नाम है। मेरी एक माँ गई, दूसरी माँ आ गई।'

रात में माया ही सुधामय को दवा पिलाती थी। दवा लेने का वक्त बहुत पहले बीत गया है। वे 'माया-माया' कहकर अपनी चहेती बेटी को पुकारते हैं। पड़ोसी सब के सब सो गये। उनकी पुकार जागती किरणमयी के कानों में पड़ी, सुरंजन ने भी सुनी, उस काली-सफेद चितकबरी बिल्ली ने भी सुनी।

उत्तरप्रदेश के अयोध्या में बावरी मस्जिद के तोड़े जाने के बाद हरे भारत में जो रक्तगंगा बहनेवाला संघर्ष छिड़ा था, वह अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। भारत में इसी बीच मृतकों की संख्या जड़ारह सौ पार कर गई है। कानपुर और भोपाल में अब भी संघर्ष चल रहा है। इसे रोकने के लिए गुजरात, कर्नाटक, केरल, आन्ध्रप्रदेश, असम, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई है। वह गश्त लगा रही है, पहरा दे रही है। भारत में प्रतिवंधित घोषित किये गये दलों के दरवाजे पर ताला लटक रहा है, शान्ति और सद्भावना की रक्षा के लिए ढाका में सर्वदलीय स्वतःस्फूर्त जुलूस निकाला जा रहा है, लेकिन उससे क्या ! इधर गोलकपुर में तीरा हिन्दू लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, चंचली, संध्या मणि.....। निकुंज दत्त की मौत हो गई है ; भगवती नाम की एक वृद्धा की, डर के मारे दित की धड़कन रुक जाने से मौत हो गयी, गोलकपुर में दिन के उजाले में भी बलात्कार की घटना घटी है। मुसलमानों के घर में आश्रय लेनेवाली लड़कियों तक की इज्जत तूटी गई।

'दासेर हाट' बाजार के 'नाटू' की चौदह सौ मन सुपाड़ी का गोदाम जताकर राख कर दिया। भोला शहर के मंदिरों के तोड़े जाने की घटना के समय पुतिस, मैजिस्ट्रेट, डी० सी० चुपचाप छड़े तमाशा देखते रहे। गहनों की दुकानों को खुलेआम लूटा गया। हिन्दुओं का धोबीखाना जताकर राख कर दिया। मानिकगंग शहर का लक्ष्मी मण्डप, सार्वजनिक शिवालय, दाशोरा, कातीघाता, स्वर्णकार पट्टी, गदाधर पात का वेवरेज और पक्की सिगरेट की दुकान को भी तोड़ डाला गया। तीन ट्रक आदमियों ने तरा, बानियाजुरी, पुकुरिया, उथती, महादेवपुर, जोका, शिवात्मय थाने पर हमता किया। शहर से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेतिला गाँव में हिन्दुओं के घरों को लूटा गया। जलाया गया। वेतिला के सौ साल पुराने नटमंदिर पर हमता किया गया। गढ़पाड़ा के जीवन साह के घर में आग लगा दी गयी। उसकी तीन गोशाता जलकर राख हो गयी। कई सौ मन धान भी जलकर राख हो गया। धितर धाना के तेरथी बाजार की हिन्दू दुकानों, गांगडुबी, बानियाजुरी, सेनपाड़ा के हिन्दू घरों में आग लगा दी गई। सेनपाड़ा की एक हिन्दू गृहवधू के साथ बताल्कार किया गया। पिरोजपुर की कातीबाड़ी, देवार्चना कमेटी का काती मंदिर, मनसा मन्दिर, दुर्गा मंदिर, शीतला मंदिर, शिव मंदिर, नारायण मंदिर, पिरोजपुर मदन मोहन विश्वनाथ मंदिर, अछाइबाड़ी, राय काठी कातीबाड़ी मंदिर, कृष्णनगर राइसराज सेवाश्रम, इमुरतला श्रीमुरुराय आश्रम मंदिर, दक्षिण इमुरतला के सुरेश साहा के घर का काती मंदिर, इमुरतला के नरेन साहा के घर का मनसा मंदिर, सोमेश साहा के घर का मनसा मंदिर और घर, इमुरतला का सार्वजनीन काती मंदिर, सुचरण मंडल, गौरांग हातदार, होन्द्रनाथ साहा, नरेन्द्रनाथ साहा के घर का मंदिर, इमुरतला हाईस्कूल के बगल का काती मंदिर, रानीपुर पंचदेवी का मंदिर, कुलारहाट सार्वजनिक दुर्गा मंदिर और कार्तिक दास की लकड़ी की दुकान, कलाखाली सनातन आश्रम का काती मंदिर, जुजछोता और गोविन्द सेवाश्रम, हरिसभा का सनातन धर्म मंदिर, रंजित शीत के घर का काती मंदिर, जुजछोता सार्वजनिक पूजापट्टात, गाबतला स्कूल के बगल का सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, कृष्णनगर विधिन हातदार के घर का मंदिर, नमाजपुर सार्वजनिक काती मंदिर, कातीकाठी विश्वास बाड़ी का मंदिर और मठ, लाइरी काती मंदिर, स्वरूपकाठी धाना का इंद्रहाट सार्वजनिक मंदिर इंद्रहाट कनाई विश्वास के घर का दुर्गा मंदिर, नकुल साहा का सिनेमा हॉल, अमल गुहा के घर का दुर्गामंदिर, हेमत शीत के घर का मंदिर और मठबाड़िया धाना इताके के यादव दास के घर का काती मंदिर जताया गया। रैयदपुर मिस्ट्री पाड़ा के शिव मंदिर को तोड़ा गया। नाडाइत जिले में रतडांगा गाँव का सार्वजनिक धोना सार्वजनीन मंदिर, कुद्रुतिया सार्वजनिक इमशान पाट, निधित्वन्द दे का पारिवारिक मंदिर, कातीपट हाजरा का पारिवारिक मंदिर, शिवप्रसाद पात का पारिवारिक मंदिर, वादन गाँव के दुतात चन्द्र चक्रवर्ती के घर का मंदिर, कृष्णचंद्र लक्ष्मी के घर का मंदिर, ताततला गाँव का सार्वजनीन मंदिर, पंगविता गाँव के

वैद्यनाथ साहा, सुकुमार विश्वास, पगता विश्वास का पारिवारिक मंदिर, पंगविला गाँव का सार्वजनीन मंदिर और तोहागढ़ धाना के दौलतपुर पूर्वपाड़ा, नारायण मंदिरों को भी तोड़-फोड़कर तहस-नहस किया गया। खुलना में दस मंदिरों को तोड़ा गया। पाइकपाड़ा के शहुती, सोबनादास और बाका गाँव में चार-पाँच मंदिरों की तोड़फोड़ की गयी, कई घरों को लूटा गया। रूपसा धाने के तामिलपुर इताके के दो मंदिरों को तोड़ दिया गया। बगल के हिन्दू घरों को लूटा गया। दीघतिया और सेनहाटी इताके में आठ दिसम्बर की रात को तीन मंदिरों को तोड़कर आग लगा दी गई। फेनी के सहदेवपुर गाँव में एक जुलूस के प्रदर्शनिकारियों ने तेरह घरों पर हमला किया। छागलानाइया के जयपुर गाँव में हमले के दौरान बीस तोग घायल हुए हैं। लांगतबोया गाँव से मुअज्जम हुसैन की अगुवाई में दो सौ तोगों ने गोविन्द प्रसाद राय के घर पर हमला किया। कमत्र विश्वास नामक एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हुआ। शायद बाद में मर भी गया।

विरुपाक्ष, नयन-देवव्रत-सुरंजन के सामने बैठकर तोड़-फोड़ की घटनाओं का जिक्र करता रहा। सुरंजन आँखें बंद किये लेटा रहा। इतनी सारी तोड़फोड़ की घटनाएँ सुनने के बावजूद उसने अपने मुँह से एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया। इनमें से कोई नहीं जानता कि सिर्फ भोता, चट्टग्राम, पिरोजपुर, सिलहट, कुमिल्ला के हिन्दू घरों में ही तूट नहीं हुई, टिकादुती के इस घर को भी लूट लिया गया है, 'माया' नाम की एक सुन्दर लड़की को। नारी जाति तो काफी हद तक सम्पदा की तरह ही है, इसीलिए सोना, गहना, धन-सम्पदा की तरह माया को भी वे तोग लूट ले गये।

'क्या बात है सुरंजन, तुम चुप क्यों हो ? तुम्हें क्या हुआ ?' देवव्रत ने पूछा।

'शराब पीना चाहता हूँ। आज पेट भर शराब नहीं पीया जा सकता ?'

'शराब पीओगे ?'

'हाँ पीऊँगा ?'

'मेरी जेब में रुपया है, कोई जाकर मेरे लिए एक बोतल स्विस्की ले आओ न !'

'घर पर बैठ कर पीओगे ? तुम्हारे माँ-बाप ?'

'गोली मारो माँ-बाप को। मैं पीना चाहता हूँ, पीऊँगा, बीरु जाओ, 'शालुरा-पियासी' कहीं भी मिल जायेगी !'

'तैकिन सुरंजन दा.....'

'इतना मत हिचकिचाओ, जाओ !'

उस कमरे से किरणमयी के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही है।

'कौन रो रहा है, मौसीजी ?' विरुपाक्ष ने पूछा।

'हिन्दू होकर जब जनम ली है तो विना रोये कोई उपाय है ?'

तीनों युवक चुप हो गये। वे भी तो हिन्दू हैं। वे समझ सकते हैं कि उन्हें क्यों रोना पड़ रहा है। हरेक की छाती से गूँगा रुदन बाहर निकल रहा था। विरुपाक्ष रुपये

लेकर तैजी से चला गया, मानो चले जाने भर से वह सारे दुःखों से छुटकारा पा जायेगा। जैसे सुरंजन शराब पीकर मुक्त होना चाह रहा है।

विरुपाक्ष के चले जाते ही सुरंजन ने पूछा, 'अच्छा, देवद्रत, मस्तिष्ठ को नहीं जलाया जा सकता है।'

'मस्तिष्ठ ? तुम्हारा दिमाग तो खुराक नहीं हो गया ?'

'चलो आज रात में 'तारा मस्तिष्ठ' जता देते हैं।' देवद्रत विस्मित नजरों से एक बार सुरंजन को, एक बार नयन को देखता है।

'हम लोग दो करोड़ हिन्दू हैं, वाहें तो रायतुल मुकर्रम को तो जला ही सकते हैं।'

'तुमने तो कभी अपने को हिन्दू नहीं कहा। आज अचानक यह क्यों कह रहे हो ?'

''मनुष्य' कहता था न, 'मानवतावादी' कहता था। मुझे मुसलमानों ने मनुष्य नहीं रहने दिया। हिन्दू बना दिया।'

'तुम बहुत बदते जा रहे हो, सुरंजन।'

'इसमें मेरा कोई दोष नहीं।'

'मस्तिष्ठ तोड़कर हमें क्या फायदा होगा ? क्या हमें मंदिर वापस मिल जायेगा ?' देवद्रत कुर्सी की टूटी हथेली पर नाखून पिसते हुए बोता।

'न मिले, किर भी हम स्तोग भी तोड़ सकते हैं। हमारा भी गुस्सा है, इस बात को एक बार जाहिर नहीं कर देना चाहिए ? बाबरी मस्तिष्ठ साढ़े-चार सौ वर्ष पुरानी मस्तिष्ठ थी। चैतन्यदेव का घर भी तो पाँच सौ वर्ष पुराना था। चार-पाँच सौ वर्ष पुराने स्मारकों को क्या इस देश में धूल में नहीं मिला दिया जा रहा है ? मुझे सुमानबाग की मस्तिष्ठ भी तोड़ देने की इच्छा हो रही है। गुलशन के एक नम्बर की मस्तिष्ठ सऊदी अरब के रूपये से बनायी गयी है। चलो, उस पर कब्जा करके मन्दिर बना लिया जाए।'

'क्या कह रहे हो सुरंजन ? तुम पागल ही हो गये हो ! तुम्हीं न पहते कहते थे, मंदिर और मस्तिष्ठ की जगह पर नहर काट कर हँस छोड़ दूँगा !'

'क्या सिर्फ़ इतना ही कहता था, कहता था 'चूर-चूर हो जाए धर्म की इमारत, जल जाए अंधी आग में मंदिर, मस्तिष्ठ, गुरुद्वारा, गिरजा की झैटें। और उस ध्वंसस्तूप के ऊपर सुर्गध बिधेता हुआ पनपे मनोहर फूलों का बगीचा, पनपे शिशु स्कूल, वाचनात्मय। मनुष्य के कल्याण के लिए अब प्रार्थनागार हो, अस्पताल हो, हो यतीमघाना, यिदात्य, विश्वविद्यालय। अब प्रार्थनालय हो, भौंर की किरणमय सुनहरा धान का खेत, खुला मैदान, नदी, उफनता समुद्र। धर्म का और एक नाम आज से मनुष्यत्व हो।'

'उस दिन देव राय का एक लेख पढ़ा। लिखा है—बड़े गुलाम अली अपने सुरमंडल लेकर खड़े हो नाच-नाच कर गा रहे हैं—'हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।' आज भी बड़े गुलाम अली वही एक ही गाना गाये जा रहे हैं। लेकिन जो लोग वावरी मस्जिद को तोड़कर धूल में मिलाकर वहाँ पर रामलला की मूर्ति बैठा कर भाग आये, वे हिन्दू क्या यह गाना नहीं सुन पाते हैं। इस गाने को अडवाणी, अशोक सिंघल सुन नहीं पाते। क्या इस गाने को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या बजरंगदल सुन नहीं पाता। बड़े गुलाम अली मुसलमान थे। लेकिन उनके कंठ से निकला हुआ यह 'हरि ओम तत्सत्' वे मुसलमान भी नहीं सुन पाते जो सोचते हैं कि मस्जिद तोड़ने का एकमात्र विरोध मंदिर तोड़ना ही हो सकता है।'

'इसका मतलब यह है, तुम कहना चाह रहे हो कि मंदिर तोड़े जाने के कारण मस्जिद का तोड़ा जाना उचित नहीं है। तुम तो मेरे पिता की तरह आदर्शवाद की बातें कर रहे हो। आई हेट डैट ओल्ड हेगर।'

सुरंजन उत्तेजित होकर विस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है।

'शांत हो जाओ सुरंजन। शांत हो जाओ। तुम जो कुछ भी कह रहे हो यह कोई समस्या का समाधान नहीं है।'

'मैं इसी तरह का समाधान चाहता हूँ। मैं अपने हाथ में भी कटार, तमंचा, पिस्तौल चाहता हूँ। मोटी-मोटी लाठी चाहता हूँ। वे लोग पुराने ढाका के एक मंदिर में पेशाब कर आये थे न? मैं भी उनकी मस्जिद में पेशाब करना चाहता हूँ।'

'ओह सुरंजन! तुम कम्यूनल होते जा रहे हो।'

'हाँ, मैं कम्यूनल हो रहा हूँ। कम्यूनल हो रहा हूँ।'

देवद्रत, सुरंजन की पार्टी का लड़का है। कई काम में दोनों साथ-साथ रहे। वह सुरंजन के आचरण को देखकर हैरान रहता है। शराब पीना चाहता है। अपने ही मुँह से कह रहा है, कम्यूनल हो रहा है। अपने पिता तक को गाली दे रहा है।

दंगा तो बाढ़ नहीं है कि पानी से उठाकर लाते ही खतरा टल गया। फिर चिउड़ा-मुँझी कुछ भी जुगाड़ कर पाने से ही फिलहाल की समस्या हट गई। दंगा तो आग का लगना नहीं है कि पानी डाल कर बुझा देने से ही छुटकारा मिल जाएगा। दंगे में आदमी अपनी आदमीयत की भी स्थगित रखता है। दंगे में आदमी के मन का जहर बाहर निकल आता है। दंगा कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, दंगा मनुष्यत्व का विकार है। सुधामय ने लंबी साँस छोड़ी। किरणमयी कमरे के एक कोने में भगवान के सामने बैठी माथा ठोक रही है। भिट्ठी की प्रतिमा-नहीं है। उस दिन उन लोगों ने तोड़ डाला। राधा-कृष्ण का एक चित्र कहीं रखा हुआ था, उसी को सामने

रखकर किरणमयी माया ठोकती है। और, चुपचाप आँसू बहाती है। सुधामय अपने निश्चल शरीर के साथ लेटे-लेटे सोचते हैं, राधा या कृष्ण में कोई क्षमता है माया को वापस लाने की। यह जो तस्वीर है, सिर्फ तस्वीर ही तो है—केवल एक कहानी ! यह कैसे माया का कठोर, कठिन, निष्ठुर कट्टरपंथियों के चंगुल से उद्धार करेगी ! इस देश का नागरिक होकर भी, माया आदोतन करके भी, युद्ध करके पाकिस्तानियों को छद्देड़ कर देश को स्वाधीन कराने के बाद भी इस देश में उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। तो ये कहाँ के, कौन राधा-कृष्ण ! जिसे न कहा, न सुना वे सुरक्षा देंगे ! इनका द्या-पीकर और कोई काम नहीं है। जहाँ बचपन से जाना-पहचाना पड़ोसी ही तुम्हारे घर को कब्जे में कर ले रहा है, तुम्हारे बगल वाते मकान के दरसी भाई ही तुम्हारी लड़की का अपहरण कर ले रहे हैं। और, वहाँ तुम्हारी दुर्गति दूर करने कोई 'माखनचोर' आएगा ! आयान धोय की पली (राधा) आएगी ! दुर्गति यदि दूर करनी ही है तो सब मिलकर एक जाति होने के लिए जिन लोगों ने युद्ध किया था, वही करेंगे।

सुधामय ने थकी हुई करुण आवाज में किरणमयी को पुकारा—किरण, किरण !'

किरणमयी के रोबोट की तरह सामने आकर छझ होते ही उन्होंने पूछा, 'सुरंजन, आज माया को दूँढ़ने नहीं गया ?'

'पता नहीं !'

'क्या तो हैदर ने खोजने के लिए आदभी तगाया है ! क्या वह आया था ?'

'नहीं !'

'तो क्या माया का कोई पता नहीं चल पा रहा है ?'

'पता नहीं !'

'मेरे पास जरा बैठोगी, किरण ?'

किरणमयी जड़ पदार्थ की तरह धूप से बैठ गयी। और बैठी ही रही। न तो उनके अचेतन हाथ-पैर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, न एक बार अपने बीमार पति की ओर देखती ही है। दूसरे कमरे से हल्ता-गुल्ता सुनाई देता है। सुधामय ने पूछा, 'सुरंजन इतना घिल्ला क्यों रहा है ? वह हैदर के पास नहीं गया ? मैं तो खुद ही जा सकता था। यह बीमारी मुझे क्यों हुई ? अगर मैं स्वस्थ रहता तो माया को कोई क्षुपाता ? पीट कर सबकी लाश गिरा देता ! स्वस्थ रहने पर जैसे भी होता, माया को दूँढ़ लाता....' सुधामय अकेते ही उठना चाहते हैं, उब्ले हुए फिर चित् होकर विस्तर पर गिर जाते हैं। किरणमयी उन्हें पकड़कर नहीं उठाती है बल्कि स्थिर बंद दरवाजे की ओर देखती रहती है। कब आहट होगी, कब माया लौटेगी।

'एक बार बुताओ तो अपने सुयोग्य बेटे को। 'स्फाउंड्रेस' कहीं का ! वहन नहीं है और वह घर पर शराब का अहा जमाए हो-हल्ता कर रहा है। छि छि-'

किरणमयी न तो सुरंजन को बुताने जाती है, न सुधामय को शांत कराती है। वह स्थिर दरवाजे की तरफ देखती रहती है। घर के कोने में राधा-कृष्ण का चित्र रहा है।

अब वह और पति या पुत्र का निषेध मानकर नास्तिकता पर विचार करने को राजी नहीं है। इस क्षण कोई मनुष्य सहायक नहीं है, काश भगवान ही सहाय हो जायें !

सुधामय खड़ा होना चाहते हैं। एक बार जोनाथन स्विफ्ट की तरह कहना चाहते हैं—‘परस्पर धृणा करने के धर्म हमारे कई हैं, लेकिन एक-दूसरे को प्यार करने का धर्म पर्याप्त नहीं। मनुष्य का इतिहास धार्मिक कलह, युद्ध, जेहाद से कलंकित है।’ छियालिस में सुधामय नारा लगाते थे—‘हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई।’ ऐसा नारा आज भी लगाया जाता है। इस नारे को इतने बरसों से क्यों दोहराना पड़ रहा है? इस उपमहादेश में इस नारे को और कितनी शताब्दियों तक दोहराना पड़ेगा! अब भी आहवान की आवश्यकता खत्म नहीं हुई है! क्या इस नारे से विवेकहीन आदमी जागता भी है? आदमी यदि भीतर से असाम्प्रदायिक न हो तो इस नारे से चाहे और कुछ भले ही हो, साम्प्रदायिकता खत्म नहीं होगी।

सुरंजन हैदर के घर गया। वह नहीं है। ‘भोला’ गया हुआ है। हिन्दुओं की दुर्दशा देखने। अवश्य ही वापस आकर दुःख जताएगा। दस जगहों पर भाषण देगा। लोग वाहवाही देंगे। कहेंगे, ‘आवामी लीग के कार्यकर्त्ता बड़े हमदर्द हैं, बड़े ही असाम्प्रदायिक।’ फलस्वरूप हिन्दुओं का बोट और जाएगा कहाँ! अपनी पड़ोसिन ‘माया’ के प्रति उसमें माया नहीं है, वह गया है दूर की मायाओं को देखने! ढक्कन खोलकर बोतल से ‘गट् गट्’ कुछ गले में उतार लेता है सुरंजन। अन्य लोगों को पीने की कुछ खास इच्छा नहीं है। फिर भी पानी मिलाकर थोड़ा-थोड़ा सभी ले लेते हैं। भूखे पेट में शराब पड़ने से उबकाई-सी आती है।

‘शाम के वक्त मुझे धूमने की बड़ी इच्छा होती थी। माया को भी धूमने का बड़ा शौक था। उसे एक दिन ‘शालवन विहार’ से जाऊँगा।’

विरुपाक्ष ने कहा, ‘जनवरी की दो तारीख से उलेमा मशायखों का लांगमार्च है।’

‘किस बात के लिए लांगमार्च?’

‘वे लोग पैदल चलकर भारत जाएंगे, बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए।’

‘हिन्दुओं को भी साथ रखेंगे लांगमार्च में? लेने से मैं भी जाऊँगा। तुममें से कोई जाएगा?’ सुरंजन ने पूछा।

सभी चुप्पी साधे एक-दूसरे का मुँह देखने लगे।

देवब्रत ने काफी हद तक धमकाने की आवाज में कहा, ‘तुम इतना ‘हिन्दू-मुसलमान’—हिन्दू-मुसलमान’ क्यों कर रहे हो। तुम्हारा हिन्दुत्व कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है।’

‘अच्छा देवू, लड़कों को ‘सरकमशिसन’ न करने पर पता चलता है वह हिन्दू है।

तेकिन लड़कियों के 'हिन्दू' समझे जाने का क्या उपाय है, बताऊं तो ; माया को ही लो । माया को यदि रास्ते में छोड़ दिया जाए । मान लो उसके हाथ-पैर वे हुए हों, तो कैसे पता चलेगा कि वह हिन्दू है ? उसका तो मुसलमानों की तरह ही आँख-नाक, मुँह-हाथ, पैर-सिर है ।'

सुरेजन की किसी भी बात का जवाब न देते हुए देवद्रत ने कहा, जिया-उर-रहमान के समय फरक्का के पानी के तिए सीमांत सक राजनीतिक लांगमार्च हुआ था । खालिदा जिया की हुक्मत में 1993 साल शुरू होगा बाबरी मस्जिद निर्माण के तिए साम्प्रदायिक लांगमार्च के बीच से । फरक्का का लांगमार्च जिस तरह पानी के तिए नहै था, बाबरी मस्जिद का सांगमार्च भी उसके पुनर्निर्माण के तिए नहीं होगा । दरअहल, बाबरी मस्जिद को लेकर इतना हँगामा करने का मकसद राजनीति को साम्प्रदायिक के पावरहाउस में परिणत करना और गुलाम आजम विरोधी आन्दोलन से लौट जा प्यान हटाना है । इस समय सरकार की एयरटाइट चुप्पी भी ध्यान देने लारह है इतना कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार कहे जा रही है—इस देश के हालात सद्भावना है ।

इतने में पुलक अंदर आया । पूछा, 'क्या बात है ? दरवाजा लोतस्तर दैहे है ? ' 'दरवाजा खुला है, शराब पी रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ । डर किस दर के दरमान है, मर जाएंगे । तुम क्यों बाहर निकले ? '

'परिस्थिति काफी हद तक शांत है । इसीलिए बाहर निकलने के लिए इह ' ।

'फिर अशांत होने पर दरवाजे में कुंडी लगाकर दैहे लौटे हैं । हालात से हैंसा ।

पुलक हैरानी के साथ सुरेजन का शराब पीना देख ले लौटे हुए दूरे को स्कूटर में छिपाते हुए आया है । देश की हत्तर लिंग दरवाजे की दूरी की तरह राजनीति-सजग लड़का घर बैठा हैंस रहे हैं इन दरवाजे की दूरी की वह कल्पना भी नहीं कर सकता था । सुरेजन उड़ान लगाते हैं दरवाजे की दूरी ।

सुरेजन ने गितास से एक घूंट तेतै हुर लह दुर्द इरह इरह इरह गुलाम आजम ! गुलाम आजम से मेरा व्यवहार है दुर्द इरह लह तेतै है दूरी क्या पिलेगा ? उसके खिलाफ आन्दोलन लगाते हैं दूरी कोह इरह इरह लह तेतै । माया को तो उसके नाम तक से दूरी हैंहै है दूरी लह तेतै है दूरी लह तेतै । मुकित युद्ध में पाकिस्तानियों ने दूरी लह तेतै है दूरी लह तेतै है दूरी लह तेतै है उड़ा दिया । मेरी समझ में नहीं है दूरी लह तेतै है दूरी लह तेतै है दूरी लह तेतै है या । शायद स्वाधीनता का दूरी लह तेतै है दूरी लह तेतै है दूरी लह तेतै है के साथ स्वाधीनता की दूरी लह तेतै है दूरी लह तेतै है ।

सुरेजन फर्श पर दौर लह तेतै है दूरी लह तेतै है । कमरा, दूरी हुई कुर्सी, लिंग लह तेतै है, जारे क्लॉने हैं ।

में दूरी हुई आलमारी। सुरंजन का जैसा मिजाज है, शायद शराब पीकर सब तोड़ा होगा। घर इतना शांत क्यों है? नहीं लगता कि यहाँ कोई और भी है।

‘इकराम हुसैन ‘भोला’ गया था। लौटकर बताया कि पुलिस, प्रशासन व वी० एन० पी० के लोगों का कहना है, ‘भोला’ की घटना बावरी मस्जिद के दूटने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मतलब, ‘स्पांटेनियस’ मामला! यह लुटेरों का काम है और कुछ नहीं। हिन्दू उन्मूलन अभियान के तहत गाँव के गाँव जलाकर राख कर दिये जा रहे हैं। हवा में सिर्फ जली हुई महक है। पुआल का ढेर, गौशालाएं तक नहीं छोड़ा। सब कुछ मिट गया। घर के कपड़े-लत्ते, जूते, तकिया-चादर से लेकर तेल की शीशी, यहाँ तक कि झाड़ी भी लूटकर घर में किरासन छिड़ककर आग लगा दी। आग में जलकर राख हो गए धान-खेत, नारियल के बाग। लड़कों के पहनने की लुंगी तक उतार कर ले गए। जो भी लड़की मिली, बलात्कार किया। साड़ी-जेवर उतार ले गए। हिन्दू जा-जाकर धान के खेतों में छिप गए। शंभूपुर के खासेरहाट स्कूल के टीचर निकुंज दत्त धान के खेत में छिपे हुए थे। रुपये-पैसे के लिए उन्हें निकाल कर पीटा गया। शायद निकुंज दत्त मर जाएं! ‘भोला’ में यह नारा लगाया जा रहा है—‘हिन्दू यदि जीना चाहो, वांगा छोड़ भारत जाओ।’ हिन्दुओं को धमकाया जा रहा है, ‘कब जाओगे, वरना गाय काट कर खिलाएँगे।’ सम्पन्न हिन्दुओं की भी एक जैसी हालत है। उनके पास भी कुछ नहीं है सब कुछ जलकर राख हो गया है। वे भी अभी नारियल के खोल में पानी पी रहे हैं, केले के पत्ते पर भात खा रहे हैं। वह भी राहत में मिले चावल से। दिन में एकवार साग-पात, कंद-मूल पकाकर खा रहे हैं। पति के सामने पली का, पिता के सामने पुत्री का, भाई के सामने वहन का बलात्कार हुआ है। माँ और बेटी के एक साथ बलात्कृत होने की घटना भी हुई है। कई लोग खुलेआम कह रहे हैं, ‘भीख माँगकर खाऊँगा, लेकिन यहाँ अब और नहीं।’ जो लोग राहत सामग्री लेकर देने जा रहे हैं, कोई-कोई उनसे भी कह रहा है, ‘राहत की जस्तरत नहीं, हमें पार कर दीजिए, हम चले जाते हैं।’ शंभूपुर, गोलकपुर में एम० ए० वाछेत और सिराज पटवारी जो पहले ‘शिविर’ के नेता थे, अब वी० एन० पी० में हैं, ने हमला किया। ‘लाई हार्डिंग्स’ का एक भी हिन्दू घर नहीं बचा, जिसे न जलाया गया हो। प्रियताल वातू फ्रीडम फाइटर थे, उनके घर में भी अत्याचार हुआ। उनके गाँव में अवामी लीग नेता अब्दुल कादिर, चैयरमैन विलायत हुसैन ने हमला किया। बबलूदास के तीन ‘पावर ट्रेलर’ जल गए। इकराम ने जब उससे जानना चाहा कि अब क्या करोगे तो वह चिलख पड़ा। बोला, ‘मौका मिलते ही चला जाऊँगा।’ पुलक शायद कहता ही रहता। लेकिन सुरंजन ने उसे डपट कर चुप करा दिया। बोला, ‘शट अप! और एक भी दात मत कहना। और कुछ भी कहोगे तो तुम्हें पीटूँगा।’

पुलक पहले तो सुरंजन के डपटने से घबड़ा गया। वह समझ नहीं पाया कि सुरंजन इस तरह का अस्वाभाविक आचरण क्यों कर रहा है। शराब के नशे में? हो

सक्रिया है ! देवद्रवत की ओर देखते हुए सूखे होठों से मुस्कराया ।

काफी समय तक कोई कुछ नहीं बोला । सुरंजन की गिलास तेजी से खत्म होने लगी । वह शराब पीने का आदी नहीं है । कभी कभार किसी के घर साथ बैठने पर पी लेता है । वह भी बहुत धोड़ी-सी । लेकिन आज उसका जी कर रहा है, कई बोतल एक ही धूट में पी जाये । पुलक को चुप करा देने के बाद अचानक सारा वातावरण स्तब्ध हो गया । स्तब्धता के बीच सबको हैरान करता हुआ सुरंजन बिलखकर रो पड़ा । वह पुलक के कंधे पर सिर टेक कर विलाप करने लगा । पुलक के कंधे से सरक कर उसका सिर जमीन पर पड़ा । कमरे के अंदर धीमी रोशनी है, शराब की महक और सुरंजन की हृदय विदारक रुलाई सुनकर कमरे में बैठे हत्याक लोग आशंका से और भी काठ हो गये । वह पिछली रात के ही कपड़े पहने हुए है । अब तक बदत नहीं पाया । न नहाया, न खाया । धूत-धूसरित शरीर । और, उसी दशा में धूत में लोटते-लोटते सुरंजन ने कहा, 'माया को वे लोग कल रात उठा ले गये ।'

'क्या कहा ?' पुलक ने चौंककर सुरंजन को देखा । एक ही साथ देवद्रवत, नयन और विरुपाक्ष ने भी ।

सुरंजन का शरीर तब भी दबी हुई रुलाई से हिल रहा था । शराब पड़ी की पड़ी रह गयी । गिलास उलटी पड़ी थी । बची हुई गिलासों की शराब जमीन पर पड़ रही थी । 'माया नहीं है' इस वाक्य के आगे सब तुच्छ हो गया । किसी को कहने के लिए कुछ शब्द नहीं मिला । इसके लिए तो ऐसा कोई सांत्वना-वाक्य नहीं है, जैसा बीमार आदमी से कहा जाता है—सोचो मत, जल्दी ही ठीक हो जाओगे ।

पूरा कमरा जब चुप्पी में झूबा हुआ था, तभी बेलात अंदर आया । उसने कमरे के माहीत को देखा । फर्श पर पड़े सुरंजन के शरीर को छूकर कहा, 'सुरंजन, सुना है माया को उठा ले गये हैं ?'

सुरंजन ने सिर नहीं उठाया ।

'जी० डी० एन्ड्री कराये हो ?'

सुरंजन ने फिर भी सिर नहीं उठाया ।

बेलात ने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए जवाब की उम्मीद की । लेकिन उनके भाव से पता चला कि किसी को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है ।

'कुछ पता सगाये हो, कौन लोग ते गये हैं ?'

सुरंजन ने इस बार भी सिर नहीं उठाया ।

बेलात विस्तर पर बैठ गया, सिगरेट सुलगायी । बोला, 'क्या कुछ शुरू हुआ है चारों तरफ ! गुड़े-बदमाशों को अच्छा भौका मिला है । उधर इंडिया में भी तौ हन लोगों को मार रहे हैं ।'

'आप लोगों को मतलब ?'

'मसलमानों को ! बी० जे० पी० तो पकड़कर धड़ापड़ काट रही है ।'

'ओह !'

'उधर की खबरें सुनकर इनका भी माथा ठीक नहीं है। किसे दोष दें ! वहाँ 'हमें' मार रहे हैं तो यहाँ 'तुम लोगों' को। क्या जस्तर थी मस्जिद तोड़ने की ! इतने बरसों की पुरानी मस्जिद। महाकाव्य के चरित्र से राम की जन्मभूमि छोजने के लिए मस्जिद को खोद रहे हैं इंडियन लोग। कुछ दिनों बाद कहेंगे ताजमहल में हनुमान का जन्म हुआ था, इसलिए ताजमहल तोड़ो। वस, तोड़ देंगे। भारत में कहते हैं सेकुलरिज्म की चर्चा होती है ! माया को आज क्यों उठा ले गये ? मुख्य नायक तो अडवाणी और जोशी हैं। सुना है, 'मटियावूर्ज' की हालत भयावह है !'

सुरंजन लावारिस लाश की तरह जमीन पर पड़ा रहता है। उस कमरे से आ रही किरणमयी के रोने की आवाज और सुधामय की अस्पष्ट कराह बेलाल के दुःख को और धना कर देती है।

'माया अवश्य लौट आयेगी। वे लोग तो जिन्दा लड़की को निगल नहीं जायेंगे। चाची जी से कहना, हिम्मत रखें। और तुम भी लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो ? रोकर समस्या का समाधान होगा ? और आप लोग भी बैठे क्यों हो ? लड़की गयी कहाँ, ढूँढ़ तो सकते हैं।'

विरुपाक्ष ने कहा, 'हमें तो अभी-अभी पता चला। किसी को पकड़ ले जाने पर क्या ढूँढ़ कर निकाला जा सकता है ? फिर खोजेंगे भी कहाँ !'

'जरूर गांजा-हेरोइन लेता होगा, मुहल्ले का ही कोई होगा। लड़की पर नजर थी ही। इसलिए मौका पाते ही उठा ले गया। अच्छे आदमी क्या यह सब करते हैं ? आजकल के शोहदे क्या धिनौनी हरकत कर रहे हैं। इसका मूल कारण आर्थिक अनिश्चयता है, समझे ?'

विरुपाक्ष ने सिर झुका लिया। इनमें से किसी से बेलाल का परिचय नहीं है। बेलाल उत्तेजित हो गया, पाकेट से 'वेंसन' और लाइटर निकाला। सिगरेट उसके हाथ में ही थी। बोला, 'शराब कोई समाधान हुई ? आप लोग ही कहिए, क्या शराब कोई समाधान है ? इस देश में कोई दंगा हुआ है ? यह सब तो दंगा नहीं है। भिठाई खाने के लातच में लड़के भिठाई की दुकान लूटते हैं। सुना है, भारत में अब तक चार हजार कि छह हजार दंगे हो चुके हैं। हजारों-हजार मुसलमान मर चुके हैं। यहाँ कितने हिन्दू मरे ? हर हिन्दू इलाके में ट्रक भर-भर के पुलिस लगायी गयी है !'

कोई कुछ नहीं बोला। सुरंजन भी नहीं। उसकी बात करने की इच्छा नहीं होती। उसे बहुत नींद आ रही है। बेलाल सिगरेट नहीं सुलगाता है। पास ही जरा एक काम है, बोलकर चला जाता है। एक-एक कर दूसरे भी चले जाते हैं।

गोपाल के घर को भी लूटा गया है। ये सुरंजन के बगल वाले मकान में ही रहते हैं। एक दस बारह वर्ष की लड़की सुरंजन के घर आयी। वह गोपाल की छोटी बहन है। आते ही उसने इनका टूटा-फूटा घर देखा। वह कमरे में दबे पाँव चताती है। सुरंजन लेटे-लेटे उसे देखता रहा, वह लड़की उसे बिल्ती की तरह लगती है। इस उम्र में ही उसकी आँखों में नीला डर समाया हुआ है। वह सुरंजन के कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर गोल-गोल आँखों से देखती है। सुरंजन सारी रात फर्श पर ही पड़ा रहा। बरामदे की धूप को देखकर उसे पता चला कि दिन काफी निकल आया है। वह हाथ से इशारा करते हुए उसे बुलाता है। पूछा, 'तुम्हारा नाम क्या है ?'

'मादल !'

'किस स्कूल में पढ़ती हो ?'

'शेरे वांग्ला बालिका विद्यालय !'

इस स्कूल का नाम पहले 'नारी शिक्षा मंदिर था'। इरो तीला नाग ने बनवाया था। क्या आज कहीं भी लीला नाग का नाम लिया जाता है ? जिस वक्त लड़कियों के पढ़ने का प्रचलन नहीं था उस वक्त वह घर-घर जाकर लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए उत्साहित करती थी। ढाका शहर में उसने खुद भाग-दौड़कर खूबूल का निर्माण किया था। जो आज भी है। मतलब वह इमारत अब तक है, लेकिन नाम बदल गया है। संभवतः तीला नाग का नाम लेना भना है, 'नारी शिक्षा मंदिर' के नाम लेने पर भी अलिखित निषेधाज्ञा है या नहीं क्या पता। यह भी बी० एम० कालेज० एम० सी० कालेज की तरह ही है। ताकि संक्षेपीकरण की गाँठ खुलने पर मुसलमान देश में हिन्दुत्व फिर से प्रकट न हो जाए। इकहत्तर में भी ढाका के रास्ते का नाम परिवर्तन करने की साजिश चल रही थी। पाकिस्तानी लोगों ने शहर के 240 रास्तों का नाम बदल कर इस्लामिक नाम रख दिया था। सातमोहन पोद्दार तेन को अब्दुत करीम गजनवी स्ट्रीट, शंखारी नगर तेन को गुल बदन स्ट्रीट, नवीन छाँद गोस्यामी रोड को बछतियार खितजी रोड, कालीचरण साहा रोड को गाजी साताउद्दीन रोड, राय बाजार को सुल्तानगंज, शशिभूषण चटर्जी तेन को सैयद सतीम स्ट्रीट, इंदिरा रोड को अनार कली रोड कर दिया गया।

बच्ची ने पूछा, 'आप मिट्टी पर क्यों सो रहे हैं ?'

'मिट्टी मुझे अच्छी लगती है !'

'मिट्टी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। हमारे इस घर में आँगन था, हम सोग इस मकान को छोड़कर जा रहे हैं, नये मकान में आँगन नहीं है। मिट्टी भी नहीं है !'

'इसका मतलब है तुम ये तेर भी नहीं पाओगी !'

वह सुरंजन के सिरहाने के दास चौकी की पाई से दीठ टिकाती हुई बैठ जाती है। उसे भी सुरंजन के साथ बात करते हुए अच्छा लग रहा है। वह रह-रहकर तभी सोचा छोड़ती है और कहती है, 'मुझे यहाँ से जाते हुए माया हो रही है।' उस लड़की

के 'माया' शब्द उच्चारण करते ही सुरंजन का शरीर सिहर उठा। वह उसे और नजदीक आकर बैठने को कहता है। मानो अब वह ही माया है। बचपन की माया, अपने भैया के पास बैठकर बातें करती थी जो लड़की ! स्कूल की बातें, खेलकूद की बातें ! कितने दिन हो गये वह माया को पास बैठाकर बात नहीं किया। बचपन में नदी के किनारे सुरंजन अन्य बच्चों के साथ मिलकर भिट्ठी का घर बनाया करता था। माया भी बनाती थी। शाम को बनाकर रखते थे, और रात के अंधेरे में उफनता हुआ पानी उनके उन घरोंदों को तोड़ जाता था। हवाई मिठाई खाकर जीभ गुलबी करने वाले वे दिन, वह महुआ मलूचा का दिन, घर से भागकर काशबन में धूमने वाले वे दिन.....उस लड़की को सुरंजन हाथ बढ़ाकर छूता है। माया की तरह नरम-नरम हाथ। माया का हाथ अब कौन लोग पकड़ा होगा, अवश्य ही कोई निर्मम, कर्कश हाथ। क्या माया भागना चाह रही होगी ? भागना चाह रही होगी, फिर भी भाग नहीं पा रही है। उसका शरीर फिर सिहर उठा। वह मादल का हाथ पकड़े ही रहता है। मानो वह ही माया है। छोड़ने पर कोई उसे पकड़कर ले जायेगा। किसी मज़्यूत रस्सी से बाँध देगा। मादल ने पूछा, 'आपका हाथ क्यों काँप रहा है ?'

'काँप रहा है ? तुम्हारे लिए बहुत माया हो रही है। तुम चली जाओगी जो !'

'हम लोग तो इंडिया नहीं जा रहे हैं। मीरपुर जा रहे हैं। सुवला लोग तो इंडिया चली जा रही है।'

'जब वे लोग तुम्हारे घर में घुसे, तुम क्या कर रही थीं ?'

'वरामदे में खड़ी होकर रो रही थी। डर से। वे लोग हमारे टेलीविजन को भी उठा ले गये हैं। अलमारी से गहने का बक्सा ले गये और पिताजी का रुपया भी ले गये।'

'तुम्हें उन लोगों ने कुछ नहीं कहा ?'

'जाते रामय मेरे गात में जोर से दो थप्पड़ मारा और कहा—चुप रहो, रोना मत।'

'और कुछ नहीं किया ? तुम्हें पकड़कर ले जाना नहीं चाहा ?'

'नहीं। माया दीदी को उन लोगों ने बहुत मारा है न ? मेरे भैया को भी मारा। भैया सोया हुआ था। उसके सिर पर लाठी से मारा। बहुत खून बहा।'

सुरंजन सोचता है माया यदि मादल के उम्र की होती तो शायद बच जाती। उसे उस तरह से खींच-तानकर कोई नहीं लेता। माया को कितने लोगों ने मिलकर बलात्कार किया होगा ? पाँच ? चात ? या उससे भी ज्यादा। क्या माया का बहुत खून वह रहा है ?

मादल ने कहा, 'मैं ने मुझे भेजा है, कहा है जाओ भौसीजी के साथ मिल आओ। भौसीजी तो खून रो रही हैं।'

'मादल तुम मेरे साथ धूमने चलोगी ?'

‘मौ सोचेगी ?’

‘मौं से पूछ कर घलना !’

माया हमेशा कहती थी, ‘मैया, एक बार काक्स बाजार में धुमाने ते जाओगे ? घलो न मधुपुर जंगल में घलते हैं। मुझे बहुत सुन्दर वन देखने की इच्छा होती है।’ कुछ दिनों तक तो जीवनानन्द की कविता पढ़कर जिद्द करने तभी कि ‘नाटोर’ जाएंगे। सुरंजन माया की हर जिद्द को ‘धत्’ कहकर टाल देता था। कहता, ‘रखो तुम्हारा नटोर-फटोर। उससे अच्छा है तेजगाँव बस्ती में जाओ, तोगों को देखो। मनुष्य का जीवन देखो। उन पेड़-पीपों, पहाड़-पर्वतों को देखने से ज्यादा बेहतर होगा।’ माया का सारा उत्साह फुर्र हो जाता था। आज सुरंजन को महसूस हो रहा है, कि क्या फायदा हुआ जीवन देखकर ? क्या फायदा हुआ जन्म से मनुष्य का भता चाहक ? कृषि श्रमिकों का आन्दोलन, प्रतेतारियेत उत्थान, समाजतंत्र का विकास, इन बातों को सोचने से क्या फायदा। आखिरकार समाजतंत्र का पतन तो ही ही गया। रसी बौद्धकर लेनिन को उतार ही दिया गया। अंततः हार तो हुई ही, जो लड़के मानवता का गीत गाते फिरते थे, उन्हीं के घर पर ज्यादा अमानवीय हमला हुआ।

मादल धीरे से उठ जाती है। उसके हाथ से माया के हाथ की तरह मादल का कोमल हाथ भी छूट गया।

हैदर आज भी नहीं आया। या फिर वह रण से भग लिया है ! वह और झमेते में पड़ना नहीं चाहता। सुरंजन भी समझता है कि माया को दूँढ़ना व्यर्थ है। माया को यदि वापस लौटना होगा तो उस छह वर्ष की बच्ची की तरह छुट ही वापस आ जायेगी। सुरंजन को बहुत खाली-खाली लग रहा है। जब माया पाठ्ठ के घर पर थी, तब भी यह घर इसी तरह निस्तव्य था, लेकिन उसे ऐसा तो नहीं लग रहा था। वह जानता था कि माया है, वापस आ जायेगी। लेकिन अब तो घर श्मशान की तरह लग रहा है। मानो किसी की भीत हो गई है। कमरे में, शारब की बोतल, पैर के पास तुदकी हुई गितासें, बिछरी हुई किताबें, इन सबको देखते-देखते सुरंजन की सूनी छाती में पानी भर आया। मानों आँखों का सारा पानी छाती में ही आकर जमा हो गया है।

इस बात कमाल, रविउल कोई भी सुरंजन का हातचाल पूछने नहीं आया। सोचा होगा जिनकी जिन्दगी है वही संभाले ! कल रात जब बेतात आया था उसके स्वर में भी वही एक ही राग सुरंजन को सुनाई दिया था, ‘तुम तोग हमारी बाबरी मस्जिद क्यों तोड़े हो ?’ सुरंजन ने सोचा, बाबरी मस्जिद भारतीयों का मस्जिद है, यह मस्जिद भता बेतात का कैसे होगा ? फिर सुरंजन ने बाबरी मस्जिद कैसे तोड़ा ? सुरंजन तो कभी भारत गया ही नहीं। वह कैसे मस्जिद तोड़ेगा ? तो क्या बेतात भारत के हिन्दू और इस देश के हिन्दू को एक करके देख रहा है ? हिन्दू मस्जिद तोड़ा है, इसका अर्थ सुरंजन तोड़ा है ? अयोध्या के कट्टरवादी हिन्दू और सुरंजन एक ही है ? भारत द्वे

मस्तिष्ठ सोड़ने का अपराध सुरंजन का है ? धर्म के सामने देश और जाति तुच्छ हो जाती है ? होता होगा, जो अशिक्षित, दुर्वल हैं, जो धर्म का खम्भा जकड़ कर जिन्दा रहना चाहते हैं, वे ऐसा सोचेंगे, लेकिन वेलाल ऐसा क्यों सोचेगा ? इन सवालों का उसे कोई जवाब नहीं मिलता । उसकी मेज पर दो केला और एक विस्कुट रखा हुआ है । किरणमयी चुपचाप आकर रख गई है । उसे खाना न खाकर बोतल में बची शराब को पीने की इच्छा होती है । कल रात जब वह गहरी नींद में सो रहा था, माया वार-वार नींद में आकर उसे चूर-चूर कर रही थी । चेतना आते ही उस लड़की का चेहरा उभर आता था । आँखें बंद करते ही लगता था कि एक झुंड कुत्ते उसे नींच-नींच कर खा रहे हैं ।

हैदर एक बार पूछने तक नहीं आया कि माया का कुछ पता चला या नहीं । आतंकवादियों को हैदर जितना पहचानता है सुरंजन उतना नहीं पहचानता इसीलिए उसे उसकी शरण में जाना पड़ा । वरना वह खुद ही हर गली-कूचे को छान सकता था । वैसे हिन्दुओं का बलात्कार करने के लिए अब किसी गली-कूचे में जाने की ज़सरत नहीं पड़ती, वह खुले आम किया जा सकता है । जिस प्रकार खुले आम लूट-पाट होती है । तोड़-फोड़ होता है, जलाया जाता है । हिन्दुओं पर अत्याचार करने के लिए आजकल किसी तरह के पर्दे की आड़ नहीं लेनी पड़ती है । एक तरह से तो इसमें सरकार का सपोर्ट है ही, क्योंकि यह सरकार तो सेक्यूलर राष्ट्र की सरकार नहीं है । इसलिए चालाकी से वह कट्टरपंथियों के स्वार्थ की ही रक्षा कर रही है । शेख हसीना ने तो उस दिन कहा ही है कि भारत के चौदह करोड़ मुसलमानों की जानमाल की रक्षा के स्वार्थ से ही हमें अपने देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखना होगा । शेख हसीना को क्यों भारत के मुसलमानों की बात पहले सोचनी पड़ती है ? इस देश के नागरिकों के नागरिक अधिकार के कारण ही क्या साम्प्रदायिक सद्भावना की रक्षा करना जरूरी नहीं है ? अपने देश के नागरिकों के जानमाल से अधिक भारतीय मुसलमानों के जानमाल के प्रति ज्यादा सहानुभूति दिखाने की ज़सरत क्यों पड़ती है ? तो क्या मान लेना पड़ेगा कि जमाती इस्लामी 'भारत विरोधिता व इस्लाम' मसाले से आज जो पकाकर जनता को परोस रहे हैं, वही मसाला आवामी लीग को भी व्यवहार करना पड़ रहा है ? यह भी कम्युनिस्टों के इस्लामी मुख्योद्योग पहनने की चतुराई है ? भारत के मुसलमानों के स्वार्थ के लिए नहीं, इसका सबसे मौलिक और तर्कपूर्ण कारण है 'संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण । अपने धर्म और विश्वास-सहित जीवन और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार इस देश के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते हिन्दुओं के लिए भी स्थीकृत है । किसी धर्म या राजनैतिक दल की कृपा से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की कृपा से नहीं, हिन्दुओं के जीने का अधिकार राष्ट्रीय नीति में ही है इसीलिए वे अन्य दस मनुष्यों की तरह ही जीयेंगे । क्यों सुरंजन की कमाल, वेलाल या हैदर की शरण में, अनुकंपा में जीना होगा ।

चट्टग्राम के भीर सराय में छात्र यूनियन नेता कमात भौमिक के घर में आग लगाये जाने से उसकी चाची जल कर मर गयी। कुतुबदिया के हिन्दू मुहल्ते में आगजनी में तीन बच्चे जलकर मर गये। सात काइनिया के नाथपाड़ा का सूर्य मोहन आग में जल गया। भीर सराय के बासुदेव से जब पूछा गया कि गाँव पर किन लोगों ने हमला किया तो बासुदेव ने कहा, 'रात में जो लोग मारते हैं, दिन में वही सहानुभूति जताते हुए कहते हैं, 'तुम लोगों के लिए दित रोता है।' खाजुरिया का यात्रामोहन नाथ पूछने पर कहता है, 'इससे अच्छा है, मुझे गोती से उड़ा दीजिए। यही ठीक रहेगा।' और इधर साम्प्रदायिक हिंसा शुरू होने के छह दिन बाद बांग्लादेश के असाम्प्रदायिक राजनीतिक दलों को लेकर राष्ट्रीय समन्वय कमेटी ने सांस्कृतिक गुटों की साझेदारी में सर्वदत्तीय साम्प्रदायिक सद्भावना का निर्माण किया है। साम्प्रदायिकता की आग जब दुश्म चुकी है, तब कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी एक शांति जुलूस निकालने और आम सभा आयोजित करने के लिया कोई और कार्यक्रम सेने में व्यर्थ सावित हुई है। आम सभा से जमात शिविर-फ्रीडम पार्टी की राजनीति को प्रतिबंधित करने की भाँग की जायेगी। इस भाँग को सद्भावना कमेटी कितना महत्व देगी, सरकार की ओर से जमात शिविर-फ्रीडम पार्टी को प्रतिबंधित न किये जाने पर, वह देशव्यापी आन्दोलन में उत्तरेगी भी या नहीं, सुरंजन जानता है कि इस मुद्दे पर कोई भी नेता मुँह नहीं छोतेगा। कमेटी के किसी-किसी सदस्य ने तूटपाट करनेवालों के खिलाफ मुकदमा चलाये जाने की बात भी कही है। लेकिन शनि अद्याइ के एक पीड़ित-प्रताड़ित व्यक्ति ने कहा, 'शनि अद्याइ में जिन लोगों ने तोड़-फोड़ की, हमारे घरों को जलाया, तूटपाट की, उन्हें हम जानते हैं। लेकिन हम लोग मुकदमा नहीं करेंगे क्योंकि जब विरोधी दल हमारे ऊपर हुए हमते को रोक नहीं पाये, तब मुकदमे के बाद वे हमें क्या सुरक्षा दे पायेंगे।' मुकदमा चलाने की बात को लेकर समूचे देश में ऐसी ही प्रतिक्रिया होगी। मुकदमा करने की अपील को सुरंजन राजनीतिक स्टॉट ही मानता है। लोकतांत्रिक ताकतें तेजी से कार्यक्रम लेकर साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए आगे नहीं आ पायी। उनकी तुलना में साम्प्रदायिक ताकतें ज्यादा संगठित रूप में तेजी से अपना काम कर गयी। एक हफ्ते बाद 'सर्वदत्तीय सद्भावना कमेटी' का गठन करके लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों एवं संगठनों की आत्मतुष्टि का कोई कारण नहीं है। पाकिस्तान और भारत की तुलना में बांग्लादेश में साम्प्रदायिक दलों का हुए है, ऐसा संतोष अनेक बुद्धिजीवियों को है, लेकिन सुरंजन समझ नहीं पाता है कि वे लोग क्यों नहीं समझना चाहते कि बांग्लादेश में घटनाएँ एकतरफा होती हैं। यहाँ के हिन्दू भारत के मुसलमानों की तरह पतटकर वार नहीं करते। यही कारण है कि यहाँ दंगे कम होते हैं। इस उपमहादेश के तीनों राष्ट्रों के सत्तारूढ़ दलों ने राजनीतिक फायदे के लिए कट्टरपंथी, फासिस्ट ताकतों से हाथ मिता रखा है। कट्टरपंथियों ने ताकत इकट्ठी की है। भारत, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अल्जीरिया,

मिस्र, ईरान, साइपरिया में उनका एक ही मकसद है लोकतांत्रिक ताकतों को चोट पहुँचाना। जर्मनी की सरकार ने तीन तुर्की नागरिकों को जलाकर मारने के अपराध में दो फासिस्ट दलों पर प्रतिवंध लगा दिया है। भारत में भी साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिवंध लगाया गया। तेकिन भारत का यह प्रतिवंध कितने दिनों तक टिकेगा, कहा नहीं जा सकता। अल्जीरिया में भी प्रतिवंध लगा है। मिस्र की सरकार ने कड़ाई के साथ कट्टरपंथियों का दमन किया है। ताजिकिस्तान में कट्टरपंथियों और कम्युनिस्टों के बीच लड़ाई जारी है। क्या वांगलादेश की सरकार ने भूल कर एक बार भी कट्टरपंथी, फासिस्ट दलों पर प्रतिवंध लगाने की वात कही है! चाहे और किसी भी देश में धर्म को लेकर राजनीति बंद हो जाये, इस देश में नहीं हो सकती।

भारत के उग्र साम्प्रदायिक दलों की कृपा से सत्तारूढ़ वी० एन० पी० सरकार 'गुलाम आजम मुकदमा प्रकरण' को ध्यान में रखकर आंदोलन के रुख को साम्प्रदायिकता की दिशा में मोड़ देने में सफल हुई है। इस मामले में जमात शियर-फ्रीडम पार्टी और दूसरे साम्प्रदायिक दलों की तत्परता ने सरकार को मदद पहुँचाई है। जमाते-इस्लामी देशवासियों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़कर 'गुलाम आजम मुकदमे के आन्दोलन' के दबाव से निश्चिन्त हुई है। सांस्कृतिक संगठनों के साझे जुलूस में नारे लगाये गये — 'साम्प्रदायिक दंगाबाजों को रोकेगा अब वांगलादेश।' आहा वांगलादेश। सुरंजन सिगरेट फूंकते-फूंकते बोला, 'साला सुअर का बच्चा, बांगलादेश।' यह गाती उसने वार-वार दुहरायी। उसे काफी आनन्द आ रहा था। अचानक हँस पड़ा, उसकी वह हँसी खुद को ही बड़ी क्रूर लगी।

मादल, किरणमयी के बदन से सटकर बैठी है। कहती है, 'मौसी जी, म म लोग मीरपुर चले जा रहे हैं। वहाँ गुड़े जा नहीं पायेंगे।'

'क्यों नहीं जा पायेंगे?'

'मीरपुर तो बहुत दूर है, न।'

मादल समझती है कि गुंडे सिर्फ टिकादुली में ही रहते हैं। मीरपुर दूर है इसलिए वे वहाँ नहीं जाते। किरणमयी सोचती है जो लोग हिन्दुओं का घर लूटते हैं, तोड़ते हैं, जलाते हैं, मायाओं को उठा ले जाते हैं, क्या वे सिर्फ गुंडे हैं? गुंडे तो हिन्दू-मुसलमान नहीं मानते, सभी धरों पर हमला करते हैं। जो लोग धर्म देखकर लूट करते हैं, अपहरण करते हैं, उन्हें गुंडा कहने से 'गुंडा' नाम का अपमान ही होगा।

सुधामय सोये हुए हैं। सोये रहने के अलावा तो उनको कोई काम नहीं है। अचत, व्यर्थ जीवन लेकर जिन्दा रहने की क्या जरूरत है। खामखाह किरणमयी को काट दे रहे हैं; सब कुछ सहने वाली धरती की तरह हैं किरणमयी, जरा भी क्लांति

नहीं है उनमें। सारी रात आँख बढ़ाती हैं, क्या उनकी इच्छा होती है सुबह उठकर चूल्हा जलाने की! फिर भी जलाना पड़ता है। पेट की भूख तो सबको पछाड़ कर आगे आ जाती है। सुरंजन ने तो नहाना-खाना छोड़ ही दिया है, किरणमयी भी काफी हद तक उसी तरह हो गयी है, सुधामय की भी खाने में रुचि नहीं है। माया तो आज भी नहीं लौटी! क्या माया अब नहीं लौटेगी? काश, अपने जीवन के बदले माया को वापस ला पाते? यदि चौराहे पर छाड़ा होकर कहा जा सकता, 'माया को वापस चाहता हूँ। माया को वापस माँगने का मुझे अधिकार है।' अधिकार? यह शब्द अब सुधामय को अर्थहीन लगता है। छियातिस में तब उसकी उप्र ही कितनी रही होगी, कातीबाड़ी की एक दुकान में 'संदेश' खाकर उन्होंने कहा, 'एक मिलास पानी दोगे, भाई!' शहर में उस वक्त हिन्दू-मुसलमान के बीच असंतोष घना हो उठा था। मिठाई की दुकान में बैठे कुछ मुसलमानों ने उन्हें तीखी निगाह से देखा था। सुधामय 'जल' नहीं माँग सकते थे। डर से? शायद डर से ही, बरना और क्या!

अंग्रेजों ने इस बात को समझा था कि हिन्दू-मुसलमानों की एकता व सद्भावना को तोड़ दिना उनके लिए भारत में उपनिवेशी शासन और शोषण करना संभव नहीं। उनकी कूटनीति से ही पैदा हुआ डिवाइड एंड रूल। सुधामय ने सोचा, ऐसा कैसे संभव हुआ जहाँ नब्बे फीसदी किसान मुसलमान थे, वही नब्बे फीसदी जमीन हिन्दुओं की थी। जमीन को लेकर ही रसी-चीनी क़ाति, जमीन को सेकर ही बंगात में हिन्दू-मुसलमान का संघर्ष। जमीन का संघर्ष ही धर्म का संघर्ष होकर छाड़ा हुआ। अंग्रेजों के त्रुट्टिकरण से ही इस बंगात में 1906 में साम्राज्यिकता के आधार पर 'मुस्तिम सीग' का जन्म हुआ था। अधिभाजित भारत के सामाजिक-राजनीतिक जीवन को साम्राज्यिक विष से कतुपित करने के लिए यह दल ही उत्तरदायी है। वैसे कांग्रेस भी दोषमुक्त नहीं रही। सन् सैंतातीस के बाद चौबीस वर्ष तक साम्राज्यवाद के सहयोगी पाकिस्तानी शासकों ने इस्लामी इतिहास, भारत विरोधी स्वर और साम्राज्यिकता का घुआँ उड़ाकर इस देश के गणतांत्रिक मनुष्य के अधिकार का हरण किया था। इकहत्तर में उस अधिकार को वापस पाकर सुधामय ने निश्चिन्ता की रौस ती धी। लेकिन उनकी साँस बीच-बीच में ही अटकने लगती है। बांग्लादेश के स्थाधीन होने के बाद चार राष्ट्रीय मूलनीतियों में एक धर्म निरपेक्षता को भी स्थान दिया गया। यह थी साम्राज्यिक पुनर्व्यापार के विरुद्ध एक दुर्जय दीवार। पचहत्तर के पंद्रह अगस्त के बाद ही साम्राज्यिकता का नया जन्म हुआ। साम्राज्यिकता से गठबंधन हुआ हिंसा, कहरपंथ, धर्मनिपत्ता, स्वेच्छावार का। साम्राज्यिक सोच को भद्रता का तिबास पहनाने के लिए एक आदर्श आपारित सिद्धांत की जस्त फ़िटी है। पाकिस्तान बनाने से पहले इस सिद्धांत का नाम दिया गया 'द्विराष्ट्रीयता का सिद्धांत' और बांग्लादेश में पचहत्तर के बाद इसी का नाम हुआ बांग्लादेशी राष्ट्रीयतावाद। हजारों बरांगों की

बांग्ला विरासत को धो-पोंछकर उन्हें बांग्लादेशी होना होगा। बांग्लादेशी गाय, गधा, धान, पाट की ही तरह मनुष्य भी अब 'बांग्लादेशी' है। सन् अडासी के आठवें संशोधन के बाद बांग्लादेश के संविधान में लिखा गया—The State religion of the Republic is Islam, but other religions may be practised in peace and harmony in the Republic. यहाँ पर may be शब्द क्यों कहा गया? shall be क्यों नहीं? मौलिक अधिकारों के बारे में वैसे लिखा हुआ है 'सिर्फ धर्म, समूह, वर्ण, स्त्री, पुरुष भेद या जन्म स्थान के कारण किसी नागरिक के प्रति राष्ट्र वैषम्य का प्रदर्शन नहीं कीजिएगा।' लेकिन विषमता की बात स्वीकार न करने से क्या होगा, विषमता यदि मौजूद न हो तो माया को वे लोग क्यों उठा ले गये। क्यों गाली देते हैं 'मालाउन का बच्चा' कहकर? गुंडे क्या 'मालाउन का बच्चा' कह कर गाली देते हैं? वैसा होने पर यह सिर्फ गुंडागर्दी नहीं, और कुछ भी है। जो दिन व दिन घना होता जा रहा है। स्कूल की जगह देश में मदरसे बढ़ रहे हैं, मस्जिदें बढ़ रही हैं, इस्लामी जलसे बढ़ रहे हैं, माइक में अजान बढ़ रही है, एक मुहल्ले में दो-तीन घरों के अंतराल पर मस्जिद, चारों तरफ उसके माइक। वैसे हिन्दुओं की पूजा के समय माइक पर रोक रहती है। यदि माइक बजता ही है तो सिर्फ मुसलमानों का माइक ही क्यों बजेगा? राष्ट्र संघ मानवाधिकार सार्वजनिक धोषणापत्र की अडाइसरी धारा में कहा गया है, 'प्रत्येक को सोच, विवेक और धर्म की स्वाधीनता का अधिकार है। अपने धर्म अथवा विश्वास परिवर्तन की स्वतंत्रता एवं अकेले अथवा दूसरों से मिलकर और खुले आम या गोपनीय रूप से अपने धर्म या विश्वास के अनुरूप शिक्षा-दान, प्रचार, उपासना और पालन के जरिए व्यक्त करने की स्वतंत्रता इस अधिकार में अंतर्भित है।' यदि ऐसा ही है तो हिन्दुओं के मंदिर क्यों तोड़े गे, हालाँकि सुधामय का मंदिर में विश्वास नहीं है, फिर भी मंदिर को ही तोड़े जाने का पक्ष वे नहीं ले सकते। और, यह जो इतनी तोड़-फोड़, आगजनी हो रही है, क्या इनके लिए कोई सजा नहीं है? 'पेनलकोड' में इसकी सजा एक साल, ज्यादा से ज्यादा दो साल या बहुत ज्यादा हो तो तीन साल लिखी गयी है।

सुधामय की खुद की बीमारी को पीछे छोड़ते हुए अन्य बीमारियाँ उन्हें ग्रस लेती हैं। एक-एक क्रमशः अस्वस्थ होता जा रहा है। तंबे समय के संग्राम के बाद पाकिस्तानियों के चंगुल से बंगालियों को मुक्ति मिली, स्वाधीन देश का एक संविधान तभा "We the people of Bangladesh having proclaimed our Independence on the 26th day of March 1971 and through a historic Struggle for national liberation, established the independent, Sovereign People's Republic of Bangladesh."

Pledging that the high ideals of nationalism, socialism, democracy, and secularism, which inspired our heroic people to dedicate themselves to, and our brave martyrs to sacrifice their lives in, the

national liberation struggle, shall be the fundamental principles of the constitution.

Struggle for national liberation 1978 में बदल कर a historic war for national independence हो गया। और.....high ideas of absolute trust and faith in the Almighty Allah] nationalism, democracy and socialism meaning economic social justice किया गया, ऊपर से liberation struggle हो गया independence.

बहतर के सविधान को बदल कर अठहतर के सविधान की शुरुआत में विसमिल्लाहिर रहमानी रहीम (दयावान, परम दयातु, अल्लाह के नाम पर) बैठाया गया Secularism and freedom of religion.

12. The principle of Secularism shall be realised by the elimination of

- Communalism in all its forms.
- the granting by the state of political status in favour of any religion.
- the abuse of religion for political purposes.
- any discrimination against or persecution of persons practising a particular religion.

संविधान की 12वीं धारा को पूर्ण रूप से जड़ा दिया गया है। सेक्यूरिटिज्म को छत्म करके 25(2) नम्बर धारा में, 'राष्ट्र इस्लामी एकता के आधार पर मुस्लिम देशों के बीच माईचारे को जोरदार करने, बनाये रखने एवं उसे मजबूत करने के तिए सचेष्ट होइएगा,' को जोड़ा गया है।

बहतर के सविधान के छह नम्बर धारा में कहा गया था 'The citizenship of Bangladesh shall be determined and regulated by law; citizens of Bangladesh shall be known as Banglaless. इसे जिपाउर रहमान ने The citizens of Bangladesh shall be known as Bangladeshis किया।

सुधामय की ओर्छों में अंधेरा छा जाता है। दोषहर नहीं बीती, अभी से कमरे में इतना अंधेरा क्यों होगा ! तो क्या उनकी ओर्छों की रोशनी घट रही है। या फिर बहुत दिन हो गये चश्मा नहीं बदला, इसलिए। कहीं ओर्छों में जाता तो नहीं पड़ रहा है। या फिर बार-बार ओर्छों में पानी आने से उनकी नजर धूंधता रही है।

सुरुजन भी कैसा बदलता जा रहा है। एक बार भी पास आकर नहीं बैठता। माया को उठा ले जाने के बाद से भूतकर भी उसने इस कमरे में कदम नहीं रखा। सुधामय इस कमरे से ही उस कमरे में चल रही अहैवाजी व शराब पीने की आयाज सुनते हैं। क्या वह तड़का बिगड़ता जा रहा है ? उन्होंने सुरुजन को पर में शराब दीते हुए कभी नहीं देखा। अब तो वह किसी की परवाह ही नहीं करता। दो ही टिने—दे वह अपनी माँ को भी भूत गया ! सुधामय को यकीन नहीं आता, सुरुजन का

चुप्पी साधूङ्गेना सुधामय को और भी व्याकुल कर देता है। वह लड़का बर्बाद तो नहीं हो रहा है !

सुरंजन कहीं नहीं जायेगा। माया को ढूँढ़ने से कोई फायदा नहीं, यह वह समझ गया है। रास्ते में निकलते ही लोग कहेंगे, 'साला मालाउन का बच्चा !' इससे तो अच्छा है घर में ही पड़ा रहे। यह सब सुनते-सुनते सुरंजन के कान सड़ते जा रहे हैं। अब वह किसी समाजवादी पार्टी, वामपंथी नेता-वेता पर विश्वास नहीं करता। उसने बहुतेरे वामपंथियों को 'साला, मालाउन का बच्चा' कहकर गालियाँ देते सुना है। कृष्ण विनोद राय को सभी कहते थे कवीर भाई। रवीन दत्त को नाम बदलकर अब्दुस्सलाम होना पड़ा। कम्युनिस्ट पार्टी में रहकर भी यदि हिन्दू नाम बदलना पड़ा तो और किस पार्टी पर भरोसा किया जाये ! या वह जमात पार्टी में नाम लिखायेगा ? सीधे निजामी से जाकर कहेगा, 'हुजूर, अस्सलाम वालेकुम !' दूसरे दिन अखबारों में मोटे-मोटे अक्षरों में निकलेगा, 'हिन्दू का जमाते इस्लामी में योगदान !' सुना है, गोवर गणेश होकर भी जमाते इस्लामी को वोट मिलता है। इसका कारण है रूपया। हर महीने पाँच हजार रुपया मिलने पर कौन जमाती को वोट नहीं देगा। सुरंजन वामपंथी दलों से बदला लेना चाहता है। जिन्होंने उसे आशा के बदले निराशा में डुबा दिया। दल के लोग एक-एक कर दूसरे दल में घुस गये। आज एक बात कहते हैं तो कल दूसरा कुछ। कामरेड फरहाद के मर जाने पर सी. पी. बी. ऑफिस में कुरानखानी और मिलाद महफिल का आयोजन किया गया। धूमधाम से कामरेड का जनाजा निकाला गया। क्यों ऐसा हुआ, क्यों अंततः कम्युनिस्टों को इस्लामी झंडे के नीचे आश्रय लेना पड़ता है ? जनता के 'नास्तिकता के आरोप' से बचने के लिए ही तो ! क्या इससे वे लोग बचे भी हैं ? इतना सिर पीट कर भी देश की सबसे पुरानी पार्टी जनता का विश्वास अर्जित नहीं कर पायी। सुरंजन इसका दोष जनता को नहीं देता, देता है दिग्भ्रमित वामपंथी नेताओं को ही।

देश में आज मदरसों की तादाद बढ़ रही है, एक देश को आर्थिक दृष्टि से पंगु बनाने की इससे बेहतर परिकल्पना और क्या हो सकती है। शायद शेख मुजीब ने ही गाँव-गाँव में मदरसे को बढ़ावा दिया था। पता नहीं, कहाँ से कौन आकर इस देश का सर्वनाश कर गया। जिस जाति ने भाषा आंदोलन किया, इकहत्तर का मुक्ति युद्ध लड़ा, उस जति का ऐसा सर्वनाश आँखों से न देखने पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। कहाँ गया बंगली संस्कृति का वह बोध, 'कहाँ गया बांगला का हिन्दू, बांगला का बौद्ध, बांगला का क्रिश्चियन, बांगला का मुसलमान, हम सब बंगालि' का वह स्वर, वह चेतना ? सुरंजन वड़ा अकेला महसूस करने लगा। वहुत अकेला। मानो वह

बंगाती नहीं, मनुष्य नहीं, एक हिन्दू दोषाया जीव है जो सुद की जमीन पर 'भरवाढ़ी' होकर बैठा है।

इस देश के मंत्रालयों में 'धर्म मंत्रालय' नामक एक मंत्रालय है। धर्म के छाते में पिछले वर्ष का बजट बड़ा उपादेय था। सुरंजन इसे उपादेय ही कहेगा। विकास के मट में धार्मिक उद्देश्य से सहायता मंजूरी राशि: इस्तामी फेडरेशन को 1,50,00,000 रुपये, वक्फ प्रशासन के लिए 8,00,000 रुपये, अन्य धार्मिक छाते में 2,60,00,000 रुपये अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के लिए अमानत छाते में 2,50,000 रुपये। मस्जिद में मुफ्त विद्युत आपूर्ति के लिए 1,20,00,000। मस्जिद में मुफ्त जलापूर्ति के लिए 50,00,000 रुपये। दाका तारा मस्जिद 3,00,000 रुपये। कुल 8,45,70,000 रुपये। वायतुल मुकर्रम मस्जिद की देखरेख के लिए 15,00,000 रुपये। इनमें अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के लिए अमानत छाते में महज 2,50,000 रुपये की मंजूरी दी गयी। प्रशिक्षण और उत्पादनमुखी कार्यक्रमों के संचालन और प्रसार के लिए कुल 144 धार्मिक क्षेत्रों में 10,93,38,000 रुपये। देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या कीरीब टाई करोड़ है। टाई करोड़ तोगों के लिए टाई लाख रुपये की मंजूरी कितनी मजेदार बात है।

विकास के मट में धर्म मंत्रालय 20,00,000 रुपये। बांग्ला भाषा में इस्तामी विश्वकोष के संकलन व प्रकाशन के लिए 20,000 रुपये। इस्तामिक फाउंडेशन के इस्तामिक सांस्कृतिक केन्द्र की परियोजना के लिए 1,90,00,000 रुपये। इस्तामिक फाउंडेशन के प्रकाशन, अनुवाद और शोध कार्यक्रम के लिए 1,68,75,000 रुपये। इमाम प्रशिक्षण परियोजना, इस्तामिक फाउंडेशन के पुस्तकालय के विकास कार्यक्रम के लिए 15,00,000 रुपये। मस्जिद पाठगार परियोजना के लिए 25,00,000 रुपये। नवे जिलों में इस्तामिक सांस्कृतिक केन्द्र के प्रसार के लिए, इमाम प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एकेडेमी के लिए 1,50,00,000 रुपये। कुल 5,68,75,000 रुपये। फिर उपछाते में 2,60,000 रुपये का विभाजन इस प्रकार हुआ—इस्तामी धार्मिक अनुष्ठान/उत्सव-समारोह आदि के लिए 5,00,000 रुपये। इस्तामी धार्मिक संगठनों के लिए कार्य सूची मूलक सहायता की मंजूरी 28,60,000 रुपये। माननीय संसद सदस्यों के जरिये देश की विभिन्न मस्जिदों के पुनर्निर्माण/मरम्मत और पुनर्वास के लिए 2,00,00,000 रुपये। विदेश से आये और विदेश जाने वाले धार्मिक प्रतिनिधि दलों के दर्चक के लिए मंजूरी राशि 10,00,000 रुपये। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संख्या संबंधी अनुदान के लिए 6,40,000 रुपये। नव मुस्लिम व गरीबों के पुनर्वास के लिए 10,00,000 रुपये। कुल 2,60,00,000 रुपये। 1991-1992 के धार्मिक छाते के अनुमोदित बजट में पाया जाता है कि उन्नयन एवं अनुन्नयन छाते में कुल अनुमोदित राशि 16,62,13,000 रुपये है। इस बजट में नव मुसलमानों के पुनर्वास का द्याता भी बहुत मजेदार है। इस छाते में दस लाख रुपये की मंजूरी मिली है। तेकिन विकास छाते में अल्पसंख्यकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक दरिद्र देश जिसमें कई प्राचीर-बर्ग के तोग रहते

हों, किसी एक विशेष धर्म को ग्रहण करने, उसको बढ़ाने का यह प्रलोभन अत्यंत लज्जा का विषय है। देश की आर्थिक रीढ़ टूटी हुई है। प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ कितना है, क्या हमने एक बार भी इसका हिसाब लगाया है! देश की इस पंगु आर्थिक हालत में राष्ट्रीय वजट में इस्लाम संवंधी विषयों के लिए इतनी बड़ी राशि के अनुमोदन का क्या तर्क है? इतना ही नहीं, इस वजट में विभेदपूर्ण अनुमोदन ने राष्ट्रीय सद्भावना को भी नष्ट किया है। कोई क्या इस बारे में नहीं सोचता? सुरंजन इसके बारे में सोच ही रहा था कि देखा, काजल देवनाथ दरवाजा खोलकर अंदर आये।

'क्या बात है सुरंजन, वेवक्त सो रहे हो ?'

'मेरे लिए वक्त-वेवक्त क्या है!' सुरंजन हटते हुए काजल के बैठने की जगह कर देता है।

'माया लौटी ?'

'नहीं!' सुरंजन लंबी साँस छोड़ता है।

'क्या कर सकते हैं, बताओ तो। हम लोगों को कुछ तो करना चाहिए।'

'क्या कर सकते हैं ?'

काजल देवनाथ के अधपके बाल, उम्र चालीस के ऊपर, ढीला-ढाला शर्ट पहने हैं। उनके ललाट पर भी चिन्ता की सिकुड़न पड़ी है। सिगरेट निकालकर बोले, 'पिओगे क्या ?'

'दीजिए!' सुरंजन हाथ बढ़ाता है। बहुत दिनों से उसने सिगरेट नहीं खरीदी। पैसा किससे माँगेगा वह। किरणमयी से? शर्म के मारे तो उसने उस कमरे में जाना ही छोड़ दिया है। मानो माया के खो जाने की लज्जा उसी की है, सुरंजन को ऐसा ही लगता है। क्योंकि देश को लेकर ज्यादा उछल-कूद तो उसी ने की है, इस देश का आदमी असाम्प्रदायिक है, यह प्रमाणित करने के लिए वही ज्यादा चिल्लाता रहा है, लज्जा इसीलिए उसी की है। वह इस लज्जित चेहरे को लेकर सुधामय की तरह एक आदर्शवादी, सत्य और न्यायनिष्ठ व्यक्ति के सामने खड़ा नहीं होना चाहता। सुरंजन भूखे पेट सिगरेट पीता है। माया अगर देखती तो कहती, खंबरदार भैया, अच्छा नहीं होगा जो तुमने खाली पेट सिगरेट पी तो। तुम्हें कैंसर होगा, मर जाओगे।

सुरंजन को यदि कैंसर होता, तो नुरा नहीं होता। लेटे-लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करता किसी उम्मीद को लेकर जीना नहीं पड़ता।

काजल देवनाथ क्या करें, कुछ सोच नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, 'आज तुम्हारी वहन को उठा ते गये, कल मेरी लड़की को उठा लेंगे। उठाएंगे ही तो। आज गौतम के रियर पर चार किया है, कल मेरे या तुम्हारे सिर पर चार करेंगे।'

सुरंजन ने पूछा, 'हम लोग पहले मनुष्य हैं या हिन्दू, बताइए तो ?'

काजल कमरे में चारों तरफ देखकर बोले, 'यहाँ भी आये थे न ?'

‘हों।’

‘माया उस समय क्या कर रही थीं?

‘सुना है, पिताजी के लिए खाना लगा रही थीं।

‘उन्हें मार नहीं सकी?’

‘कैसे मारती? उनके हाथों में मोटी-मोटी लाठियाँ थीं, रॉड और तोहे की छड़ें थीं। फिर क्या हिन्दुओं की हिम्मत है जो मुसलमानों पर हाथ उठायें भारत के अल्पसंख्यक मुसलमान उल्टे बार करते हैं। दोनों में मारपीट होती है। उसे दंगा कहा जाता है। वहाँ दंगा होता है और तोग इस देश की घटनाओं को दंगा कहते हैं। यहाँ जो हो रहा है, यह है साम्प्रदायिक आतंक। इसे अत्याधार-उत्सीङ्ग कहा जा सकता है। एक दल, दूसरे दल को जी भरकर पीट रहा है, मार रहा है।’

‘क्या लगता है कि माया लौटेगी?’

‘पता नहीं।’ माया की चर्चा छिड़ते ही सुरंजन महसूस करता है कि उसके गते में कुछ अटका हुआ है, छाती के अंदर एक शून्यता आ जाती है।

‘काजत दा, देश में और क्या-क्या हुआ?’ सुरंजन माया का प्रसंग घृणा बढ़ाता है।

काजल देवनाथ छत की तरफ धुआँ छोड़कर बोते, ‘आठ हजार मकान, दो हजार सात सौ व्यावसायिक प्रतिष्ठान, तीन हजार छह सौ मंदिरों को हानि पहुँचाई गयी, तोड़ दिया गया। बारह लोग मारे गए और दो करोड़ रुपये की हानि हुई। गाँव के गाँव उजाड़ दिये गये। 43 जितों में ध्वंस-यज्ञ घताया गया। उत्सीङ्ग हुई दो हजार छह सौ स्त्रियाँ। बुरी तरह क्षतिग्रस्त मंदिरों में पांच सौ साल पुराना गौरांग महाप्रभु का प्राचीन मंदिर, जो सिलहट के दक्षिण में है, बनियाचंग की कई सौ साल पुरानी कातीबड़ी, चट्टग्राम का कैवल्यधाम, तुलसीधाम, भोला का मदनमोहन अखाड़ा, सुनामगंज और फरीदपुर के रामकृष्ण मिशन शामिल हैं।

सुरंजन ने पूछा, ‘सरकार की ओर से कुछ सहायता-वहायता नहीं मिली?’

‘नहीं, सरकार ने तो दिया ही नहीं, किसी स्वयंसेवी संस्था को भी मदद करने की अनुमति नहीं मिली। वैसे गैर-सरकारी कुछ संस्थाएँ निजी प्रयास और उत्ताह से आगे आयी हैं। हजारों हजार बेघर खुले आकाश के नीचे बैठे हैं। न कपड़ा है न खाना, न घर। बताल्कार की शिकार लड़कियाँ गूँगी हो गयी हैं, उनके मुँह में जुवान नहीं है। व्यक्तिगती सुब कुछ छोड़कर झाल प्राप्त हैं। झाल हक्क उर्हें ड्राकर रूपया देंदा ज्ञा रहा है, जमीन-जायदाद पर कब्जा किया जा रहा है। वरिशाल जिते में अनुमानिक पचहत्तर करोड़ रुपये की आवासीय वर्बादी हुई है। चट्टग्राम जिते में बीस करोड़ रुपये की, ढाका में दस करोड़ की, खुलना और राजशाही जिते में एक करोड़ रुपये की, यानी कुल एक सौ सात करोड़ रुपये की आवासीय राष्ट्रिय वर्बाद हुई है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कुस मिताकर बाइरा करोड़ रुपये की, सब मंदिरों को मिताकर

सत्तावन करोड़ रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है !

'और अच्छा नहीं लगता, कांजलूंदा। और अच्छा नहीं लगता !'

'सबसे बुरा क्या हो रहा है, जानते हो ? देश-त्याग। इस बार के भयानक देश-त्याग को रोकने का और कोई उपाय नहीं है। सरकारी पक्ष से बराबर कहा जा रहा है, हिन्दू देश से पलायन नहीं रह रहे हैं। कलकत्ता की 'देश' पत्रिका ने एक बार लिखा था न—'साल में करीब डेढ़ लाख वांग्लादेशी यहाँ धुसपैठ कर रहे हैं और इनमें से अधिकतर वापस नहीं जा रहे हैं।' पिछले दो दशक में पचास लाख से भी अधिक अल्पसंख्यक देश से पलायन के लिए वाध्य हुए। चार जनगणना रिपोर्ट क्या कहती हैं, सुनो ! 1941 में मुसलमानों की संख्या की 70.3 प्रतिशत, हिन्दू थे 28.3 प्रतिशत। 1951 में मुसलमान थे 76.9 प्रतिशत और हिन्दू थे 22.00 प्रतिशत। 1961 में मुसलमान थे 80.4 प्रतिशत, हिन्दू 18.4 प्रतिशत। 1974 में मुसलमान थे 84.4 प्रतिशत और हिन्दू थे 12.1 प्रतिशत। 1991 में मुसलमानों की आवादी हुई 86.4 प्रतिशत और हिन्दू रह गये 12.6 प्रतिशत। इससे यह पता चलता है कि मुसलमानों की आवादी हर साल बढ़ रही है और हिन्दुओं की घट रही है। क्यों घट रही है, आखिर कहाँ जा रहे हैं ये लोग ? यदि सरकार कहती है कि माइग्रेशन नहीं हो रहा है तो जनगणना की रिपोर्ट ऐसी क्यों है। अब नई जनगणना का नियम बना है, जानते हो ? हिन्दू-मुसलमान को अलग-अलग गिनेंगे।'

'इसका कारण ?'

'ताकि हिन्दुओं की आवादी घटने का सही-सही हिसाब मिल पाये।'

'तो कहा जा सकता है कि यह सरकार बड़ी चालाक है। है न, काजल दा ?'

सुरेंद्रन ने अंगड़ाई लेते हुए कहा।

काजल देवनाथ ने और कुछ न कहकर एक सिगरेट होंठों से लगा ली। फिर पूछा, 'एश ट्रे है ?'

'पूरे कभरे को ही एश ट्रे मान लीजिए।'

'तुम्हारे माँ-वाप से मिलकर उन्हें क्या सांत्वना दूँगा, वताओ तो !' काजल देवनाथ लज्जा से सिर झुका लेते हैं। उन्हें इतनी लज्जा होती है मानो उन्हीं के भाई ने माया का अपहरण किया है।

फिर माया का प्रसंग। फिर उसकी छाती से ज्यालामुखी की तरह लावा निकलता है। सुरेंद्रन इस प्रसंग को बदलते हुए कहता है, 'अच्छा काजल दा, जिन्ना ने तो कहा ही था अब से हम सभी पाकिस्तानी हैं, कोई हिन्दू-मुसलमान नहीं। फिर भी क्या हिन्दुओं का भारत-पलायन नहीं घटा ?'

'जिन्ना थे इस्माइलिया खोजा। मुसलमान होकर भी थे हिन्दू उत्तराधिकार कानून मानते थे। उनकी पदवी दरअसल खोजानी थी। नाम था 'झीना भाई खोजानी।' झीना भर रखकर वाकी नाम उन्होंने छोड़ दिया। जिन्ना ने कहा जस्त था उसके बाद भी

हिन्दू लोग वैमनस्य के शिकार हुए। ऐसा न होने पर जून, 1948 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से ग्यारह लाख हिन्दू भारत क्यों छते जाते ? भारत में वे 'रिफ्यूजी' के रूप में जाने गये ।

'पश्चिम बंगाल में हुए दंगे के कारण अनेक मुसलमान भी इस देश में चले आये ।'

'हाँ, ईस्ट बंगाल और आसाम से काफी मुसलमान भी इस देश में चले आये हैं। क्योंकि तब भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच 'नेहरू-लियाकत समझौता' हुआ था। समझौते में कहा गया—'दोनों देश के अल्पसंख्यक धर्म निर्विशेष नागरिक के रूप में समान अधिकार के हकदार होंगे ।' उनका जीवन, संस्कृति और सम्पत्ति का अधिकार निश्चित किया गया, उनके विचार व्यक्त करने और धार्मिक आचरण की स्थाधीनता को स्वीकार किया गया। इस समझौते की शर्त के अनुसार वहाँ से आये लोग वापस लौट गये। लेकिन यहाँ से गये लोग फिर नहीं तौटे। न तौटने पर भी कुछ समय तक के लिए लोगों का वहाँ जाना रुक गया था। लेकिन 1951 में पाकिस्तान की संविधान सभा में ऐसे दो नियम पास हुए, 'ईस्ट बंगाल इवाक्वी प्राप्टी एक्ट ऑफ 1951' और 'ईस्ट बंगाल इवाक्वीस एक्ट ऑफ 1951'। इन कारणों से पूर्वी पाकिस्तान से पतायन करने वालों की संख्या 35 लाख तक पहुँच गयी। ये बातें तुम्हारे पिता को ज्यादा अच्छी तरह मातृम होंगी।'

'पिताजी मुझसे यह सब कुछ नहीं कहेंगे, देश से पतायन की बात उठते ही वे फायर हो जाते हैं। किसी भी तरह ये बरटाश्त नहीं कर पाते हैं।'

'क्या देश-न्याय को हम तोग ही ठीक मानते हैं ? लेकिन जो जा रहे हैं, गोपनीय ढंग से जा रहे हैं। उन्हें तुम क्या कहकर तौटा सकते हो ? कोई एक आश्वासन तो उन्हें देना ही होगा। बरसा कोई स्वेच्छा से अपनी मिट्टी छोड़कर जाना चाहता है ? शास्त्र में एक कहावत है न, 'जो है अप्रवासी, वही है सबसे सुखी।' मुस्तमान तो हिजरत के अभ्यस्त है। एक देश से दूसरे देश में घूमते रहे हैं, इरिहस ही इसका गवाह है। लेकिन हिन्दुओं के लिए माटी का बड़ा महत्व है।'

कहते-कहते काजल देवनाथ उठकर बरामदे की ओर गये। शायद जपनी उत्तेजना शांत करने। वापस आकर बोले, 'चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही है। चतो, किसी चाय की दुकान पर चलते हैं।'

सुरेजन कपड़ा नहीं बदलता है। जो कपड़े पहने था, विन नहीं, कई दिन का खातीरी पेट, बदन से रजाई उतार फ़ाट से छड़ा हो गया। बोता, बहते ! शरीर में ज़ंग लग गई है, सोये तोये ।'

सुरेजन दरवाजा खुला छोड़कर ही निकल गया। अब क्यों बंद करेगा। अपटन, जो घटना था, वह तो घट ही चुका है। चलते-घलते काजल देवनाथ ने पूछा, 'तुम्हारे घर में छाना-याना बन रहा है ?'

सत्तावन करोड़ रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है।

'और अच्छा नहीं लंगता, काजल दा। और अच्छा नहीं लगता !'

'सबसे बुरा क्या हो रहा है, जानते हो ? देश-त्याग। इस बार के भयानक देश-त्याग को रोकने का और कोई उपाय नहीं है। सरकारी पक्ष से बराबर कहा जा रहा है, हिन्दू देश से पलायन नहीं रह रहे हैं। कलकत्ता की 'देश' पत्रिका ने एक बार लिखा था न—'साल में करीब डेढ़ लाख बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं और इनमें से अधिकतर वापस नहीं जा रहे हैं।' पिछले दो दशक में पचास लाख से भी अधिक अल्पसंख्यक देश से पलायन के लिए वाध्य हुए। चार जनगणना रिपोर्टें क्या कहती हैं, सुनो ! 1941 में मुसलमानों की संख्या की 70.3 प्रतिशत, हिन्दू थे 28.3 प्रतिशत। 1951 में मुसलमान थे 76.9 प्रतिशत और हिन्दू थे 22.00 प्रतिशत। 1961 में मुसलमान थे 80.4 प्रतिशत, हिन्दू 18.4 प्रतिशत। 1974 में मुसलमान थे 84.4 प्रतिशत और हिन्दू थे 12.1 प्रतिशत। 1991 में मुसलमानों की आवादी हुई 86.4 प्रतिशत और हिन्दू रह गये 12.6 प्रतिशत। इससे यह पता चलता है कि मुसलमानों की आवादी हर साल बढ़ रही है और हिन्दुओं की घट रही है। क्यों घट रही है, आखिर कहाँ जा रहे हैं ये लोग ? यदि सरकार कहती है कि माइग्रेशन नहीं हो रहा है तो जनगणना की रिपोर्ट ऐसी क्यों है। अब नई जनगणना का नियम क्या है, जानते हो ? हिन्दू-मुसलमान को अलग-अलग गिनेंगे !'

'इसका कारण ?'

'ताकि हिन्दुओं की आवादी घटने का सही-सही हिसाब मिल पाये।'

'तो कहा जा सकता है कि यह सरकार बड़ी चालाक है। है न, काजल दा ?'

सुरंजन ने अंगड़ाई लेते हुए कहा।

काजल देवनाथ ने और कुछ न कहकर एक सिगरेट होंठों से लगा ली। फिर पूछा, 'एश ट्रे है ?'

'पूरे कमरे को ही एश ट्रे मान लीजिए।'

'तुम्हारे माँ-बाप से मिलकर उन्हें क्या सांत्वना दूँगा, बताओ तो !' काजल देवनाथ लज्जा से सिर झुका लेते हैं। उन्हें इतनी लज्जा होती है मानो उन्हीं के भाई ने माया का अपहरण किया है।

फिर माया का प्रसंग। फिर उसकी छाती से ज्वालामुखी की तरह लावा निकलता है। सुरंजन इस प्रसंग को बदलते हुए कहता है, 'अच्छा काजल दा, जिन्ना ने तो कहा ही था अब से हम सभी पाकिस्तानी हैं, कोई हिन्दू-मुसलमान नहीं। फिर भी क्या हिन्दुओं का भारत-पलायन नहीं घटा ?'

'जिन्ना थे इस्माइलिया खोजा। मुसलमान होकर भी वे हिन्दू उत्तराधिकार कानून मानते थे। उनकी पदवी दरअसल खोजानी थी। नाम था 'झीना भाई खोजानी।' झीना भर रखकर वाकी नाम उन्होंने छोड़ दिया। जिन्ना ने कहा जरूर था उसके बाद भी

हिन्दू लोग वैमनस्य के शिकार हुए। ऐसा न होने पर जून, 1948 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से ग्यारह लाख हिन्दू भारत क्यों चले जाते? भारत में वे 'रिस्यूजी' के रूप में जाने गये।

'पश्चिम बंगाल में हुए दंगे के कारण अनेक मुसलमान भी इस देश में चले आये।'

'हाँ, वेस्ट बंगाल और जासाम से काफी मुसलमान भी इस देश में चले आये हैं। क्योंकि तब भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच 'नेहरू-लियाकत समझौता' हुआ था। समझौते में कहा गया—'दोनों देश के अल्पसंख्यक धर्म निर्विशेष नागरिक के रूप में समान अधिकार के हकदार होंगे।' उनका जीवन, संस्कृति और सम्पत्ति का अधिकार निश्चित किया गया, उनके विचार व्यक्त करने और धार्मिक जातरण की स्वाधीनता को स्वीकार किया गया। इस समझौते की शर्त के अनुसार वहाँ से आये लोग वापस लौट गये। लेकिन यहाँ से गये लोग फिर नहीं लौटे। न लौटने पर भी कुछ समय तक के लिए लोगों का वहाँ जाना रुक गया था। लेकिन 1951 में पाकिस्तान की सविधान सभा में ऐसे दो नियम पास हुए, 'ईस्ट बंगाल इवाक्वी प्राप्टी एक्ट ऑफ 1951' और 'ईस्ट बंगाल इवाक्वीस एक्ट ऑफ 1951'। इन कारणों से पूर्वी पाकिस्तान से पतायन करने वालों की संख्या 35 लाख तक पहुँच गयी। ये बातें तुम्हारे पिता को ज्यादा अच्छी तरह मातृम होंगी।'

'पिताजी मुझसे यह सब कुछ नहीं कहेंगे, देश से पतायन की बात उठते ही वे फायर हो जाते हैं। किसी भी तरह वे बरदाश्त नहीं कर पाते हैं।'

'क्या देश-त्याग को हम लोग ही ठीक मानते हैं? लेकिन जो जा रहे हैं, गोपनीय ढंग से जा रहे हैं। उन्हें तुम क्या कहकर लौटा सकते हो? कोई एक आश्वासन तो उन्हें देना ही होगा। बरना कोई स्वेच्छा से अपनी मिट्टी छोड़कर जाना चाहता है? शास्त्र में एक कहावत है न, 'जो है अइवासी, वही है सबसे सुखी।' मुसलमान तो हिजरत के अभ्यस्त हैं। एक देश से दूसरे देश में घूमते रहे हैं, इतिहास ही इसका गवाह है। लेकिन हिन्दुओं के लिए माटी का बड़ा महत्व है।'

कहते-कहते काजल देवनाथ उठकर बरामदे की ओर गये। शायद अपनी उत्तेजना शांत करने। वापस आकर बोते, 'चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही है। चलो, किसी चाय की दुकान पर चलते हैं।'

सुरंजन कपड़ा नहीं बदलता है। जो कपड़े पहने था, विना नहाये, कई दिन का छाती पेट, बदन से रजाई उतार झट से छड़ा हो गया। बोता, 'चलिये! शरीर में जंग तग गई है, सोये सोये।'

सुरंजन दरवाजा खुता छोड़कर ही निकल गया। अब क्यों बंद करेगा। अपटन, जो घटना था, वह तो घट ही चुका है। चलते-चलते काजल देवनाथ ने पूछा, 'तुम्हारे पर में छाना-याना बन रहा है?'

'माँ कमरे में रख जाती है। कभी खाता हूँ, कभी नहीं खाता। मन नहीं करता। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता।' सुरंजन अपने बालों में उंगलियाँ फेरता है, बालों को संवारने के लिए नहीं, वल्कि भीतर की यंत्रणा कम करने के लिए।

फिर उसने पूछा, 'उनहत्तर-सत्तर में शायद हिन्दुओं का माइग्रेशन कम हुआ है, काजल दा।'

'छियासठ में 'छाठ दफा आंदोलन', शुरू हुआ, उनहत्तर में जन-उत्थान, सत्तर के निर्वाचन से मुक्ति युद्ध के पहले तक हिन्दू घटे हैं। 1955 से 1960 तक वडे पैमाने पर पलायन हुआ। साठ से पैंसठ के बीच करीब दस लाख लोग चले गये। युद्ध शुरू होने पर करीब एक करोड़ लोगों ने भारत में शरण ली। इनमें असी फीसदी हिन्दू थे। युद्ध के बाद लौटने पर हिन्दुओं ने पाया कि उनका घर-वार सब कुछ वेदखल हो गया है। काफी लोग उस समय फिर वापस लौट गये और कुछ ही इस उम्मीद में रहे कि स्वतंत्र देश उन्हें सुरक्षा देगा। उसके बाद तो तुमने देखा ही है '74 में मुजीब सरकार ने 'शत्रु सम्पत्ति' के नाम को छोड़कर और कुछ चेंज नहीं किया। जिया उर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता विरोधी साम्प्रदायिक शक्ति को सत्ता में बैठाया। संविधान से धर्म निरपेक्षता को हटा दिया। इसके बाद इरशाद आये तो उन्होंने इस्लामी पुनरुज्जीवन शुरू किया। 1982 के 22 दिसम्बर को इरशाद ने घोषणा की कि इस्लाम और कुरान की नीति ही देश के नये संविधान का आधार होगी। चौदीस वर्षों तक धर्म के नाम पर शोषित होने के बाद धर्म फिर राजनीतिक जीवन में सदंभ वापस आयेगा, किसने सोचा था।' एक चाय-दुकान देखकर वे रुके। काजल देवनाथ, सुरंजन को ऊपर से नीचे तक देख कर बोले, 'तुम वडे वेमन से लग रहे हो। जिन सवालों को तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, उन्हें ही फिर से पूछ रहे हो। क्यों? लगता है तुम्हारे अंदर तेज उथल-पुथल है। ऐसे वक्त में स्थिर रहो सुरंजन। तुम जैसे प्रतिभावान लड़के के हताश होने से कैसे चलेगा?'

एक टेबुल पर दोनों आमने-सामने बैठ गये। काजल देवनाथ ने पूछा, 'चाय के साथ कुछ लोगे ?'

सुरंजन ने सिर हिलाया, 'हाँ।' उसने दो समोसे लिये। काजल देवनाथ ने भी समोसे लिये। खाने के बाद दुकान के लड़के से बोले, 'पानी लाओ।'

'पानी' शब्द सुरंजन ने सुना। काजल देवनाथ घर में 'जल' बोलते हैं। लेकिन आज उन्होंने 'पानी' कहा। क्या पानी कहते-कहते अभ्यास हो गया है इसलिए बोलते। या फिर डर से? सुरंजन की जानने की इच्छा हुई। पूछना चाहते हुए भी उसने नहीं पूछा। उसे तागा कि एक साथ कई जोड़ी आँखे उनका निरीक्षण कर रही हैं। वह तेजी से चाय पीता है। क्या डर कर? उनके अंदर इतना डर क्यों पैदा हो रहा है? गरम चाय की अचानक चुर्खी लेने में उसकी जीभ जल गयी। तीखी निगाह से पास वाले टेबुल का जो लड़का उन्हें देख रहा है उसकी थुथनी में थोड़ी-सी दाढ़ी, सिर पर कुश

से बुनी हुई टोपी है। उम्र यही कोई, इककीस-वाईस होगी। सुरंजन को लगा, माया को जो लोग ते गये हैं, यह तड़का जरूर उन्हीं में से एक होगा। बत्ना कान लगाये हुए क्यों है? उसका इधर इतना ध्यान क्यों है। सुरंजन ने पाया कि वह तड़का मुँह दवा-दवा कर रहा है। तो क्या इसलिए हैं स रहा है कि कैसा मजा चखाया, तुम्हारी बहन से तो मनचाहा खेल खेल रहे हैं हम लोग। सुरंजन की चाय खत्म नहीं होती है। कहता है, 'चलिए, उठते हैं काजल दा। अच्छा नहीं लग रहा है।'

'इतना जल्दी जाना चाहते हो?'

'अच्छा नहीं लग रहा है।'

सन् 1954 में राष्ट्रीय संसद में कुल सदस्य संख्या 309 थी। अल्पसंख्यक थे 72। सतर में तीन सौ में अल्पसंख्यक घ्यारह। 1993 में कुल 315 में महज 12। 1979 में 330 में आठ। 1986 में 330 में सात। 1988 में महज चार और 1991 में 330 में 12। बांग्लादेश की सेना में कोई अल्पसंख्यक मेजर या ब्रिगेडियर नहीं है। 70 कर्नलों में एक, 450 लेफ्टीनेट कर्नलों में आठ, एक हजार मेजर में 40, तेरह सौ कैप्टनों में आठ, नौ सौ सेकेंड लेफ्टीनेटों में तीन, 80 हजार सिपाहियों में पांच सौ, 40 हजार बी० डी० आर० में हिन्दू महज तीन सौ है। 80 हजार पुलिस कर्मियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की तादाद महज दो हजार है। एडीशनल आई० जी० कोई नहीं, आई० जी० तो है ही नहीं। पुलिस अफसरों के 870 सदस्यों में अल्पसंख्यक महज 53 हैं। गृह, विदेश, सुरक्षा मंत्रालयों में उच्च पदों पर, विदेश के बांग्लादेश मिशन में अल्पसंख्यक संप्रदाय का कोई नहीं है। सचिवालय की स्थिति तो और भी दुरी है। सचिव या अतिरिक्त सचिव के पद पर अल्पसंख्यक संप्रदाय का एक भी आदमी नहीं है। 34 संयुक्त सचिवों में महज तीन, 463 उपसचिवों में अल्पसंख्यक 25 हैं। स्वायत्तशासी संस्थाओं में प्रधम श्रेणी के अधिकारी 46 हजार 894 हैं। जिसमें अल्पसंख्यकों की संख्या तीन सौ है। सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्तशासी प्रतिष्ठानों के प्रधम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर अल्पसंख्यकों की तादाद पांच फीसदी से ज्यादा नहीं है। आवकारी और टैक्स महकमे के 152 कर्मियों में एक, आयकर विभाग के साढ़े चार सौ कर्मियों में आठ, राष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अधिकारियों की संख्या एक फीसदी, कर्मचारी तीन चौथाई, श्रमिक एक चौथाई से भी कम। इतना ही नहीं, बांग्लादेश बैंक रामेत किसी भी तैंक के डायरेक्टर, नेयरमैन या एम० डी० के पद पर एक भी हिन्दू नहीं है। यहां तक कि वाणिज्य बैंकों की जिसी भी शादा के मैनेजर पद पर एक भी हिन्दू नहीं है। ध्यवसाय में मुसलमान पार्टनर न रहने पर सिर्फ हिन्दू प्रतिष्ठानों को हमेशा ताइरेंस भी नहीं मिलता है। इसके अताया गरकार द्वारा

नियंत्रित बैंक, विशेषकर औद्योगिक संस्थान से उद्योग, फैक्ट्री के लिए कोई ऋण नहीं मिलता है।

सुरंजन को सारी रात नींद नहीं आयी। उसे अच्छा न लगने की बीमारी ने जकड़ लिया है। किरणमयी सुवह एक बार कमरे में आयी थी। शायद माया के बारे में पूछने आयी रही होगी, क्या अब कुछ भी करने को नहीं है? दिन क्या इसी तरह माया के बिना ही गुजरेंगे? इन दिनों किरणमयी भी मरी-मरी-सी हो गयी है। आँखों के नीचे झाई पड़ गयी है। सूखे होठों पर कोई शब्द नहीं है, न हँसी ही है। सुरंजन बिस्तर पर इस तरह शिथिल पड़ा था, मानो वह सो रहा हो। किरणमयी को समझने नहीं दिया कि उसके भीतर एक भीषण यन्त्रणा हो रही है। किरणमयी उसके टेबुल पर दोनों वक्त चुपचाप खाना रख जाती है। सुरंजन को बीच-बीच में गुस्सा भी आता है, क्या यह पत्थर की बनी है? उसका पति पंगु है, बेटी खो गयी है, बेटा रह कर भी नहीं है फिर भी उसे किसी से कोई शिकायत नहीं। लाश की तरह शिकायत हीन, भावहीन आश्चर्यपूर्ण जीवन है किरणमयी का।

वह तय करता है कि दिनभर सोयेगा। उसे सोना चाहिए। काफी दिनों से उसे नींद नहीं आयी है। आँखें बंद करते ही उसे लगता है, एक भयानक पंजा उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका गला दबाने जा रहा है। उसकी जान लेने के लिए एक के बाद एक हाथ बढ़ते हैं। उसे चैन नहीं आता, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती।

ननीगोपाल मानिकगंज से आये हैं। उनके साथ पत्नी और बच्चे भी हैं। ननीगोपाल सुधामय के दूर के रिश्ते में आते हैं। सुधामय के घर की दूटी-फूटी चीजों को देखकर ननीगोपाल को जरा-सी भी हैरानी नहीं होती। कहते हैं, 'आपका भी घर नहीं छोड़े?'

लतिता, ननीगोपाल की पत्नी, सूनी मांग, धूंघट डालते हैं। वह किरणमयी के दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर, 'भाभी' कहते हुए जोर से रो पड़ती है। लतिता की बेटी पास ही सिमटी खड़ी रहती है। क्या नाम है, उसका, सुधामय याद नहीं कर पाते हैं। वह माया नी ही उम्र की होगी। एक-दो साल छोटी भी हो सकती है। उसे सुधामय अपलक दृष्टि से देखते रहते हैं। उनकी आँखें फिर धुंधली हो जाती हैं। माया नहीं है, इस बात को वे मानना नहीं चाहते। मानो है, बगल में ही किसी के घर गयी है। या दूरूशन पढ़ाने गयी है, शाम को वापस आ जायेगी। दरअसल घर के प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर यह आशा रह ही गयी है कि बलात्कृत, उत्पीड़ित, क्षत-विक्षत होकर भी माया एक दिन वापस आयेगी।

'भैया, इस देश में अब और नहीं रहूँगा। तड़की वड़ी हो गयी है, मन ही मन डरता हूँ, कव क्या हो जाये।'

सुधामय उस लड़की पर से आँखें हटाते हुए बोले, 'चते जाने की बात मेरे सामने मत बोलो। सुना है, बगत के गौतम वगैरह चते जा रहे हैं। सोचा क्या है ? कहाँ-कहाँ जायेंगे। जहाँ जायेंगे, वहाँ गुण्डा-बदमाश नहीं रहते ? वहाँ डर नहीं है ? लड़कियों की सुरक्षा का अभाव सभी देशों में है। कहा जाता है न, नदी का यह पाट कहता है छोड़ निःश्वास, उस पाट में है सर्व सुख, मेरा विश्वास ! तुम्हारी भी यही हातत है।'

ननीगोपाल पाजामा-कुर्ता पहने हुए हैं। उनके चेहरे पर दो-चार दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी है। वे माथे पर दोनों हाथ रखे चुपचाप बैठे रहते हैं।

लतिता रोती है। आशंका से रोती है और किरणमयी पत्थर की मूर्ति बनी लतिता का रोना सुनती है। इस बात के लिए भी उनकी आवाज नहीं निकलती कि वे सोग माया को उठा ले गये हैं और वह आज तक नहीं तौटी।

ननीगोपाल का लकड़ी का कारोबार था। उन लोगों ने लकड़ी का डिपो जला दिया। इससे भी ननीगोपाल विचलित नहीं हुए। उनको तो डर अंजलि को सेकर है। उसे किसी दिन उठा न ले जायें। वे बोले, 'भैया, लतिता के एक रिश्तेदार फेनी को उसके घांटपुर वाले मकान व सम्पत्ति के लोभ में, पकड़ कर ले गये और उसे मारकर फेंक दिये। जयदेवपुर रिंगाइल के अधिविनी कुमार चंद्र की चौदह रात की लड़की 'मिको' को पकड़कर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया, जानते हो ? बाद में वह लड़की मर गयी। गोपालगंज के बेद ग्राम के हरेन्द्रनाथ हीरा की लड़की नंदिता रानी हीरा को पकड़कर ले गये। बांछारामपुर के क्षितिश चंद्र देवनाथ की लड़की करुणबाला को गाँव के मुसलमान लड़के उठा ले गये और उसके साथ बलात्कार किया। भोला के काशीनाथ बाजार की शोभारानी की लड़की तद्रारानी को भी उठा ले गये और उसको 'रैप' किया। टांगाइल के अदालतपाइा से सुधीर चंद्र दास की लड़की मुकितारानी धोष को अम्बुल कपूर नामक दलाल पकड़कर ले गया। भातुका के पूर्णचंद्र बर्मन की लड़की को जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले गये। रंगपुर में तारागंज के तीन कौड़ी साहा की लड़की जयन्ती रानी साहा का अपहरण कियां। यह सब नहीं सुन है ?'

'यह सब कब की घटना है ?' सुधामय ने थकी हुई आवाज में पूछा।

ननी गोपाल ने कहा, '1989 की।'

'इतने दिन पहले की बात याद करके रखे हुए हो ?'

'यह सब भी क्या भूलने लायक बात है ?'

'क्यों, परी बानू, अनवरा, मनौवरा, सूफिया, सुलताना, इन सबके लकड़ी रखे हो ? इन्हें भी तो पकड़ कर ले गये। इन पर भी तो अल्पादार किया।'

ननीगोपाल फिर से सिर पर दोनों हाथ रखकर बैठे, ये

'आपकी बीमारी की हुबर मिती। देखने आऊँगा, ते'

छुटकारा नहीं मिलता। जाते-जाते सोचा, मिलता चलूँ। आज रात में ही 'बेनापोल' चला जाऊँगा। घर-बार बेचना संभव नहीं हो पाया। ललिता के एक मौसेरे भाई से कहा है, वह सुविधानुसार बेच देगा।'

सुधामय समझ गये कि वे ननीगोपाल को रोक नहीं पायेंगे। उन्होंने सोचा, चले जाने से क्या लाभ। इस देश में बचे हुए लोगों की संख्या यदि और घट जाये तो उनके ऊपर अत्याचार और बढ़ जायेगा। लाभ होगा जो चले जायेंगे उनका, या जो रह जायेंगे, उनका? सुधामय ने महसूस किया, लाभ दरअसल किसी का नहीं है, नुकसान ही सबको है। नुकसान दरिद्रों का, नुकसान अल्पसंख्यकों का। क्या करने से, ठीक कितने लोगों की मौत होने पर इस देश के हिन्दू भारत के आतंकवादी हिन्दुओं के अतीत, वर्तमान, भविष्य के सभी अपराधों का प्रायश्चित्त कर सकेंगे? सुधामय को यह जानने की इच्छा होती है जानने पर कम से कम वे आत्महत्या करते। काफी तोगों को आत्महत्या के लिए कहते। उससे शायद बाकी हिन्दुओं का भला होता।

शाम को शफीक अहमद की पली घर पर आईं—आलिया बेगम। पहले अक्सर आ जाया करती थीं, आजकल बहुतेरे ही नहीं आते। हैदर के माता-पिता भी बहुत दिनों से नहीं आये। सुधामय महसूस करते हैं कि किरणमयी बहुत अकेली पड़ गयी है। आलिया बेगम को देखकर किरणमयी थोड़ा हैरान हुई मानो इस घर में किसी को नहीं आना चाहिए। यह घर एक जले हुए घर की तरह है। आलिया बेगम का हँसता हुआ चेहरा, चमकती हुई साझी, शरीर के गहनों को देखकर सुधामय सोचते हैं क्या किरणमयी अपने आप को उसके सामने फीकी महसूस कर रही हैं? इतने दिनों तक शायद उन्होंने किरणमयी के साथ अन्याय किया है। एक सम्पन्न, शिक्षित, रुचिशील परिवार की लड़की को एक असम्पन्न, स्वप्नहीन परिवार में लाकर उसको इककीस वर्षों से शारीरिक सुख से भी बंचित रखा है। सुधामय अपने स्वार्थ को ही बड़ा करके देखते रहे, वरना क्या उनको नहीं कहना चाहिए था कि किरणमयी तुम फिर से शादी कर लो। क्या कहने पर किरणमयी चली जाती? क्या उसके गोपन में आलिया बेगम की तरह चमकते जीवन की इच्छा नहीं रही होगी? मनुष्य का मन ही तो है, चली भी जा सकती थी। इसी डर से सुधामय किरणमयी के हमेशा पास-पास रहते थे, यार-दोस्तों को ज्यादा घर नहीं बुलाते थे। क्यों नहीं बुलाते थे, सुधामय ने वीमारी के दौरान खुद अपनी कमज़ोर उंगती उठाकर दिखा दी। बोले, सुधामय तुम जो दिन व दिन दोस्त-मित्रों से अलग होते जा रहे थे, वह जान बूझकर ही था ताकि इस घर में यार दोस्तों के आने-जाने से किरणमयी को कोई सक्षम पुरुष पसंद न आ जाये। किरणमयी के प्रति सुधामय का इतना प्रगाढ़ प्रेम उनकी स्वार्थमयता ही थी। ताकि इस

प्रगाढ़ता को देखकर किरणमयी सोचे कि इसे छोड़कर कहाँ जाना उचित नहीं। रिंफ प्यार से क्या मन भरता है? इतने बरसों के बाद सुधामय को सग रहा है, रिंफ प्यार से ही मन नहीं भरता, कुछ और की भी जरूरत होती है।

आलिया वेगम ने घर की टूटी-फूटी चीजों को देखा, सुधामय के निश्चल हाथ-पाँव देखे, माया के अपहरण की बात सुनी और 'ओह च्य.... च्य....' करते हुए दुख जताया। थोड़ी देर बाद बोत्सी, 'भाभी, इंडिया में आपका कोई रिश्तेदार नहीं रहता?'

'रहता है। मेरे लगभग सभी रिश्तेदार वहीं रहते हैं।'

'तो फिर यहाँ क्यों पड़े हैं?'

'अपना देश है न, इसलिए।'

किरणमयी के जवाब से मानो आलिया वेगम थोड़ा हैरान ही हुई। क्योंकि यह किरणमयी का भी देश है, यह मानो उसने पहती बार ही सुना। आलिया वेगम जितना जोर देकर कहती है। यह 'मेरा देश' है, क्या किरणमयी को उतना जोर देकर कहना शोभा देता है, शायद आलिया यही बात सोच रही हैं। आज सुधामय को लगा, आलिया और किरणमयी एक नहीं हैं। कहीं एक सूक्ष्म अंतर बन रहा है।

आज विजय दिवस है। इसी दिन बांगलादेश आजाद हुआ था। 'आजाद' शब्द सुरंजन को जहरीली चीटी की तरह काटता है। पूरा देश विजय दिवस समारोह मना रहा है, तोप दाग रहा है, चारों तरफ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सुरंजन को कोई खुशी नहीं है। हमेशा सुरंजन इस दिन सुबह ही घर से निकल जाता था, इधर-उधर कई कार्यक्रम करता फिरता था। द्रक पर घूम-घूमकर गाना गाता था। सुरंजन को लगता है, इतने बरसों तक उसने फालतू काम में ही समय नष्ट किया है। उसे किसा चीज की स्वाधीनता मिली है, क्या फायदा हुआ उसे 'बांगला देश' के आजाद होने से? 'जय बांगला, जय बांगला....' 'पूर्व दिग्नंत से सूर्य उठा...' 'रक्त से लात-रक्त से लात', 'विश्व कवि का स्वर्ण बांगला, नजर्स्त का बांगला देश, जीवनानंद की रूपरी बांगला जिसके सौन्दर्य की नहीं है सीमा', 'एक समुद्र छून के बदले लायी जिसने बांगला स्वाधीनता, हम सोग तुम्हें नहीं भूलेंगे', 'हम सोग एक धेहरे की हँसी के तिए युद्ध करते हैं'—ये गीत बार-बार सुरंजन के होठों पर आना चाहते हैं। लेकिन वह आने नहीं देता। सुरंजन को यह सब सुनने की इच्छा होती है। वह प्राणप्रण से अपनी छाती की आकुलता को दवा देता है।

पूरे दिन सोये रहने के बाद वह एक गोपन इच्छा को जन्म देता है। उस इच्छा को वह जिलाये रखता है, ताकि वह बनी रहे और पुण्यित-पत्तवित होती रहे। सारा —

दिन वह उसकी जड़ में पानी संचिता रहा। आखिर इच्छा-लता पर फूल भी खिलता है, वह उसकी महक भी लेता है। उस इच्छा को दिन भर सेंते रहने के बाद रात आठ बजे वह घर से निकलता है। रिक्शे वाले से बोला, जहाँ इच्छा, ले चलो। रिक्शावाला उसे तोपखाना, विजयनगर, कांकराइल, मग वाजार धुमाते हुए रमना ले गया। सुरंजन ने रात में रोशनी की सजावट देखी। आलोकित राजपथ को क्या मालूम कि वह एक हिन्दू लड़का है। जानने पर शायद वह पक्की सड़क भी कहती दूर हटो। आज यह इच्छा पूरी न हुई तो हृदय के कोष-कोष में जो आग जल रही है, वह नहीं बुझेगी। यह काम न करने पर अटकती हुई सांस वाली इस जिन्दगी से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। शायद यह काम किसी समस्या का समाधान नहीं है, फिर भी उसे तसल्ली होगी। यह काम करके वह अपना गुस्सा, क्षोभ, यन्त्रणा को थोड़ा ही सही, कम कर सकेगा।

वार कौंसिल के सामने सुरंजन ने रिक्शा रुकवाया। सिगरेट सुलगाई। माया को वापस पाने की उम्मीद उसने छोड़ दी है। सुधामय और किरणमयी से भी कहेगा कि माया के लौटने की उम्मीद अब न करें। वे सोच लें कि किसी सड़क-दुर्घटना में माया मर गयी। उन दिनों के सचल, सक्षम सुधामय की ऐसी रिक्त, निर्जन, असहाय दशा सुरंजन से सही नहीं जाती। वह शख्स माया को वापस न पाने की वेदेना-यंत्रणा से सारा दिन कराहता रहता है। जिस तरह कोई गिछ मनुष्य को नोंच कर खाता है, शायद वे भी उसी तरह माया को खा रहे होंगे, नोंच-नोंच कर, फाड़-फाड़ कर। आदिम मनुष्य जिस तरह कच्चा मांस खाता था, क्या उसी तरह? कैसी एक अबूझ यन्त्रणा सुरंजन की छाती को नोंच रही है, मानो उसे ही कोई खा रहा है। सात आदमखोरों का दल। उसकी सिगरेट खत्म नहीं होती है, इतने में एक लड़की उसके रिक्शे के पास आकर खड़ी हो गयी। सोडियम लैम्फ की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। जरूर ही उसने चेहरे पर रंग पोत रखा है। उम्र उन्नीस-वीस की होगी।

‘शमीमा’

वह लड़की हैरान हुई। कोई भी तो इस तरह बाप का नाम, घर का नाम नहीं पूछता है। यह कैसा ग्राहक है। तीछी निगाह से सुरंजन, शमीमा को टेढ़ता है। क्या यह लड़की शूठ बोत रही है, तगता नहीं।

‘ठीक है, बैठो रिवशे पर।’

शमीमा रिवशे पर बैठ गयी। सुरंजन ने टिकादुती चलने को कहा। रास्ते भर वह शमीमा से कुछ नहीं बोला। उसकी तरफ एक बार देखा तक नहीं। एक लड़की उससे सटकर बैठी है, विना मतलब बातें कर रही है, रह रहकर गाती है, हँसते-हँसते सुरंजन के शरीर पर पड़ना चाहती है लेकिन यह सब सुरंजन को स्पर्श नहीं करता। वह धूब मन से सिगरेट पीता रहता है।

रिवशा बाला भी काफी दृश्य नजर आ रहा है। वह झूम-झूमकर रिवशा चला रहा है, हिन्दी फ़िल्मों के गाने गुनगुना रहा है। शहर आज सजा हुआ है, ताल-नीती रोशनियों से जगमगा रहा है। वह आज जो कुछ कर रहा है, ठंडे दिमाग से कर रहा है। कोई नशा नहीं कर रखा है।

बाहर से वह कमरे में तासा लगा आया है। घर के दरवाजे की छटखटाये बगैर ताता छोलकर चुपचाप कमरे में घुसा जा सकता है।

कमरे में घुसते ही शमीमा बोती, ‘ऐसे-वैसे की तो बात ही नहीं हुई।’

सुरंजन उसे रोकता है, ‘चुप, एक भी बात मत करो। एकदम चुप रहो।’

कमरा उसी तरह अस्त-व्यस्त है। विस्तर की घादर आधा नीचे लटक रही है। दूसरे कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही है। शायद वे सो गये हैं। सुरंजन कान लगाकर सुनता है, सुधामय कराह रहे हैं। क्या वे समझ रहे हैं कि उनका भेषावी सुपुत्र घर में वेश्या लेकर आया है। यह दीगर बात है कि वह उसे वेश्या नहीं समझता। उसने केवल उसे मुसलमान लड़की समझा है। उसके मन में तीव्र इच्छा है कि वह एक मुसलमान लड़की को ‘ऐप’ करे। वह शमीमा से बतात्कार करेगा, रिफ बतात्कार। कमरे की बत्ती बुझा देता है। लड़की को जमीन पर पटक कर उसके कपड़े छींच कर खोत देता है। सुरंजन की सांसें तेज घलने लगती हैं। वह लड़की के उदर पर नाखून गड़ा देता है, दांत से उसके स्तन काटता है, सुरंजन समझ नहीं पाता है कि इसका नाम प्यार नहीं है, वह अकारण ही उसके बाल पकड़कर छींचता है, गात, गता और स्तनों को काटता है, उदर, पेट, निर्तव, जापों को तेज नाखून से नोचता है। लड़की रास्ते की वेश्या होने के बावजूद ‘उह-आह, मर गई, माँ....’ कहते हुए कराह उठती है। सुनकर सुरंजन को दृश्यी होती है। वह उसे और भी पीड़ा पहुंचाते हुए, नोच-द्यासोट कर बतात्कार करता है। लड़की हैरान होती है। उसने इससे पहले इतना क्लू ग्राहक नहीं पाया। बाघ के पंजे से जिस तरह मूटकर हिन्मी भागना चाहती है, वह लड़की भी उसी तरह अपने कपड़े राखेट कर दरवाजे के पास छड़ी हो जाती है।

सम्भवतः उसने इतना कूर ग्राहक नहीं देखा।

सुरंजन अब बहुत शांत है। वह अपने को बहुत हल्का महसूस करता है। जो इच्छा उसे सारे दिन सता रही थी, उसकी सद्यगति हुई। अब इस तड़की को तात मारकर घर से निकाल देने पर उसे और खुशी होगी। उसकी सांस फिर से तेज होने लगी। वह मुसल्तमान तड़की को तुरंत तात मार दे? नंगी छड़ी है वह तड़की; समझ नहीं पा रही है कि उसे रात में यहाँ रहना होगा या चले जाना होगा। चूँकि उसने चुप रहने को कहा है इसलिए वह डर के मारे पूछ भी नहीं रही।

माया अब कहाँ है, क्या बंद घर में हाथ-पाँव बांधकर उससे बताल्कार किया होगा, उन सातों ने ही? माया को अवश्य ही बहुत कष्ट हुआ होगा, क्या वह उस समय बहुत चिल्ताई होगी? एक समय की बात है। माया तब पंद्रह-सोतह वर्ष की थी, सपने में 'भैया-भैया' कहकर चीख उठी थी। सुरंजन दौड़कर गया तो देखा, माया नीद में ही घर-घर कांप रही है, 'माया, कांप क्यों रही हो?' जागने के बाद भी माया का कांपना बंद नहीं हुआ। छोई हुई सी सपना बताने लगी, 'एक सुन्दर गाँव में हम दोनों धूमने गये हैं। घान के खेत के बीच से हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। आस-पास दो चार और लोग भी चल रहे हैं, वे बीच-बीच में हमसे बात कर रहे हैं। अचानक देखती हूँ, घान-खेत नहीं हैं, उनकी जगह एक सुनसान भैदान है, साथ में तुम भी नहीं हो। अचानक देखती हूँ, पीछे से कई लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं, डर कर मैं दौड़ रही हूँ, तुम्हें ढूँढ़ रही हूँ।' हाय रे, माया। सुरंजन की सौंसें घनी हो जाती हैं, उसे लगता है माया बहुत चिल्ता रही है। रे रही है। किसी अंधेरे कमरे में एक दृष्ट जंगली जानवरों के बीच बैठी रो रही है। माया अब कहाँ होगी, छोटा-सा शहर है तेकिन उसे पता नहीं कि उसकी प्रिय बहन कूड़े के ढेर में, वैश्यात्य में या बूढ़ी गंगा के जल में है? कहाँ है माया? मन में आता है कि इस तड़की को धक्का मार कर बाहर कर दे।

वह तड़की सुरंजन के हाव-भाव से डर जाती है। जल्दी से कपड़े पहनकर कहती है, 'ऐसे दीजिए।'

'खबरदार, अभी निकल।' सुरंजन गुस्से से उछल पड़ता है। शमीमा दरवाजा खोलती हुई एक पाँव बाहर निकाल कातर दृष्टि से पीछे देखती है। गते की खटोंच से खून निकल रहा है, बोलती है, 'दस ही रुपये दे दीजिए।'

उस समय सुरंजन के समूचे शरीर से मानो गुस्ता छलक पड़ना चाहता है। तेकिन तड़की की करण आँखें देख कर उसे दया आती है। एक दरिद्र तड़की। पेट की आग बुझाने के लिए शरीर बेचती है। समाज के नष्ट नियम उसके श्रम, बुद्धि किसी भी चीज को काम में न ताकर उसे ठेल दे रहे हैं एक अंधेरी गती में। वह ज़रूर ही आज मिले पैसे से एक मुट्ठी चावत छायेगी। पता नहीं, कितने दिनों की भूढ़ी है। सुरंजन पैट की लेन से दस रुपये निकाल उसके हाथ पर रखते हुए पूछता है, 'तुम मुसल्तमान

ही हो न ?'

'हाँ ।'

'तुम लोग तो नाम बदल लेती हो, तुमने तो नहीं बदला है ?'

'नहीं ।'

'ठीक है, जाओ ।'

शमीमा घती जाती है। सुरंजन को बहुत सुकून मिलता है। वह आज किसी चीज के लिए दुखी नहीं होगा। आज विजय का दिन है। सभी आनन्द उल्लास में हैं पटाखे फोड़ रहे हैं। इक्कीस साल पहले इसी दिन आजादी मिली थी, इसी दिन शमीमा बेगम भी सुरंजन के घर आयी। वह स्वाधीनता, वाह ! सुरंजन की इच्छा हुई विगुत बजाने की। क्या वह एक गाना गा उठेगा, 'प्रथम बांग्ला देश मेरा, शेष बांग्ला देश, जीवन बांग्ला देश मेरा, मरण बांग्ला देश ।'

शमीमा को एक बार भी उसके नाम से नहीं पुकारा। उसका नाम सुरंजन दत्त है, यह बताना भी उचित था। ताकि शमीमा को भी पता चलता कि उसे नौच-खसोट कर खून निकालने वाला आदमी एक हिन्दू युवक हैं हिन्दू भी बताल्कार करना जानते हैं। उनके पास भी हाथ, पाँव, सिर हैं, उनके पास भी तीखे दात हैं, उनके नाखून भी नौचना-खसोटना जानते हैं। शमीमा नितान्त निरीह तड़की है, फिर भी मुसलमान तो है। मुसलमान के गाल पर एक थप्पड़ तमा पाने से सुरंजन को सुख मिलता है।

सारी रात प्रचंड अस्थिरता में बीती। कभी होश में, कभी बदहोशी में सारी रात सुरंजन अकेला, भुतही निस्तब्धता में, असुरक्षित, आतंक के काते डैने के नीचे तड़पता रहा, उसे नींद नहीं आयी। उराने आज एक तुच्छ प्रतिशोध लेना चाहा था, लेकिन नहीं ले पाया। प्रतिशोध वह ले भी नहीं सकता है। सारी रात सुरंजन अवाक् होकर सोचता रहा कि शमीमा नामक तड़की के लिए उसे माया हो रही है, करुणा हो रही है। ईर्ष्या नहीं होती। गुसां नहीं आता। यदि ऐसा ही नहीं हुआ तो प्रतिशोध किस बात का। फिर तो वह एक तरह की पराजय ही है। सुरंजन क्या पराजित है ? तो सुरंजन पराजित ही है। शमीमा को वह ठग नहीं पाया। यों ही वह लड़की ठगाई हुई है। उसके लिए 'संभोग' और 'बताल्कार' अलग-अलग नहीं हैं। सुरंजन विस्तर में सिमटता जा रहा था, यन्त्रणा और तज्जा से। रात तो काफी हो चुकी है, फिर सुरंजन को नीट क्यों नहीं आती। क्या वह बर्बाद हो रहा है, बादरी मत्तिजद की घटना ने उसे बर्बाद कर दिया, उसे साफ पता चलता है कि उसके हृदय में सइन शुरू हो गयी है। इतना कष्ट क्यों हो रहा है, जिस लड़की को उसने दात से नौचा, काटा, उसी के लिए हृष्ट हो रहा है। काश वह जाने से पहले उस लड़की के गर्दन से निकल रहे छून हैं रुमाल से पोछ पाता। क्या वह लड़की फिर कभी मिल सकती है, बार काउँसिंह मोड़ पर छड़ा होने से अगर वह लड़की कभी मिल जाये तो सुरंजन लैगा। इतनी जाड़े की रात में भी उसे गरमी लगती है। वह बदन से

है। उसके विस्तर की चादर पैर के पास सिकुड़ी हुई है। गंदे गद्दे के ऊपर घुटनों में सिर घुसाए वह सोया रहता है। कुत्ते की तरह कुण्डली मार कर। सुबह उसे जोर से पेशाब लगी। फिर भी उठने की इच्छा नहीं हुई। किरणमयी चाय रखकर जाती है। उसे कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। उबकाई-सी आती है। उसे गरम पानी से नहाने की इच्छा होती है। तेकिन गरम पानी कहाँ मिलेगा? ब्रह्मपल्ती के मकान में तालाब था, जाड़े की सुबह तालाब में उत्तरने पर रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर भी तालाब में न तैरने पर उसका नहाना ही पूरा नहीं होता था। आज भी काश वह खूब तैर-तैर कर नहा पाता, लेकिन यहाँ तालाब कहाँ। वह अगाध पानी कहाँ। नत के नपे हुए पानी से नहाने की इच्छा नहीं होती। जीवन में इतनी क्यों नाप-तौल है।

सुरंजन सुबह दस बजे विस्तर छोड़ता है। वह बरामदे में खड़ा होकर 'ब्रश' कर रहा था इतने में सुना कि खादिम अती का लड़का अशरफ किरणमयी से कह रहा है, मौसी जी हमारे घर के पुढ़े ने कल शाम को माया जैसी एक लड़की की लाश गेन्दुरिया लोहा पुल के नीचे पानी में तैरती हुई, देखी है।'

सुरंजन का दूध ब्रश पकड़ा हाथ अचानक पत्थर जैसा हो गया। शरीर में इतेकिट्रिक करेंट लगने पर जैसा होता है, वैसी ही एक तरंग उसके शरीर में दौड़ गयी। भीतर से रोने की कोई आवाज नहीं आयी। पूरा घर स्तब्ध है। मानो बात करते ही दीवारों से प्रतिध्वनि गूंजेगी। मानो उसके अलावा इस घर में हजारों बरसों से कोई नहीं रहता। वाहरी बरामदे में खड़ा सुरंजन महसूस करता है, पिछली रात विजयोत्सव मनाने के बाद शहर की नींद अभी तक पूरी नहीं टूटी है। वह दूध ब्रश हाथ में लिये ही खड़ा था, हैदर जर्सी पहने रास्ते में टहल रहा था, उसे देखते ही रुक गया। नजर से नजर भिल जाने के कारण ही वह सौजन्यतावश रुक गया था। धीरे-धीरे वह उसके पास आया। पूछा, 'कैसे हो?'

सुरंजन ने हँसकर कहा, 'ठीक हूँ।'

तुरत बाद माया का प्रसंग उठना चाहिए था, लेकिन हैदर ने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। वह 'रीलिंग' से सट कर खड़ा हो गया। बोला, 'कल 'शिविर' के लोगों ने राजशाही विश्वविद्यालय में 'जुहा' के वक्त जन वलिदान कब्र पर लगे स्मृति फतक को तोड़ दिया।'

सुरंजन ने 'पिच्' से मुँह से भरे पेस्ट का झाग मिट्टी पर फेंका। पूछा, 'जन वलिदान कब्र' माने?

'जन वलिदान कब्र का भतलव तुम नहीं जानते।' हैदर ने विस्मय के साथ सुरंजन को देखा।

सुरंजन ने सिर हिलाया, नहीं।

जबकि न के कारे हैदर क्य देहा स्वाह हो गय। दड़ सन्झ नहीं पाया कि सुरंजन मुकित दुख के देतना विश्वास केन्द्र व्य नेटा होने के बावजूद 'यत्व बत्तिदान लड़' वा मायने न जानने की बात क्यों लह रहा है। शिविर के तोमों ने उन बत्तिदान लड़ का सृष्टि फ्लटक टोड़ दिया है। तो टोड़ दें। उनके हाथों में खमी खस्त है, उसे दे तोग कान में तगा रहे हैं, उन्हें कौन काथा देगा। जाहिला-जाहिला वे तोम टोड़ देने अपरिजेय बांस्ता, स्वर्जित स्वाधीनता, टोड़ देने शब्दश बांस्ता देग, लददेन्दुरु हे मुकित दोष्टा को। इसमें कौन छकावट डातेगा। एक दो मॉर्टार होगी। एक दो जुनून निकलते गे। जनात गिरियर युवा कमांड की रुजर्नीति बंद हो कहते हुए कुछ प्रदूरिशेत रुजर्नीतिक दल दिलाएंगे, यहीं न। इससे क्या होगा, सुरंजन बन हो मन बैला, ऐदू क्षेगा।

हैदर कानी देर टक टिक झुकादे छड़े रहने के बाद बोता, 'कुछ सुन है, परदेन यहीं पर है। उक्का डाकदेवं हो क्या है।'

सुरंजन सुनता है तेजिन जयन के रुठ नहीं बैला। परदेन का 'डाकदेवं' होने की बात मुनहर उठे काँइ दुड़ नहीं हुड़। बत्तेल मन ही मन सोच, टीक हुड़। हिन्दू के साथ गांडी नहीं ली, मुस्लिम के साथ ली, जब कैसा तम रहा है? परदेन को वह एक बार मन ही मन 'रें' करता है। इतनी सुबह दौरं कांबरे हुए 'रें' हत्ता उठना संतोष नहीं देता, निर मी मन में 'रें' की इच्छा रह ही जाती है।

कुछ देर बाद हैदर ने लह, 'चतता हूँ।' वह हैदर को नहीं ढेकता।

सुधानय जब उठकर बैठ हृलते हैं। पीठ के पीछे तकिया सगाये निस्तव्य दर के छापोशी सुनते हैं। सुधानय सोचते हैं, इस घर में सबसे ज्यादा जीने की साध माया को ही थी। उनके साथ यदि ऐसी दुर्घटना नहीं हुई होती तो माया को पारस के दर से नहीं जाना पड़ता। और न ही उसे तापता होना होता। क्या तो किसी ने उसे सोहे के पुत के नीचे देखा है। तेकिन साश देखने कौन जायेगा? सुधानय जानते हैं कोई नहीं जायेगा। क्योंकि सभी विश्वास करना चाहते हैं, कि माया एक दिन जहर वापस आयेगी। यदि पुत के नीचे पढ़ी ताश माया की ही होगी तो हमेशा के तिए माया के तौटने की उम्मीद अपने सीने से लगाये वे जिन्दा नहीं रह पायेंगे। आज हो, कल या परसों हो, या फिर एक वर्ष, दो वर्ष या पांच वर्ष बाद, माया वापस आयेगी जस्तर, इस उम्मीद को जीवित रखना होगा। कुछ उम्मीदे ऐसी होती हैं जो मनुष्य को बगाती हैं। इस संसार में जिन्दा रहने के आधार इतने कम हैं कि कम से कम थोड़ी बहुत उम्मीदे ही बची रहें। बहुत दिनों बाद उन्होंने सुरंजन को अपने पास बुकाया। कीरब बैठने को कहा। दूटे हुए स्वर में बोते, 'दरवाजा खिलकी बंद करके रहने में बड़ी सख्ता होती है।'

'आपको तज्जा आती है, मुझे तो गुस्सा आता है।'

'तुम्हारे लिए बहुत चिन्ता होती है।' सुधामय अपना बायाँ हाथ बेटे की पीठ पर रखना चाहते हैं।

'क्यों?'

'देर रात लौटते हो। कल हरिपद आये थे, सुना है, भोला की हालत बहुत नाजुक है। हजारों लोग खुले आकाश के नीचे बैठे हैं। घर द्वार कुछ नहीं बचा है। लड़कियों को 'रेप' किया गया।'

'क्या यह सब कोई नई बात है?''

'नई ही तो है। क्या ऐसी घटनाएँ पहले कभी हुई हैं? इसीलिए तो तुम्हारे लिए डरता हूँ।'

'मेरे लिए डर? क्यों आपके लिए डर नहीं है। आप लोग हिन्दू नहीं हैं?'

'हमें और क्या करेंगे?''

'आपका सिर बूढ़ी गंगा में बहा देंगे। अभी तक इस देश के आदमियों को नहीं पहचान पाये, हिन्दुओं को पाते ही 'नाश्ता' करेंगे, बूढ़ा-लड़का नहीं मानेंगे।'

सुधामय के माध्ये पर विरक्ति की रेखाएँ उभरती हैं। वे कहते हैं, 'इस देश के आदमी क्या तुम नहीं हो?''

'नहीं, अब मैं अपने को इस देश का आदमी नहीं सोच पा रहा हूँ। बहुत सोचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सोचना सम्भव नहीं हो पा रहा है। पहले काजल दा वगैरह विषमता की बातें करते थे तो मैं उन पर गुस्साता था। कहता था, फालतू बातें छोड़िये तो, देश में करने को बड़े-बड़े काम हैं, कहाँ हिन्दुओं का क्या हो रहा है, कितने मर रहे हैं, इन बातों पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब है? अब धीरे-धीरे देख रहा हूँ वे लोग गलत नहीं कहते हैं और मैं भी अजीब सा होता जा रहा हूँ। ऐसा होने का तो नहीं सोचा था, पिता जी।' अचानक सुरंजन का स्वर बुझने लगता है।

सुधामय बेटे की पीठ पर हाथ रखते हैं। बोले, 'लोग रास्ते में तो उतरे हैं, विरोध हो रहा है। अखबारों में खूब लिखा जा रहा है। दुखियाँ लोग रोज लिख रहे हैं।'

'यह सब करके खाक होगा।' सुरंजन की आवाज में गुस्सा है, 'कटार-कुल्हाड़ी लेकर एक दल रास्ते में उतरा है, उसके विरोध में हाथ उठाकर, गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। कुल्हाड़ी का विरोध कुल्हाड़ी से करना पड़ता है। अस्त्र के सामने निहत्थी लड़ाई लड़ना बेवकूफी है।'

'तो क्या हम लोग अपने आदर्शों को तिलांजलि दे देंगे?''

'अब कैसा आदर्श? वकवास है, सब।'

इतने ही दिनों में सुधामय के बालों में और भी सफेदी आ गयी है। स्वर दूट गया है। सेहत आधी हो गयी है। फिर भी उनका मन नहीं दूटा। कहते हैं, 'अब भी तो लोग अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। इतनी भी शक्ति क्या सभी

होते हैं, विशेष रूप से क्या जनिका?

मुख्यन चुप रहता है। दह देवदत्त है, 'मुकुल रिक्षित और देवदत्त' एवं बहुत जल्द 'इस्तानिक रिक्षित जँड बास्तादेह' के ट्रॉटैट है ज़ारेट। देवा दे गापन करेगा शरीरत कानून। तइलिंगों दुर्लभ इन लर रसों से रिक्षित, देवा दे थोड़ी दाढ़ी और कुर्त वाते तोग बड़ जारेट, एवं एवं सूक्ष्म लंगेज के बड़े बड़े क्सिट-मदरसे, हिन्दुओं को चुपचाप स्थल लर देने, स्थेव लर वह तिरु उषाः है। उसे कुए के मेंढक की तरह पर में बैठे रहना पड़ता है। बाहर आन्दोलन टेक्स्टों पर विशेष-प्रतिशोध का शब्द सुनने पर उसमें शामिल होने के बजाय दरवाजे में बुड़ी तगाये बैठे रहना पड़ता है। क्योंकि उनके लिए 'रिस्फ' ज्यादा है। मुसलमान बेहिरास अपनी मांग के लिए नारे तगा सकते हैं, हिन्दू तो नहीं तगा सकते। हिन्दुओं के राम अन्याय हो रहा है, इस बात को एक मुसलमान जितनी ऊँची आवाज में कह सकता है, उतनी ऊँची आवाज में हिन्दू नहीं कह सकता है, क्योंकि बोलते हुए उआज गता जटक जाता है, कब कौन रात के अधेरे में उसकी ऊँची आवाज के लिए गता गाट जाये, कहा नहीं जा सकता। अहमद शरीफ को 'मुरताद' (पर्मदोली) पोशित करके भी उन लोगों ने जिन्दा रखा, तेकिन सुधारय को उत्थ-सीधा कहो ही चाहो भी से कला कर दिया जायेगा। हिन्दू के मुँहतोड़ होने पर भौतिकी वी तो कौन कहे, कोई प्रगतिवादी मुसलमान भी वर्दाशत नहीं करेगा। मुरज़न को सोगफ़ा हैसी जानी है तो, प्रगतिवादी लोग भी 'हिन्दू' और 'मुसलमान' नाम धारण करते हैं। मुरज़न एद को एक आधुनिक मनुष्य मानता था तेकिन अब उसे अपने को 'हिन्दू-हिन्दू' समझता है। क्या वह व्यवहार हो रहा है? शायद वह व्यवहार होता जा रहा है। मुरामा, मुरज़न को और करीब आने को कहते हैं, दूरी हुयी आवाज में पूछते हैं, 'प्यामाया को कही भी छोंज कर नहीं पाया जा सकता?'

'पता नहीं!'

'किरणमयी तो उस दिन से एक रात भी नहीं सोयी। तुम्हारे कारे में भी गाँवाड़ी रहती है। अब अगर तुम्हें कुछ हो गया....'

'मरना होगा तो मर जायेगे, कितने ही तोग तो मर रहे हैं!'

'अब योड़ा बैठ सकता है, किरणमयी गाँवाड़ा टेकर बायक्स में जानी है। पूरी तरह स्वस्थ न होने पर तो रोमी देढ़ना भी संभव नहीं होगा। दो महीने का नियामन काकी हो गया है। तुम एक नैकरी-शाकरी....'

'दूसरों की गुलामी में नहीं करूँगा!'

'परिवार दरअगत—हमारी वह ज़मीनों की को नहीं रहा। अब भी यान, दोस्ताव मर मछरी, फौलान भर दूधों का मधु दूध देवा है। दुमने ग्रामे ग्राम में बाल उमड़ा, उमड़े ग्राम में अर्जुन, अर्जुन का गाना। गाने की ज़मीन पायदृढ़ बैठ दिया, उमड़े ग्राम में अर्जुन, अर्जुन का गाना।'

सुरंजन ने डपटा, 'वेवकूफ की तरह बातें क्यों कर रहे हैं ? गाँव में जाकर आप वच जाते क्या ? मुखिया के लठैत सिर पर लाठी मार कर सब छीन नहीं लेते !'

'सब पर इतना अविश्वास क्यों करते हो ? क्या देश में एक दो अच्छे आदमी भी नहीं हैं ?'

'नहीं, नहीं हैं !'

'तुम यों ही हताशा के शिकार हो रहे हो !'

'यों ही नहीं !'

'तुम्हारे यार-दोस्त ? इतने दिनों तक तुमने जो कम्युनिज्म पढ़ा, आंदोलन किया, जिनके साथ उठे-बैठे, उनमें कोई अच्छा आदमी नहीं है ?'

'नहीं, कोई नहीं है। सभी कम्युनल हैं !'

'मुझे लगता है तुम्हीं कम्युनल हो रहे हो ?'

'हाँ, हो रहा हूँ। इस देश ने मुझे कम्युनल बनाया है। मेरा कोई दोष नहीं है !'

'इस देश ने तुम्हें कम्युनल बनाया है ?' सुधामय के स्वर में अविश्वास भरा है।

'हाँ, देश ने ही बनाया है !'

सुरंजन 'देश' शब्द पर जोर देता है। सुधामय चुप हो जाते हैं। सुरंजन कमरे की टूटी-फूटी चीजों को देखता है। काँच के टुकड़े जमीन पर अब तक विखरे पड़े हैं। पैर में नहीं चुभता यह सब ? पैर में न चुभने पर भी मन में चुभता है !

सुरंजन दिनभर घर में ही सोया रहता है। उसकी कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। किसी के साथ गपशप में भी वक्त गुजारने की इच्छा नहीं होती। क्या एक बार लोहे के पुतल की तरफ जायेगा ? एक बार नीचे की तरफ ताकेगा माया का सड़ा-गला शरीर देखने के लिए ? नहीं, आज वह कहीं नहीं जाएगा।

दोपहर बाद सुरंजन मकान के पक्के आँगन में ठहलता है, अकेला, उदास। एक समय कमरे में धूस कर सारी कितावों को आँगन में फेंकता है। कमरे में बैठी किरणमयी सोचती है, शायद उसने कितावों को सुखाने के लिए धूप में रखा है, कीड़े लगे होंगे। दास कैपिटल, लेनिन रचनावली, एन्जेल्स-मार्क्स की रचना, मार्गेन, गोर्की, दोस्तोयेवस्की, टाल्सटाय, ज्याँ पॉत सार्क्र, पावलोव, रवींद्रनाथ, मानिक बंदोपाध्याय, नेहरू, आजाद....समाज तत्व, अर्धनीति, राजनीति, इतिहास की ईट की तरह मोटी-मोटी कितावों का पन्ना फाड़-फाड़कर आँगन में बिख्योरता है, उन्हें इकट्ठा करके माचिस की तीली उनमें फेंक देता है। हिन्दू को पाकर उग्र, कट्टरवादी मुसलमान जैसे जल उठता है, वैसे ही कागज को पाकर आग धधक उठती है। काले धुएँ से आँगन भर जाता है। जती हुई गंध पाकर किरणमयी दौड़कर आती है। सुरंजन हँसकर कहता है, 'आग

तापोगी, आजो !

किरणमयी अस्फुट स्वर में कहती है, 'क्या तुम पागत हो गये हो ?'

'हाँ माँ ! बहुत दिनों तक भत्तामानुस था । अब पागत हो रहा हूँ । पागत न होने पर मन को शांति न मिलती ।'

किरणमयी दरवाजे पर छड़ा होकर सुरंजन का ध्वनि-धूम देखती है । वह नत से पानी लाकर आग बुझाये, उसका यह बोध भी तुष्ट हो जाता है । काते घुणे से सुरंजन का शरीर ढंक जाता है । किरणमयी को लगता है, सुरंजन किताबों को नहीं अपने आप को जला रहा है ।

सुधामय सोचते हैं, प्रखर, मेधावी, जीवंत लड़का जो खुद ही विषहरा भंत्र का काम करता था, अब खुद ही विषपान कर रहा है । विषपान करते-करते वह नीता पड़ता जा रहा है । उसका निःशब्द सोये रहना, दोस्तों से धीर्घकर बातें करना, रात को लड़कियों को घर पर लाना, मुसलमानों को गाली देना, किताबें जलाना....सुधामय समझते हैं, दरअसल सुरंजन को गहरी ठेस लगी है । परिवार, समाज, राष्ट्र सबके प्रति रुटकर वह अपने आप को हीनता बोध की अंधी आग में जला रहा है ।

सुरंजन को आग देखते हुए बहुत खुशी होती है । पूरे देश के हिन्दुओं का घर इसी तरह आग में जला है, इसी तरह की लपटों में । क्या सिर्फ घर-द्वार और धंदिर ही जले हैं, मनुष्य का मन नहीं जला ? अब और सुरंजन सुधामय का आदर्श धोकर पानी नहीं पियेगा । सुधामय वामपर्य में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, सुरंजन ने भी उसी एक विश्वास पर अपने आपको गढ़ा था । अब वह इस पर विश्वास नहीं करता । उसने अनेक वामपर्यियों को 'साता, मालाउन का बच्चा' कहकर गाली देते हुए पाया है । 'मालाउन' शब्द वह स्कूल से ही सुनता आ रहा है । कक्षा के दोस्तों के साथ वहस होते ही एक-दो शब्द के बाद ही वे कहते, 'मालाउन का बच्चा ।' सुरंजन की आँखें जलने लगती हैं, पानी भर आता है । वह समझ नहीं पाता है कि यह पानी किसी कप्ट के कारण आया है या आदर्श के जले घुणे से । जलना खत्म होने पर सुरंजन निश्चिन्तता की सीस छोड़ता है । सेटे हुए जब भी उसकी नजर उन किताबों पर पड़ी है, उनमें से नाना किस्म के नीति कथा के कीड़ों ने उसे कुरेद-कुरेद कर द्याया है । वह और नीति-वीति नहीं मानता । काश । वह इतने दिनों के विश्वास पर कसकर एक लात मार पाता । क्यों वह यह सब धारण करेगा, ज्ञान का व्याता मनुष्य होठों से मुआता है, गले से नीचे नहीं उतारता । वही क्यों अकेला गले से उतारेगा ?

यह के अंत में यह एक लड़ी नींद सोना चाहता है । नकिन नींद नहीं आती । रत्ना की याद आती है । बहुत दिनों से नहीं मिला है । कैसी है वह लड़की । रत्ना की गहरी, काती आँखें पट्टी जा सकती हैं । उसे और बात करने की जरूरत नहीं होती है । शायद वह सोच रही होगी, एक दिन सुरंजन आकर उसका दरवाजा छटखटायेगा, दर्द के साथ जीवन की कथाएँ छेड़ने पर रात बीत जायेगी । सुरंजन सोचता है आज ॥

को वह रला के घर जायेगा। कहेगा, क्या सिफ़ मैं ही मिलने आऊँगा? और क्या किसी की इच्छा नहीं होती है कि किसी को देखने की?

सुरंजन को विश्वास है अचानक एक उदास शाम को रला सुरंजन के घर आयेगी। कहेगी, 'अजीब खाली-खाली-सा लगता है, सुरंजन!' कितने दिनों से उसे किसी ने चुम्बन नहीं लिया। परवीन चूमती थी। परवीन उससे लिपटकर कहती थी, 'तुम मेरे हो, मेरे, मेरे सिवा और किसी के नहीं, तुम्हें आज सौ बार चूमूँगी।' कमरे में अचानक किरणमयी के आ जाने से वे अलग हो जाते थे। मुसलमान के साथ शादी होने से कोई झमेता नहीं, 'वैसा ही जीवन उसने चुन लिया। रला के मामले में तो 'जाति' का प्राक्लम नहीं। वह उसी को समर्पित करेगा अपना ठुकराया जीवन। सुरंजन जब ऐसा सोच रहा है कि आज रात को जायेगा, शरीर में जमी धूल-कालिख को धोकर धुला हुआ एक शर्ट पहनकर रला के घर जायेगा, उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलकर वह देखता है, रला खड़ी है। वहुत सजी-धजी है। चमकती हुई साड़ी, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ, शायद झनझनाकर बज भी उठीं। रला एक मीठी हँसी हँसती है। उसकी हँसी सुरंजन को विस्मित और अभिभूत करती है। 'आइए, भीतर आइए' कहते-कहते वह ध्यान देता है, एक सुदर्शन पुरुष रला के पीछे खड़ा है।

रला को वह कहाँ बैठायेगा। घर की जो बुरी हालत है। फिर भी 'बैठिये-बैठिये' कहते हुए दूटी हुई कुर्सी को आगे बढ़ा देता है। रला हँसकर कहती है, 'वोलिए तो किसे लायी हूँ?'

रला के भाई को सुरंजन ने कभी देखा नहीं है। सोचता है, कहीं वही तो नहीं है। सुरंजन को रला ज्यादा देर सोचने नहीं देती है। हाथ की चूड़ियों की तरह झनझन कर हँसते हुए बताती है, 'थे हुमायूँ हैं, मेरे पति।'

क्षणभर में उसकी छाती में एक तूफान शुरू हो गया, तूफान में उसका अंतिम सहारा रूपी वृक्ष भी जड़ से उखड़ गया। जीवन का काफी समय यूँ ही विताने के बाद वहुत इच्छा थी कि वाकी जीवन रला के साथ छोटा-सा परिवार बसाकर वितायेगा। और रला ने इस आतंक के देश में जिन्दा रहने के लिए विकल्प के रूप में मुसलमान पति को चुन लिया! सुरंजन अपमान और क्रोध से नीला पड़ गया। वह अपने अस्त-व्यस्त दरिद्र कमरे में रला और उसके सुदर्शन, संभवतः सम्पन्न भी, पति को बैठाकर भतेमानुस की तरह अच्छी-अच्छी बातें करेगा, हुमायूँ के साथ हाथ बढ़ाकर 'हैंड सेक' करेगा, चाय पिलायेगा, जाते समय हँसकर कहेगा 'फिर आइएगा।' नहीं, सुरंजन ऐसा कुछ नहीं करेगा। ऐसी सौजन्यता दिखाने का उसका मन नहीं होता है। वह अचानक घर के दोनों अतिथियों को अवाक् करते हुए कहता है, 'मुझे वहुत जरूरी काम से बाहर निकल ना पड़ रहा है, आपके साथ बैठने के लिए मेरे पास समय नहीं है।' वे दोनों इतने अपमानित होते हैं कि 'सॉरी' कहकर तेजी से बाहर निकल

जाते हैं। सुरंजन दरवाजे के दोनों पल्टों को जोर से बंद करता है, दरवाजे से पीछे लगा कर छाड़ा रहता है। काफी देर तक छाड़ा रहने के बाद किरणमयी जब अंदर आकर कहती है 'जो ठप्पे उधार लाये थे, उसे वापस कर दिये हो तो ?' तब उसकी चेतना वापस आती है। 'उधार' शब्द विष बुझे तीर की तरह सुरंजन की छाती में चुभता है। वह किरणमयी के उट्टिश चेहरे की तरफ रिस्फ देखता है, कहता कुछ नहीं।

सुरंजन को लगता है, साँस रुक गयी है। मानो यह कमरा लोहे का एक बकरा है जिसे छोलकर वह बाहर नहीं निकल पा रहा है। कुछ देर तक ब्राम्भ में टहलता रहा, फिर भी उस पर सावन की बारिश की तरह आकाश से दुख झरने लगा। किरणमयी चुपचाप एक कप चाय टेब्बुल पर रख जाती है। सुरंजन ने देखा, तेकिन चाय की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। थोड़ी देर तक लेटता है, फिर उठकर छाड़ा हो जाता है। क्या वह एक बार सोहे के पुल की तरफ जायेगा ? लोहे के पुल की बात सोचते ही उसकी छाती कौप उठती है। उसे लगता है, उसकी भी लाश सङ्गत कर नाली में पड़ी रहेगी। यह घर एक स्थिर पोखर की तरह निस्तब्ध है। जिस तरह जल के कीड़े जल पर निःशब्द चलते रहते हैं, उसी प्रकार घर के तीनों प्राणी जलकीड़े की तरह घलते हैं। किसी को किसी के पैर की आहट सुनाई नहीं देती।

अचानक किरणमयी पूरी भुतही निस्तब्धता तोड़ देती है। कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले सुरंजन को एक कप चाय दे जाती है, वह रो पड़ती है। उसके बिलखकर रोने की आवाज से सुधामय चिकित होकर उठकर बैठ जाते हैं, सुरंजन भी दौड़कर आता है। देखता है, किरणमयी कमरे की दीवार से माथा टेककर रो रही है। उसे किरणमयी को चुप कराने का साहस नहीं होता है। यह रोना रुकने के लिए नहीं है, यह रोते जाने का है, दीर्घ दिवस, दीर्घ रजनी का जल जब जमते-जमते हृदय की नदी जब उमड़ पड़ना चाहती है, तब कोई बीघ नहीं होता उसे रोके रख पाने के लिए। सुधामय भी सिर झुकाये स्थिर; रोने से उभर आया तीव्र हाहाकार उनके भी सीने में जाकर चुभता है। रोना थमता नहीं। क्यों रो रही है किरणमयी, कोई नहीं पूछता; क्यों उनका यह हृदय विदारक आत्माद, मानो यह सुधामय और सुरंजन दोनों जानते हैं, उनको पूछने की जरूरत नहीं है।

सुरंजन दरवाजे पर छाड़ा था, चुपचाप कमरे में घुसता है, ताकि किरणमयी उसके पैरों की आहट रुन कर रुक न जाय। उसके अंदर का घर-द्वार दूटकर गिर जाता है, चूर-चूर हो जाता है, जल जाता है, राख हो जाता है उसका सजाया हुआ स्वर्म। जिस तरह से किरणमयी घर की निस्तब्धता को तोड़कर रो पड़ी थी, उसी तरह सुरंजन भी अचानक चीख उठा - 'पिताजी !'

गुपामय चीक उठे। सुरंजन ने उनके दोनों हाथों को जोर से पकड़कर कहा, 'पिताजी, मैं कल सारी रात एक ली बात रोचता रहा। आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ। फिर भी कह रहा हूँ, आप मेरी बात मान जाइए। मान जाइये पिताजी।

चतिए, हमलोग कहीं चले जाते हैं।'

सुधामय ने पूछा, 'कहाँ ?'

'इण्डिया।'

'इण्डिया ?' सुधामय इस तरह चौंक पड़े मानो एक विचित्र शब्द सुना हो, मानो 'इण्डिया' एक अश्लील शब्द है, एक निषिद्ध शब्द, इसे उच्चारित करना अपराध है।

किरणमयी का रोना धीरे-धीरे थम जाता है। वह सुबकती रहती है, सुबकते-सुबकते जमीन पर उकड़ूँ होकर पड़ी रहती है। सुधामय के माये पर भीषण विरक्ति की रेखाएँ उभरती हैं। कहते हैं, 'इण्डिया तुम्हारे बाप का घर है, या दादा का ? तुम्हारी चौदह पीढ़ी के किसका घर है इण्डिया में, जो इण्डिया जाओगे ? अपना देश छोड़कर भागने में लज्जा नहीं आती ?'

'देश को धोकर पानी पियेंगे पिताजी ? देश ने आपको क्या दिया है ? क्या दे रहा है मुझे ? माया को क्या दिया है आप के देश ने ? माँ को क्यों रोना पड़ता है। आपको क्यों रात-रात भर कराहना पड़ता है ? मुझे क्यों नींद नहीं आती है ?'

'दंगे तो सभी जगह होते हैं। इण्डिया में नहीं हो रहे हैं ? वहाँ लोग नहीं मर रहे हैं ? कितने लोग मर रहे हैं, खबर है ?'

'दंगा तो अच्छी चीज है पिताजी, यहाँ तो दंगा नहीं हो रहा है, मुसलमान हिन्दुओं को मार रहे हैं।'

'खुद को हिन्दू समझते हो तुम ?' सुधामय उत्तेजना में विस्तर से उठना चाहते हैं। उन्हें दोनों हाथों से रोकते हुए सुरंजन कहता है, 'चाहे हम कितना ही नास्तिक क्यों न हों, कितना ही मानवतावादी हों, लोग हमें 'हिन्दू' ही कहेंगे, 'मालाउन' ही कहेंगे। इस देश को जितना प्यार करूँगा, जितना अपना सोचूँगा, यह देश हमें उतना ही दूर धकेलेगा। मनुष्य को जितना प्यार करूँगा, उतना ही दरकिनार कर दिया जाऊँगा। इनका कोई भरोसा नहीं है पिताजी। आप तो कितने ही मुसलमान परिवारों का मुफ्त में इलाज करते हैं, इस दुर्दिन में उनमें से कितने आकर आपके बगल में छड़े हुए ? हम सब को भी माया की तरह लोहे के पुल के नीचे मर कर पड़ा रहना होगा। पिताजी चतिए चले चलते हैं।' सुरंजन सुधामय के ऊपर झुक जाता है।

'माया लौट आयेगी।'

'माया नहीं लौट आयेगी पिताजी। माया नहीं लौटेगी।' सुरंजन के गते से जमे हुए दुःख का एक थक्का बाहर निकलता है।

सुधामय सो जाते हैं। उनका शरीर ढीला पड़ जाता है। बड़वड़ाते हुए कहते हैं, माया को ही जब नहीं बचाया जा सका, तो और किसे बचाने जाऊँगा ?

'खुद को। जितना कुछ खो चुका हूँ, उसके लिए शोक मनाने को यहाँ वैठा रहूँगा? इस भयानक असुरक्षा के बीच ? उससे अच्छा है, चतिए चले चलें।'

'वहाँ क्या करेंगे ?'

'वहाँ जो भी होगा कुछ करेंगे। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं ? क्या हमलोग वहुत अच्छे हैं ? वहुत सुख से ?'

'जङ्गहीन जीवन...''

'जङ्ग लेकर क्या करेंगे पिताजी ? यदि जङ्ग से ही कुछ हो सकता, तो इस तरह दराजा, खिड़की बंद करके क्यों पड़े रहना होता ? सारी उम्र क्या इस तरह कुरैं के मेंढक की तरह जीवन विताना होगा । ये लोग बोत-बात में हमारे घरों पर हमता करेंगे, ये लोग हमें जबह करने के आदी हो चुके हैं । इस तरह चूहे जैसा जीवन विताने में हमें लन्जा आती है पिताजी । गुस्सा भी आता है । मैं कुछ कर नहीं सकता । मुझे गुस्सा आने पर क्या मैं उनके दो घर भी जला सकूँगा ? क्या हमलोग मूर्खों की तरह ताकते हुए अपना सर्वनाश देखेंगे ? कुछ कहने का, कोई मुसलमान मुझे एक थप्पड़ मारे तो क्या उसे जवानी थप्पड़ मारने का मुझे अधिकार है ? चलिए, चले जाते हैं ।'

'अब तो परिस्थिति शांत होती जा रही है । इतना क्यों सोच रहे हो ? आवेग के सहारे जिन्दगी नहीं चलती ।'

'शांत होता जा रहा है ? सब ऊपर-ऊपर से । भीतर छूरता रह ही गई है । भीतर भर्यकर दौत, नाखून निकाले हुए जाल विछाये वैठे हैं वे । आप धोती उतार कर आज पाजामा क्यों पहनते हैं ? क्यों आपको धोती पहनने की स्वतंत्रता नहीं है ? चलिए चले चलते हैं ।'

सुधामय गुस्से में दौत पीसते हैं, कहते हैं, 'नहीं । मैं नहीं जाऊँगा । तुम्हारी इच्छा ही तो तुम चले जाओ ।'

'आप नहीं चलेंगे ?'

'नहीं,' घृणा और वित्त्या से सुधामय मुँह फेर लेते हैं ।

'फिर कहता हूँ पिताजी, चलिए चले चलते हैं ।' सुरंजन ने पिता के कंधे पर हाथ रखकर मुलायम स्वर में कहा । उसकी आवाज में कष्ट था, आँसू थे ।

सुधामय ने पहले की ही तरह दृढ़ स्वर में कहा, 'ना' । यह 'ना' सुरंजन की पीठ पर चावुक की तरह पड़ा ।

सुरंजन असफल हुआ । वह जानता था वह सफल नहीं होगा । सुधामय जैसे कठोर व्यक्ति सात-जूता खाकर भी माटी पकड़कर पड़े रहेंगे । माटी के साँप, बिचू उन्हें काटेंगे, फिर भी वह मिट्टी में ही घुसे रहेंगे ।

किरणमयी की रुलाई रुक गई थी । वह एक राधाकृष्ण की तस्वीर के सामने झुकी हुई थी, इससे पहले सुरंजन ने घर में गणेश की एक मूर्ति देखी थी, शायद मुसलमानों ने उसे तोड़ दिया है । किरणमयी ने शायद राधाकृष्ण की इस तस्वीर को कहीं छिपा कर रखा था । भगवान कृष्ण से वह सुरक्षा, निश्चन्तता, निश्चयता, शातिपूर्ण जीवन के निए प्रस्तुति कर रही है ।

निराशा के अधाह जल में सुरंजन अकेला तैरता रहता है । रात हो जाती है । रात अठूरती है । वह बड़ा अकेला महसूस करता है । कोई नहीं है, कोई मटदगार नहीं है । उसका अपना ही देश अपने को प्रवास लगता है । वह अपने तक, तुँड़ि, विवेक सहित अपने में रिमटता जाता है । उसका उदार, सहिण, तर्कवादी मन, हडताल,

कर्ष्यू और आतंक के देश में क्रमशः संकुचित होता जाता है। वह रिक्त होता जाता है, अपने बंद दरवाजा-खिड़की वाले कमरे में उसे साँस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिल पाती। मानो वे सभी एक भयावह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब और माया के लिए नहीं, अपने भविष्य की आशंका से सबका हृदय कौप उठता है। वे अकेले पड़ते जा रहे हैं, जान-पहचान के लोग, मुसलमान दोस्त और पड़ोसी देखने आ रहे हैं, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा है, हमारे जीवन की जैसे एक निश्चयता है, वैसी ही आपकी भी है। आप लोग कुंठित मत होइए। सिकुड़े-सिमटे मत रहिए। आप लोग निर्भय होकर चलिए, निर्विघ्न अपना काम कीजिए, दिल खोल कर हँसिए, निश्चिन्त होकर सोइए।

रात भर एक भयंकर अस्थिरता सुरंजन को नोच खाती है।

रात के आखिरी पहर में सुरंजन को नींद आती है। नींद में वह एक अदंभुत स्वप्न देखता है। अकेला एक नदी के तट से होकर वह चला जा रहा है। चलते-चलते वह देखता है, नदी की एक उन्मत्त लहर उसे खींचकर गहराई में ले जाती है, वह भैंवर में फँस गया है, भीतर धँसता जा रहा है, वह बचना चाह रहा है लेकिन कोई नहीं है जो उसके असहाय हाथ को पकड़कर उसे तट की ओर खींच ले। वह पसीना-पसीना हो जाता है, वह फुँफकारते हुए अनजाने पानी में धँसता चला जाता है। ऐसे समय में एक शांत, स्नाग्ध हाथ उसे स्पर्श करते हुए जगाता है। सुरंजन चौंक उठता है। डर से उसका चेहरा विवर्ण हो जाता है। भैंवर का पानी उसे डुबोये जा रहा था, वह जी-जान से चिल्ला रहा था, एक तिनके के सहारे के लिए हाथ बढ़ा रहा था। स्वप्न में मानो उसे बचाने के लिए एक हाथ आगे आया। सुरंजन तुरंत सुधामय के मजबूत हाथ को जकड़ लेता है।

किरणमयी के कंधे का सहारा लिए हुए वे चलकर आये हैं। उनके शरीर में थोड़ी-थोड़ी ताकत आ रही है। वे सुरंजन के सिरहाने बैठते हैं। उनकी आँखों में दूर नक्षत्र की ज्योति है।

‘पिता जी ?’

एक गूँगी जिज्ञासा सुरंजन के भीतर धक्-धक् करती है। तब सुवह हो रही थी। खिड़की की दरार से एक टुकड़ा रोशनी अंदर आ रही है। सुधामय ने कहा, ‘चलो, हमलोग चलते हैं।’

सुरंजन विस्मित होता है। पूछता है, ‘कहाँ पिताजी ?’

सुधामय ने कहा, ‘इण्डिया !’

सुधामय को कहने में लज्जा होती है, उनका स्वर कौपता है, फिर भी वे चले जाने की बात कहते हैं; क्योंकि उनके भीतर का वह कठोर पहाड़ भी दिन-ब-दिन धँसता जा रहा है।

प्रथम फैलीप का शेष]

जाती है। वे यह दियाने की कोशिश करती हैं कि इसका संर्वप मूलतः धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल से है। यद्यपि पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद कायदे-आजम मुहम्मद अंती जिन्ना ने घोषणा की थी कि धर्म नहीं, जातीयता ही किसी समुदाय को एक रथ सकती है, सेकिन पाकिस्तान के दूषित्हीन शासकों ने इस आदर्श को तिलाजति दे दी और वे पाकिस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने पर तुल गये। सेकिन क्या धर्म का बंधन पाकिस्तान को एक रथ सका? बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम एक सर्वपा सेकुलर संघर्ष था। किन्तु सेकुलरवाद का यह आदर्श स्वतंत्र बांग्लादेश में भी ज्यादा दिन टिक नहीं सका। वहाँ भी, पाकिस्तान की तरह ही धर्मतात्रिक राज्य बनाने की अपार्विक कोशिश की गयी। नरीजों यह हुआ कि बांग्लादेश में वह बदसूरत आए फिर तुलग उटी, जिसके कारण पहले के दशकों में लाठों हिन्दुओं को देश-न्याय करना पड़ा था। संकेत स्पष्ट है जब भी धर्म और राजनीति का अनुचित सम्बन्धित होगा, समाज में तरह-तरह की वर्ताएँ फैलेंगी।

तरालीमा नसरीन मूलतः नारीवादी तेजिका है। वे स्त्री की पूर्ण स्वाधीनता की प्रधार पक्षपार हैं। अपने अनुभवों से वे यह अच्छी तरह जानती हैं कि स्त्री के साथ होने वाला अन्याय व्यापक सामाजिक अन्याय का ही अंग है। इसीलिए वे यह भी देख सकीं कि कहरतावाद सिर्फ अत्यस्तुष्यकों का ही विनाश नहीं करता, बल्कि बहुस्तुष्यकों का जीवन भी दूषित कर देता है। कठमुत्ते पंडित और शौतवी जीवन के हर क्षेत्र को विकृत करना चाहते हैं। तुरंजन और परवीन एक-दूसरे को प्यार करते हुए भी वियाह के बंधन में नहीं बंध सके, क्योंकि दोनों के खील धर्म की दीवार थी और माहौल धर्मोन्माद से भरा हुआ था। धर्मोन्माद के माहौल में राबरों ज्यादा कहर स्त्री पर ही दूटता है : उसे तरह-तरह से रीभित और प्रताड़ित किया जाता है। तुरंजन की बहन माया का अपहरण करने वाले क्या किसी पार्विक आदर्श पर घट रहे थे? उपन्यास का अंत एक तरह की हताशा से भरा हुआ है और यह हताशा सिर्फ तुरंजन के आस्थावान पिता सुधारण की नहीं, हम सबकी लज्जा है, क्योंकि हम अब भी इस उपमहादेश में एक मानवीय समाज नहीं बना पाये हैं।

यह एक नये ढंग का उपन्यास है। क्या के साथ रिपोर्टिं और टिप्पणी का रित्तसिता भी चलता रहता है। इसीलिए यह हमें तिर्फ भिगोता नहीं, सोचने-विचारने की पर्याप्ति सामग्री भी मुहैया करता है। कहानी और तथ्य उपन्यास में उरी तरह घुते-पिते हुए हैं, जिस तरह कल्पना और पर्यार्थ जीवन में। आज्ञा है, तरालीमा की यह विणारोत्तेजक कृति हिन्दी पाठक को न केवल एक नयी कथाभूमि से परियोग करायेगी, बल्कि उसे एक नया विचार संस्कार भी देगी।

प्रथम फृतप का शाय

जाती है। वे यह दिखाने की कोशिश करती हैं कि इसका सर्वथ मूलतः धर्म के राजनीतिक इस्तेमात से है। दण्डपि पाकिस्तान का निर्वाण होने के बाद कायदे-आजम मुहम्मद अंती जिना ने घोषणा की थी कि धर्म नहीं, जातीयता ही किसी समुदाय को एक रथ सकती है, तैकिल पाकिस्तान के दृष्टिहीन शासकों ने इस आदर्श को तिलाजति दे दी और वे पाकिस्तान को एक मुस्तिम राष्ट्र बनाने पर तुल गये। तैकिल क्या धर्म का बंधन पाकिस्तान को एक रथ सका? बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम एक सर्वथा देशुत्तर संघर्ष था। किन्तु सेन्कुलरवाद का यह आदर्श स्वतंत्र बांग्लादेश में भी ज्यादा दिन टिक नहीं सका। वहाँ भी, पाकिस्तान की ताह ही धर्मतात्त्विक राज्य बनाने की अपर्मिक कोशिश की गयी। नतीजों यह हुआ कि बांग्लादेश में वह बदगूरत आग फिर सुलग उठी, जिसके कारण पट्टे के दशाओं में लायों दिन्दुओं को देश-त्याग करना पड़ा था। संकेत स्पष्ट है यह भी धर्म और राजनीति का अनुचित सम्बन्ध होगा, समाज में तरह-तरह की बर्चताएँ फैलेंगी।

तरलीया नसरीन मूलतः नारीदादी लेखिका है। वे स्त्री की पूर्ण स्वाधीनता की प्रस्तुर पक्षपात्र हैं। अपने अनुभवों से वे यह अच्छी तरह जानती हैं कि स्त्री के साथ होने वाला अन्याय व्यापक सामाजिक अन्याय का ही अंग है। इसीलिए वे यह भी देख सकीं कि कटूरतावाद सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही विवाश नहीं करता, बल्कि बहुसंख्यकों का जीवन भी दूषित कर देता है। कठमुल्ते पंडित और मौतवी जीवन के छर क्षेत्र को विकृत करना चाहते हैं। सुरेजन और परवीन एक-दूसरे को प्यार करते हुए भी विवाह के बंधन में नहीं बंध सके, क्योंकि दोनों के बीच धर्म की दीवार थी और माझीत धर्मोन्याद से भरा हुआ था। धर्मोन्याद के माझील में सबसे ज्यादा कहर स्त्री पर ही दूटता है : उसे तरह-तरह से सीमित और प्रताङ्गित किया जाता है। सुरेजन की बहन मादा का अपहरण करने वाले क्या किसी धार्मिक आदर्श पर चल रहे थे? उपन्यास का अंत एक तरह की हताशा हे भरा हुआ है और यह हताशा सिर्फ सुरेजन के आस्थावान रिता सुधामय की नहीं, हम सबकी लज्जा है, क्योंकि हम अब भी इस उपमहादेश में एक मानवीय समाज नहीं बना पाये हैं।

यह एक नये ढंग का उपन्यास है। कथा के साथ रिपोर्टर और टिप्पणी का सितासिला भी घतता रहता है। इसीलिए यह हमें सिर्फ भिगोता नहीं, सोचने-विचारने की पर्याप्त सामग्री भी मुहैदा करता है। कहानी और तथ्य उपन्यास में उसी तरह घुते-भिले हुए हैं, जिस तरह कल्पना और यथार्थ जीवन में। आशा है, तरातीमा की यह विचारोत्तंजक कृति हिन्दी वालक को न केवल एक नदी कथामूलि हो परिवर्तित करायेगी, बल्कि उसे एक नया विचार संस्कार भी देगी।